



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 40] नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 7—अक्टूबर 13, 2006 (आश्विन 15, 1928)  
No. 40] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 7—OCTOBER 13, 2006 (ASVINA 15, 1928)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग III—खण्ड 1

## [PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India]

संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-110 069, दिनांक 31 जनवरी 2006

सं. ए. 38013/11/2005-प्रशा.3--श्री आर. के. बोडवाल, अनुभाग अधिकारी (तदर्थ), के.स.से.स., संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के परिणामस्वरूप वे दिनांक 31 जनवरी, 2006 अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

एस. आनंदन  
अवर सचिव (प्रशा.)

राष्ट्रपति, निम्नलिखित नियमित सहायकों, जो स्थानापन्न रूप से अनुभाग अधिकारी (तदर्थ) के पद पर कार्यरत हैं को तारीख 05.06.2006 के पूर्वाह्न से संघ लोक सेवा आयोग के केंद्रीय सिविल सेवा संवर्ग में अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

क्रम सं. नाम

(सर्व/श्री)

1. किशन लाल
2. ललित महाजन

नई दिल्ली-110 069, दिनांक 5 जुलाई 2006

सं. ए. 12025(ii)/1/2003-प्रशा.3--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 5 जून, 2006 के कार्यालय ज्ञापन सं. 05/25/2004 सी एस-1 के तहत वरिष्ठता कोटा के अंतर्गत वर्ष, 2003 की अनुभाग अधिकारियों की चयन सूची में शामिल करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग के केंद्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग में नामित किए जाने के परिणामस्वरूप

दिनांक 6 जुलाई 2006

सं. ए. 32014/1/2004-प्रशा.3--वर्ष, 2004 के लिए सम्मिलित सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा, 2004 के आधार पर अनुभाग

दिनेश कुमार  
अवर सचिव (प्रशा.)

अधिकारी ग्रेड की सूची में शामिल किए जाने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 6 जून, 2006 के कार्यालय ज्ञापन सं. 06/3/2006 सी एस-1 के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के केंद्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग में नामित किए जाने के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति, केंद्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के श्री मोहन चंद्र भट्ट (रैंक-125), डाक विभाग, संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वैयक्तिक सहायक को तारीख 30.06.2006 के पूर्वाह्न से संघ लोक सेवा आयोग के केंद्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग में अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

दिनेश कुमार  
अवर सचिव (प्रशा.)

दिनांक 10 जुलाई 2006

सं. ए. 32014/1/2004-प्रशा.3--वर्ष, 2004 के लिए सम्मिलित सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा, 2004 के आधार पर अनुभाग अधिकारी ग्रेड की चयन सूची में शामिल किए जाने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 6 जून, 2006 के कार्यालय ज्ञापन सं. 06/3/2006 सी एस-1 के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के केंद्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग में नामित किए जाने के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति, केंद्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग की वैयक्तिक सहायक, श्रीमती ममता बत्रा (रैंक सं.-235) को तारीख 10.07.2006 के पूर्वाह्न से संघ लोक सेवा आयोग के केंद्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग में अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

दिनेश कुमार  
अवर सचिव (प्रशा.)

दिनांक 21 जुलाई 2006

सं. ए. 12025(ii)/1/2003-प्रशा.3--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 5 जून, 2006 के कार्यालय ज्ञापन सं. 05/25/2004 सी एस-1 के तहत वरिष्ठता कोटा के अंतर्गत वर्ष, 2003 के अनुभाग अधिकारी ग्रेड की चयन सूची में शामिल करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग के केंद्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग में नामित किए जाने के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति, मंत्रालयों/विभागों जैसाकि प्रत्येक के नाम के सामने दर्शाया गया है, के केंद्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के निम्नलिखित नियमित सहायकों, जो स्थानापन्न रूप से अपने संबंधित संवर्गों में अनुभाग अधिकारी (तदर्थ) के पद पर कार्यरत हैं, को प्रत्येक के सामने दर्शाई गई तारीख से संघ लोक सेवा आयोग के केंद्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग में अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं :--

नाम	संवर्ग जिससे संबंधित हैं	नियुक्ति की तारीख
1	2	3
सर्व/श्री		
एस. रवि कुमार	सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय	14.07.2006 (अपराह्न)
ए.के. दास	सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय	14.07.2006 (अपराह्न)

1	2	3
आर.एन. भारती	सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय	14.07.2006 (अपराह्न)
आर.सी. ध्यानी	सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय	14.07.2006 (अपराह्न)
नरेन्द्र पाल	स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय	18.07.2006 (पूर्वाह्न)
अनिल कुमार	स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय	18.07.2006 (पूर्वाह्न)
एस.आर. टोप्पो	स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय	18.07.2006 (पूर्वाह्न)
एम.के. बसनोत्रा	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	18.07.2006 (पूर्वाह्न)
सुरेन्द्र कुमार	कृषि मंत्रालय	19.07.2006 (पूर्वाह्न)

दिनेश कुमार  
अवर सचिव (प्रशा.)

दिनांक 7 अगस्त 2006

सं. ए. 32014/2/2004-प्रशा.3--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 21 जुलाई, 2006 के कार्यालय ज्ञापन सं. 21/61/2005-सी एस-1 के तहत तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के रूप में नामित किए जाने के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति, केंद्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के गृह तथा नागर विमानन मंत्रालय के निम्नलिखित नियमित सहायकों को प्रत्येक के सामने दर्शाई गई अवधि हेतु अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो स्थानापन्न रूप से संघ लोक सेवा आयोग के केंद्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग में तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं :--

क्रम सं.	नाम	तदर्थ पदोन्नति की तारीख
	सर्व/श्री	
1.	एस. चक्रवर्ती	25 जुलाई, 2006 से 31 दिसम्बर, 2006
2.	पी.के. मल्होत्रा	28 जुलाई, 2006 से 31 दिसम्बर, 2006

2. तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के रूप में उपरोक्त सहायकों की पदोन्नति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :--

- (1) तदर्थ नियुक्ति से इस ग्रेड में अनिश्चितकाल तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल होने अथवा केंद्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में दावा करने का उनको कोई हक नहीं होगा।

(II) तदर्थ व्यवस्था तब तक जारी रखी रहेगी जब तक कि अनुभाग अधिकारी ग्रेड में नियमित उम्मीदवार या तो वरिष्ठता कोटा और/अथवा सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा उपलब्ध नहीं होते हैं। यदि तदर्थ आधार पर नियुक्त अनुभाग अधिकारी इन दो श्रेणियों में से किसी एक में भी नियमित नियुक्ति के लिए अर्हता नहीं प्राप्त करते हैं तो, का. तथा प्रशि. विभाग द्वारा आर्बिट्रल उनके संबंधित संवर्ग में संबंधित अधिकारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से उन्हें सहायक ग्रेड में प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।

दिनेश कुमार  
अवर सचिव (प्रशा.)

दिनांक 5 सितम्बर 2006

सं. ए. 32011/1/2005-प्रशा.1--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (स्थापना अधिकारी का कार्यालय) के दिनांक 30 अगस्त, 2006 के का.ज्ञा. सं. 21/3/2001 ई ओ (एम एम-1)(पी टी) के अनुसरण में श्री एम.पी. सिंह आई सी ओ ए एस (88) का कार्यकाल संघ लोक सेवा आयोग में संयुक्त सचिव (निदेशक स्तर) के पद पर तीन महीने की अवधि अर्थात् 06.09.2006 से 06.12.2006 तक के लिए बढ़ाई जाती है।

2. श्री एम.पी. सिंह की केंद्र में गणना 07.09.2001 से की जाएगी।

दिनेश कुमार  
अवर सचिव (प्रशा.)

दिनांक 12 सितम्बर 2006

सं. ए. 32014/1/2004-प्रशा.3--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25 अगस्त, 2006 के कार्यालय ज्ञापन सं. 06/3/2006 सी एस-1 के द्वारा सम्मिलित सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा, 2004 के आधार पर अनुभाग अधिकारी ग्रेड की सूची, 2004 में शामिल किए जाने के लिए संघ लोक सेवा आयोग के केंद्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग में नामित किए जाने के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति, केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के श्री अशोकन पी.के. (रैंक-219), माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के वैयक्तिक सहायक को तारीख 01.09.2006 के पूर्वाह्न से संघ लोक सेवा आयोग के केंद्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग में अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

दिनेश कुमार  
अवर सचिव (प्रशा.)

नई दिल्ली-110 069, दिनांक 17 अगस्त 2006

सं. ए. 32014/1/2006-प्रशा.3--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग के केंद्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के निम्नलिखित सहायकों को उनमें से प्रत्येक के सामने दर्शाई गई अवधि तक अथवा आगामी आदेशों तक,

इनमें से जो भी पहले हो, स्थानापन्न रूप से तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं :--

क्रम सं.	नाम	तदर्थ पदोन्नति की अवधि
	सर्वश्री	
1.	राकेश पीटर	14.8.2006 से 31.12.2006 तक
2.	जगदीश चंदर-II	14.8.2006 से 31.12.2006 तक
3.	जयकिशोर (अ.जा.)	14.8.2006 से 31.12.2006 तक
4.	के.सी. शर्मा-I *	14.8.2006 से 30.11.2006 तक
5.	श्रीमती वीना कानूनगो	14.8.2006 से 31.12.2006 तक

\*अधिवर्षिता प्राप्त करने पर 30.11.2006 (अप.) को सेवानिवृत्ति।

2. तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के रूप में उपरोक्त सहायकों की पदोन्नति निम्नलिखित शर्तों के अधधीन होगी :--

(I) तदर्थ पदोन्नति पूर्णतः कामचलाऊ व्यवस्था के रूप में है तथा इस ग्रेड में अनिश्चितकाल तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल होने अथवा अनुभाग अधिकारी ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का उनको कोई हक नहीं होगा।

(II) तदर्थ व्यवस्था तब तक जारी रहेगी जब तक कि अनुभाग अधिकारी ग्रेड में नियमित उम्मीदवार या तो वरिष्ठता कोटा और/अथवा सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा (एल डी सी ई) द्वारा उपलब्ध नहीं होते हैं। यदि तदर्थ आधार पर नियुक्त अनुभाग अधिकारी इन दो श्रेणियों में से किसी एक में भी नियमित नियुक्ति के लिए अर्हता नहीं प्राप्त करते हैं तो नियमित अनुभाग अधिकारी उपलब्ध होने पर उन्हें सहायक ग्रेड में प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।

के. एम. शशिधरन  
अवर सचिव (प्रशा.)

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली-110 003, दिनांक 21 सितम्बर 2006

सं. डीपी/पर्स.1/2006/201/ए-20023/4/82--श्री सुमंत कुमार सक्सेना, उप विधि सलाहकार, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 31.08.2006 (अपराह्न) से अपने पद का कार्यभार त्याग दिया।

एस. के. रंजन  
प्रशासन अधिकारी (कार्मिक)

सं. डीपी/पर्स.1/2006/207/3/47/95--राष्ट्रपति ने श्री दया राम संखवार, वरिष्ठ लेखा अभियोजक, के. अ. ब्यूरो को 14.08.2006 पूर्वाह्न से अगले आदेश तक, के. अ. ब्यूरो में उप विधि सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है।

एस. के. रंजन  
प्रशासन अधिकारी (कार्मिक)

सं. डीपी/पर्स.1/2006/208/3/9/88--राष्ट्रपति ने श्री वीरेन्द्र कुमार, वरिष्ठ लोक अभियोजक, के. अ. ब्यूरो को 24.08.2006 अपराह्न से अगले आदेशों तक, के. अ. ब्यूरो में उप विधि सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है।

एस. के. रंजन  
प्रशासन अधिकारी (कार्मिक)

#### केन्द्रीय सतर्कता आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 26 सितम्बर 2006

सं. 2/2/06-प्रशासन--केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त एतद्वारा आयोग में अनुभाग अधिकारी श्री राजीव वर्मा, को अवर सचिव के पद पर वेतनमान रु. 10,000-325-15,200/- में तदर्थ रूप से दिनांक 28.8.2006 (पूर्वाह्न) से तीन माह की अवधि अथवा अगले आदेशों तक जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त करते हैं।

मांगे लाल  
उप सचिव  
कृते केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त

सं. 2/3/06-प्रशासन/36271--केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त एतद्वारा आयोग में सहायक श्री नारायण सिंह रावत को अनुभाग अधिकारी के पद पर वेतनमान रु. 6,500-200-10,500/- में तदर्थ रूप से दिनांक 28.8.2006 (पूर्वाह्न) से तीन माह की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त करते हैं।

मांगे लाल  
उप सचिव  
कृते केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त

सं. 2/21/06-प्रशासन/36276--केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त एतद्वारा आयोग में अवर सचिव श्री सुरजीत सिंह को विशेष कार्य अधिकारी के पद पर वेतनमान रु. 12,000-375-16,500/- में तदर्थ रूप से दिनांक 21.9.2006 (पूर्वाह्न) से तीन माह की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त करते हैं।

मांगे लाल  
उप सचिव  
कृते केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त

#### गृह मंत्रालय

महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

नई दिल्ली-110 003, दिनांक 12 सितम्बर 2006

सं. ओ.दो.-6446/2006-कार्मिक-I--सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवा निवृत्त होने संबंधी नोटिस दिनांक 01.07.2006 के स्वीकार हो जाने के फलस्वरूप श्री सुनील कुमार राणा, सहायक कमान्डेन्ट (आई.आर.एल. ए.-6446), 76 बटालियन, के.रि.पु. बल ने दिनांक 01.07.2006 (पूर्वाह्न) को अपने पद से कार्यभार त्याग दिया। तदनुसार उनका नाम इस बल की नफरी से दिनांक 01.07.2006 (पूर्वाह्न) से निकाला जाता है।

रणजीत सिंह  
अपर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक-I)

दिनांक 14 सितम्बर 2006

सं. ओ.दो.-3697/06-सी.आर.सी.(एम.ओज.)--राष्ट्रपति जी, डॉक्टर दिनेश मिश्रा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश जारी होने तक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में चिकित्सा अधिकारी के पद पर दिनांक 4.9.2006 (पूर्वाह्न) से सहर्ष नियुक्त करते हैं। तदनुसार उन्हें 166 बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में तैनात किया जाता है।

रणजीत सिंह  
अपर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक-I)

दिनांक 15 सितम्बर 2006

सं. ओ.दो.-3696/06-सी.आर.सी. (चिकित्सा)--राष्ट्रपति जी, डॉक्टर नवीन गंभीर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश जारी होने तक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में चिकित्सा अधिकारी के पद पर दिनांक 14.8.2006 (पूर्वाह्न) से सहर्ष नियुक्त करते हैं। तदनुसार उन्हें 116 बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में तैनात किया जाता है।

रणजीत सिंह  
अपर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक-I)

नई दिल्ली-110 003, दिनांक सितम्बर 2006

सं. ओ.दो.-3111/92-(कार्मिक-1)--सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर जाने के लिए 95 बटालियन, के.रि.पु. बल, के श्री जी.सी. भट्ट, द्वितीय कमान अधिकारी (ईरला-3516) द्वारा प्रस्तुत दिनांक 14.11.2005 का नोटिस प्राप्त होने के फलस्वरूप सक्षम प्राधिकारी ने केरिपुबल नियमावली 1955 के नियम-43 (घ) के साथ पठित के.सि. से. (पेंशन) नियमावली-1972 के नियम 48-क के नीचे भारत सरकार के निर्णय संख्या (iii) तथा नियम 48-क के उप नियम (3-क)(ख) के तहत उक्त नोटिस दिनांक 16.03.2006 (पूर्वाह्न) से स्वीकार कर लिया है।

2. केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा प्रस्तावित सतर्कता जांच के कारण स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति को स्वीकार करने में देरी हुई है। पुलिस महानिरीक्षक बिहार सेक्टर द्वारा दिनांक 14.11.2005 का नोटिस कुछ आपत्तियों के साथ संबंधित अधिकारी को वापिस कर दिया था। आपत्तियों के समाधान के बाद अधिकारी द्वारा दिनांक 22.12.2005 को स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति का नोटिस पुनः प्रस्तुत किया गया। इसके अतिरिक्त अधिकारी ने दिनांक 18.02.2006 तथा 09.03.2006 के पत्राचार द्वारा अपनी स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति क्रमशः दिनांक 01.03.2006 तथा 16.03.2006 से स्वीकार करने का अनुरोध किया।

3. इस प्रकार सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के नोटिस के स्वीकार कर लेने पर श्री जी.सी. भट्ट, द्वितीय कमान अधिकारी (ईरला-3516), 95 बटालियन, के.रि.पु. बल को दिनांक 16.03.2006 (पूर्वाह्न) से कार्यमुक्त तथा बल की नफरी से बाहर समझा जाएगा।

रमेश चन्द्र  
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

नई दिल्ली-110 003, दिनांक 15 सितम्बर 2006

सं. पी. सात-4/2006-कार्मिक-3--श्री चेन्तामाराक्षन, सी.एम. प्रशासनिक/अनुभाग अधिकारी (ईरला संख्या-5771) का

दिनांक 01.05.2006 (पूर्वाह्न) से स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकार होने के फलस्वरूप उन्होंने कार्यालय अपर पुलिस उप महानिरीक्षक, ग्रुप केन्द्र, के.रि.पु.बल हैदराबाद में दिनांक 01.05.2006 (पूर्वाह्न) से प्रशासनिक/अनुभाग अधिकारी का कार्यभार त्याग कर दिया है।

के. के. शिवा प्रसाद  
अपर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक-3)

दिनांक 19 सितम्बर 2006

सं. पी. सात-4/2006-कार्मिक-3--सेवानिवृत्ति की निर्धारित आयु तक पहुँचने के कारण ग्रुप केन्द्र के.रि.पु.बल अवाडि के श्री टी. तुलसीरामन, (इरला संख्या-6742) ने प्रशासनिक/अनुभाग अधिकारी का पदभार दिनांक 31.7.2006 (अपराह्न) को त्याग दिया।

के. के. शिवा प्रसाद  
अपर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक-3)

महानिदेशालय

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली-110 003, दिनांक 15 सितम्बर 2006

सं. ई-16015/(2)/2003/कार्मिक. 1/62--राष्ट्रपति, श्री वी.के. शर्मा, निरीक्षक/कार्य को नियमित पदोन्नति पर केऔसुब में सहायक कमांडेन्ट/कार्य के पद पर 8,000-275-13,500/- रुपए के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं। वह केऔसुब इकाई, एनएलसी नवेली में पदस्थ हैं जहाँ उन्होंने दिनांक 21 अगस्त, 2006 (पूर्वाह्न) से सहायक कमांडेन्ट/कार्य के पद का कार्यभार संभाल लिया है।

ह./- अपठनीय  
महानिदेशक/केऔसुब

सं. ई-16015/(2)/2003/कार्मिक. 1/63--राष्ट्रपति, श्री आर.के. विज, सहायक कमांडेन्ट, को नियमित पदोन्नति पर केऔसुब में उप कमांडेन्ट के पद पर 10,000-325-15,200/- रुपए के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं। उन्होंने केऔसुब इकाई, ओएनजीसी नजीरा में दिनांक 04 सितम्बर, 2006 (पूर्वाह्न) से उप कमांडेन्ट के पद का कार्यभार संभाल लिया है।

ह./- अपठनीय  
महानिदेशक/केऔसुब

वित्त मंत्रालय

भारत प्रतिभूति मुद्रणालय

नाशिक रोड-422 101, दिनांक 19 सितम्बर 2006

सं. 589/स्था-18-1--चयन समिति की सिफारिश पर और उस पर महाप्रबंधक के अनुमोदन के अनुसार श्री पी.बी. दुर्गुडे, कनिष्ठ लेखा अधिकारी, केन्द्रीय मुद्रांक डिपो को भारत प्रतिभूति मुद्रणालय में लेखा

अधिकारी के पद पर वेतनमान रु. 7,450-225-11,500 में दिनांक 28.7.2006 (पूर्वाह्न) से 3 (तीन) साल के लिए नियुक्त किया गया है।

प्रकाश नारायण  
महाप्रबंधक

चलार्थ पत्र मुद्रणालय

(भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड की इकाई)

नासिक रोड, दिनांक 14 सितम्बर 2006

सं. 20-एस/ईएससी-1-15--श्री वि.एम. द्रविड (अ.जा.), कनिष्ठ लेखा अधिकारी, को लेखा अधिकारी (वर्ग 'ख' राजपत्रित) के पद पर स्पष्ट रूप से तदर्थ आधार पर रु. 7,450-223-11,500/- के वेतनमान में दिनांक 04.09.2006 से 31.12.2006 तक अथवा सहायक निदेशक (लागत) का पद भरे जाने तक, जो भी पहले हो, पदोन्नत किया जाता है।

उक्त तदर्थ पदोन्नति पदोन्नत कर्मचारी को स्थाई नियुक्ति के लिए दावा अर्जित नहीं कराती और उनके द्वारा की गई तदर्थ सेवा उस श्रेणी में वरिष्ठता पदोन्नति की पात्रता आदि के लिए गिनी नहीं जाएगी।

अ. ना. इंगले  
महाप्रबंधक

दिनांक 21 सितम्बर 2006

सं. 21 एस/ईएससी-1-21--श्री आर.टि. शिंदे (अ.जा.), भंडारी को भंडार अधिकारी (वर्ग 'ख' राजपत्रित) के पद पर स्पष्ट रूप से तदर्थ आधार पर रु. 7,450-225-11,500/- के वेतनमान में दिनांक 04.09.2006 से 28.02.2007 तक अथवा अगले आदेश तक, पदोन्नत किया जाता है।

उक्त तदर्थ पदोन्नति पदोन्नत कर्मचारी को स्थाई नियुक्ति के लिए दावा अर्जित नहीं कराती और उनके द्वारा की गई तदर्थ सेवा उस श्रेणी में वरिष्ठता पदोन्नति की पात्रता आदि के लिए नहीं गिनी जाएगी।

अ. ना. इंगले  
महाप्रबंधक

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग  
महालेखाकार (ले व ह) का कार्यालय, केरल  
तिरुवनंतपुरम, दिनांक 20 सितम्बर 2006

सं. का.स्था./ह व रो/ई IV पें/77--भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग के निम्नलिखित अधिकारी सेवानिवृत्त हुए हैं :-

क्र. सं.	नाम	पदनाम	सेवानिवृत्ति की तारीख
1.	श्री पी.के. अप्पु	सहायक लेखा अधिकारी शाखा कार्यालय, कोट्टयम	31.08.2006 अ. (अधिवांशिता)
2.	श्रीमती के.पी. लीलामणी	वरिष्ठ लेखा अधिकारी शाखा कार्यालय, तृशूर	02.07.2006 पू. (स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति)
3.	श्री बेनेडिक्ट मार्टिन	सहायक लेखा अधिकारी प्रधान कार्यालय, तिरुवनंतपुरम	04.07.2006 पू. (स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति)

एम. राजन  
उप महालेखाकार (प्रशासन)

लघु उद्योग मंत्रालय  
विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 18 सितम्बर 2006

सं. ए-19018/660/82-प्रशा. (राज.)--सेवा निवृत्ति की आयु प्राप्त कर लेने पर श्री आर. सम्पथ कुमार, उप निदेशक (रसायन) लघु उद्योग विकास संगठन के अंतर्गत लघु उद्योग सेवा संस्थान, चेन्नै से दिनांक 31.08.2006 (अपराह्न) को सेवा निवृत्त हो गए हैं।

डी. के. गौतम  
उप निदेशक (प्रशा.)

(वाणिज्य विभाग)

पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय

नई दिल्ली-110 001, दिनांक 21 सितम्बर 2006

सं. ए-32015/3/2005-प्रशासन-6--राष्ट्रपति, निम्नलिखित सहायक निदेशक (गुणता आश्वासन) ग्रेड-II को 8,000-275-13,500/- रुपए के वेतनमान में उनके नाम के सामने दिखाई तारीखों से भारतीय निरीक्षण सेवा समूह 'क' के कनिष्ठ समयमान में सहायक निदेशक (गुणता आश्वासन) ग्रेड-I के रूप में नियुक्त करते हैं :-

क्रम संख्या	नाम	कार्यभार संभालने की तारीख
1.	श्री आर.एस. कहारे	14.07.2006 (अपराह्न)
2.	श्री के.एल.पी. रंगारॉव	17.07.2006 (पूर्वाह्न)
3.	श्री एम.के. सेन	27.07.2006 (पूर्वाह्न)
4.	श्री एम.एस. अशरफ	28.08.2006 (पूर्वाह्न)

2. उपर्युक्त आदेशित पदोन्नति अनंतिम है तथा ये यू ओ आई द्वारा दायर एल.पी.एस. 67/83, 68/83 तथा 69/83 जो कि दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित है तथा मुंबई उच्च न्यायालय में दायर और दिल्ली उच्च न्यायालय को अंतरित डब्ल्यू पी सं. 35/83, 3001/83 तथा इस ग्रेड में वरिष्ठता से संबंधित सभी मामलों से जुड़ी अन्य कोई याचिकाएं जो किसी उच्च न्यायालय/कैट में लंबित हैं, के अंतिम निर्णय पर आधारित होंगी।

एस. एस. शर्मा  
उप निदेशक (प्रशासन)  
कृते महानिदेशक (पूर्ति तथा निपटान)

खान मंत्रालय  
(भारतीय खान ब्यूरो)

नागपुर, दिनांक 15 सितम्बर 2006

सं. ए. 19012/310/2006-स्था. ए. पी. पी.--अत्यंत खेद के साथ सूचित किया जाता है कि श्री जी. के. रायडू, खनिज अधिकारी (आसूचना), दिनांक 15.8.2006 को उनका दुःखद निधन हो गया। अतएव भारतीय खान ब्यूरो, के अधिकारियों की सूची से उनका नाम निकाल दिया गया है।

ए. एन. नंदनवार  
सहायक प्रशासन अधिकारी

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 20 सितम्बर 2006

सं. ए-32013 (निदेशक)/18/2004/स्था.1--राष्ट्रपति ने भारत मौसम विज्ञान विभाग के निम्नलिखित मौसम विज्ञानी श्रेणी-1 को उनके नामों के सामने दर्शाई गई तारीख से उसी विभाग में निदेशक के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया है। ये पदोन्नतियां अगला आदेश जारी होने तक प्रभावी रहेंगी :-

क्र.सं.	नाम	निदेशक के पद पर नियुक्ति की तारीख
(1)	(2)	(3)
1.	श्री चतर सिंह	17.08.2005
2.	श्री हीरा लाल	28.09.2005
3.	श्री जे एम मोटवाल	28.09.2005
4.	श्री ए.एस. जडगाओंकर	28.09.2005
5.	श्री जी.एस. विजयराघवन	14.10.2005
6.	श्री एल.सी. राम	10.10.2005
7.	श्रीमती आर.आर. शिन्दे	28.09.2005
8.	श्री के.वी.के. नायर	28.09.2005
9.	श्री पी.टी. बुटला	28.09.2005
10.	श्री रजनीकान्त	27.09.2005 (अ.प्र.)
11.	श्री मेहफूज अली	27.12.2005
12.	श्री डी.एन. तालापात्रा	30.09.2005
13.	श्री विजय सिंह	27.09.2005 (अ.प्र.)
14.	श्री बी.एन. विश्नोई	28.09.2005
15.	श्री के.एस. गहरवार	27.09.2005 (अ.प्र.)
16.	श्री टी.के. चक्रवर्ती	17.10.2005
17.	डा. टी.एन. झा	28.09.2005
18.	श्री एस.बी. गाओन्कर	28.09.2005
19.	श्री डी.के. हाण्डीक	07.10.2005
20.	श्री राजिन्दर कृ. शर्मा	28.09.2005
21.	श्री पी.सी. चतुर्वेदी	27.09.2005 (अ.प्र.)

(1)	(2)	(3)
22.	श्री सुभाष चन्द्र दास	28.09.2005
23.	श्री दिलीप साहा	28.09.2005
24.	डा. पी.के. चक्रवर्ती	28.09.2005
25.	श्री एस.सी. घोष	27.09.2005 (अ.प्र.)
26.	श्री विवेक सिन्हा	28.09.2005
27.	श्री एच.पी. शुक्ला	28.09.2005
28.	श्री डी.के. मलिक	30.09.2005
29.	श्री इन्दरजीत वर्मा	28.09.2005
30.	श्री एच.ए.के. सिंह	28.09.2005
31.	श्री एम.एस. तोमर	10.10.2005
32.	डा. (श्रीमती) कमलजीत रे	28.09.2005
33.	कु. के. साथी देवी	28.09.2005
34.	श्री सन्जीव सेन	30.09.2005
35.	श्री हरगोविन्द पाठक	29.09.2005

आर. बी. थापा  
मौसम विज्ञानी श्रेणी-1 (स्थापना)  
कृते मौसम विज्ञान के महानिदेशक

परमाणु ऊर्जा विभाग

मुंबई-400 001, दिनांक 13 सितम्बर 2006

सं. 7/2(1)/2004-एसयूएस/7224--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को इस विभाग के निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय में पदोन्नति होने पर प्रत्येक के सामने उल्लिखित ग्रेड में दिनांक 1.2.2006 (पूर्वाह्न) से भावी आदेश होने तक नियुक्त करते हैं :--

नाम	पदोन्नत ग्रेड	वेतनमान
श्री सुनिल कुमार शर्मा	वैज्ञा. अधिकारी/ई	रु. 12,000-375-16,500
श्री दुश्मंत कुमार समल	वैज्ञा. अधिकारी/ई	रु. 12,000-375-16,500
श्री पिनाकी सेन	वैज्ञा. अधिकारी/डी	रु. 10,000-325-15,200
श्री के. रोसी रेड्डी कुरी	वैज्ञा. अधिकारी/डी	रु. 10,000-325-15,200
श्री सुभाष चंद्र दास	वैज्ञा. अधिकारी/डी	रु. 10,000-325-15,200

डी. सुरेन्द्रन  
अवर सचिव

मुंबई-400 001, दिनांक 20 सितम्बर 2006

सं. 22/3(2)/2006-सीसीएस/24--राष्ट्रपति, इस विभाग के श्रीमती उषा मधुसूदन नायर, सहायक भंडार अधिकारी (वेतनमान रु. 6,500--10,500), केन्द्रीय भंडार यूनिट, क्रय और भंडार निदेशालय, मुंबई को दिनांक 21.08.2006 (पूर्वाह्न) से भावी आदेश होने तक भंडार यूनिट, क्रय और भंडार निदेशालय, कोय में भंडार अधिकारी (वेतनमान रु. 10,000--15,200) के पद पर नियुक्त करते हैं।

शोभा देवी एन.  
अवर सचिव

परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र

कोलकाता-700 064, दिनांक 4 सितम्बर 2006

सं. वीईसीसी/पदोन्नति/2006/2907--राष्ट्रपति प्रसन्नतापूर्वक परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र, परमाणु ऊर्जा विभाग, कोलकाता के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारी को इसी केन्द्र पर रु. 10,000-325-15,200/- के वेतनमान में वैज्ञानिक अधिकारी (डी) के पद पर अस्थायी रूप से काम करने के लिए 1 फरवरी 2006 के पूर्वाह्न से अगले आदेश निकलने तक नियुक्ति प्रदान करते हैं :--

नाम	वर्तमान पद	वेतनमान
मो. जे.ए. नासिर	वैज्ञानिक अधिकारी (सी)	रु. 8,000-275-13,500/-

एस. बी. बोस  
कृते (एन. श्रीनिवास राव)  
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

कोलकाता-700 064, दिनांक 21 सितम्बर 2006

सं. वीईसीसी/नियुक्ति/2003--राष्ट्रपति प्रसन्नतापूर्वक डा. देबाशिश भौमिक को इसी केन्द्र पर वैज्ञानिक अधिकारी (डी), वेतनमान (रु. 10,000-325-15,200/-) परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र, परमाणु ऊर्जा विभाग, कोलकाता में मार्च 23, 2005 के पूर्वाह्न से अगले आदेश निकलने तक अस्थाई रूप में नियुक्ति प्रदान करते हैं।

एस. बी. बोस  
प्रशासनिक अधिकारी -III

राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र

इन्दौर, दिनांक 21 सितम्बर 2006

सं. राराकेट/प्रशा-06/भ-805(अ)/837--भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों को पदोन्नति पर उनके नाम के सम्मुख अंकित पदक्रम एवं वेतनमान में दिनांक 01 अगस्त 2006 की पूर्वाह्न से स्थानापन्न रूप से राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र, इन्दौर में आगामी आदेशों तक नियुक्त करते हैं :--

संसें	नाम	वर्तमान पद वेतनमान (रु.)	पदोन्नत पद वेतनमान (रु.)
125	श्री स्वर्णा कोटय्या	वैज्ञानिक अधिकारी/एच (18400-500-22400)	उत्कृष्ट वैज्ञानिक (22400-525-24500)
427	डॉ प्रदीप कुमार गुप्ता	-वही-	-वही-
092	श्री लाला अभिनंदन	वैज्ञानिक अधिकारी/जी (16400-450-20000)	वैज्ञानिक अधिकारी/एच (18400-500-22400)
414	डॉ ज्ञानेन्द्र सिंह लोढ़ा	-वही-	-वही-
520	डॉ प्रसाद ए नायक	-वही-	-वही-
744	डॉ एस बी रॉय	-वही-	-वही-
343	डॉ (श्रीमती) मंगला एस ओक	वैज्ञानिक अधिकारी/एफ (14300-400-18300)	वैज्ञानिक अधिकारी/जी (16400-450-20000)
263	श्री राजेश आर्य	-वही-	-वही-
206	श्री राजवीर सिंह	-वही-	-वही-
321	श्री जिष्णु द्विवेदी	-वही-	-वही-
175	श्री अजय देविदासराव घोड़के	-वही-	-वही-
272	श्री शिव दत्त शर्मा	-वही-	-वही-

डॉ. एस. राव  
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र

हैदराबाद-500 062, दिनांक 21 सितम्बर 2006

सं. नाईस/काप्रभ-II/2-2006/294--राष्ट्रपति, नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, हैदराबाद के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों/अभियंताओं/वैज्ञानिक सहायकों को 01.02.2006 से इसी इकाई में उनके नाम के सम्मुख दर्शाए गए ग्रेड में, स्थानापन्न हैसियत में आगामी आदेशों पर्यंत सहर्ष नियुक्त करते हैं :-

क्र. सं.	नाम	पदोन्नति	
		ग्रेड से	ग्रेड तक
1	2	3	4
वेतनमान वैज्ञानिक अधिकारी/ई--रु. 12,000-375-16,500			
	सर्वश्री/श्रीमती		
01	जी. पी. साई सनातन	वैज्ञा. अधि./डी	वैज्ञा. अधि./ई
02	ए. के. सिन्हा	"	"
03	वी. संपत कुमार	"	"
04	डॉ. रीना कपूर	"	"
05	जी. वी. आर. कृष्णमूर्ति	"	"
06	सी. चिन्ना साईलु	"	"

1	2	3	4
वेतनमान वैज्ञानिक अधिकारी/डी--रु. 10,000-325-15,200			
01	के. वेंकटेश्वर राव	वैज्ञा. अधि./सी	वैज्ञा. अधि./डी
02	एल. सी. वी. आर. शास्त्री	"	"
03	ए. चन्द्रशेखर	"	"
04	जी. प्रसाद सिंह	"	"
05	एम. वेंकटेश्वर राव	"	"
06	एस. लिंगय्या	"	"
07	एम. प्रभाकर राव	"	"
08	के. एम. के. वर्धन	"	"
09	सी. महादेव प्रभु	"	"
10	एम. आई. प्रभाकर	"	"
11	के. रघुराम	"	"
12	डॉ. जौली गुहा	"	"
वेतनमान वैज्ञानिक अधिकारी/सी--रु. 8,000-275-13,500			
01	डी. वासुदेव राव	वैज्ञा. अधि./एसबी	वैज्ञा. अधि./सी
02	के. प्रभाकर राव	"	"
03	ए. विश्वनाथम	"	"
04	एम. साईबाबू	वैज्ञा. सहा./डी	"
05	के. प्रभाकर	"	"

ए. एस. लक्ष्मण राव  
प्रशासनिक अधिकारी

परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय

हैदराबाद-500 016, दिनांक 20 सितम्बर 2006

सं. पखनि-16/2/2000-भर्ती/983--निदेशक, परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग एतद्वारा श्री महेन्द्र झा, सहायक लेखाकार (वेतनमान रु. 6,500-200-10,500) को दिनांक 19.06.2006 से 21.07.2006 तक की अवधि हेतु इसी निदेशालय में तदर्थ आधार पर सहायक लेखा अधिकारी (वेतनमान रु. 7,450-225-11,500) के रूप में नियुक्त करते हैं।

जी. एम. नायर  
मुख्य प्रशासनिक एवं लेखा अधिकारी

आयकर अपीलीय अधिकरण

मुंबई-400 020, दिनांक 14 सितम्बर 2006

सं. एफ.48 एडी(एटी)2006--श्री के.एन. गोपालन, कार्यालय अधीक्षक, आयकर अपीलीय अधिकरण, हैदराबाद पीठें, हैदराबाद को



तदर्थ आधार पर, पूर्णतः अस्थायी क्षमता में, दिनांक 15 सितम्बर, 2006 पूर्वाह्न से तीन माह की अवधि के लिए, अथवा पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक, जो भी पहले हो, रु. 8,000-275-13,500/- के वेतनमान में, आयकर अपीलीय अधिकरण, मुंबई पीठें, मुंबई में, स्थानापन्न रूप में, सहायक पंजीकार के पद पर नियुक्त किया जाता है।

उपर्युक्त नियुक्ति तदर्थ आधार पर है और ये उन्हें उस श्रेणी में नियमित नियुक्ति के लिए कोई दावा प्रदान नहीं करेगी और तदर्थ आधार पर उनके द्वारा प्रदत्त सेवाएं वरिष्ठता के अभिप्राय से या उच्चतर श्रेणी में पदोन्नति की पात्रता के लिए नहीं गिनी जाएगी।

विमल गांधी  
अध्यक्ष

सं. एफ.301-एडी(एटी)/2006--श्री के रामचन्द्रन, वरिष्ठ निजी सचिव, आयकर अपीलीय अधिकरण, मुंबई पीठें, मुंबई, निवर्तन की आयु प्राप्त होने पर, दिनांक 31 अगस्त, 2006 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए।

विमल गांधी  
अध्यक्ष

कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

कार्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स शुभ किरण चिट्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55-73091/15725--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स शुभ किरण चिट्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स इन्फोनेट सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55-102790/15730--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स इन्फोनेट सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सत्यम कार्गो मूवर्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(5) एस.ई.एस./2003/55-63946/15765--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सत्यम कार्गो मूवर्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स नोवेना एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(5) एस.ई.एस./2003/55-63745/15768--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स नोवेना एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स राजेश वैलवेट प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(5) एस.ई.एस./2003/55-53700/15962--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स राजेश वैलवेट प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सुजाता सिक्वोरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55-53699/15972--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में

एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स सुजाता सिन्धोरिटीज़ प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स बी. बी. ट्रेवल्स  
प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(5) एस.ई.एस./2003/55-108909/15977--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स बी. बी. ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ए. एस. नेटकॉम नेटवर्क  
प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55-80031/15982--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स ए. एस. नेटकॉम नेटवर्क प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स काडम्बरी चिट्स  
प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/05-34283/16256--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स काडम्बरी चिट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल

कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ऐलाइड कन्स्ट्रक्शंस  
प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55-12403/16861--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स ऐलाइड कन्स्ट्रक्शंस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सैमेक्स पेट्रोकैम  
प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55-87459/16871--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स सैमेक्स पेट्रोकैम प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स रितुल पैकेजिंग  
प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55-31985/16886--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स रितुल पैकेजिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अमन डेरी प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55-76858/16891--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स अमन डेरी प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कुआटेर डिजाइन एण्ड रिसर्च प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55-23925/16906--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स कुआटेर डिजाइन एण्ड रिसर्च प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स न्यू इण्डिया प्रोजेक्ट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55-28421/16896--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स न्यू इण्डिया प्रोजेक्ट प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जी के ओरियंटल क्राफ्ट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55-14443/16911--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स जी के ओरियंटल क्राफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स स्पैंगले विनियोग लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55-18708/16901--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स स्पैंगले विनियोग लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मेकास्टर इलैक्ट्रॉनिक्स सर्विस सेन्टर प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55-38823/16916--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स मेकास्टर इलैक्ट्रॉनिक्स सर्विस सेन्टर प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स डू प्लास्टिक्स  
प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55-89459/16921--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स डू प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स शीतल ऐजेन्सीज  
प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55-56749/16941--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स शीतल ऐजेन्सीज प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स होनंग टोयज  
प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55-66917/16917--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स होनंग टोयज प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अलस्ट्रॉंग केबल्स  
प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55-33409/16951--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स अलस्ट्रॉंग केबल्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कुल्मेर पेपर्स  
लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55-11538/16936--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स कुल्मेर पेपर्स लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स बी एन के इंट्रेड  
प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55-103762/16956--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स बी एन के इंट्रेड प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ऑनवे एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55-74494/16986--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स ऑनवे एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मैटकाम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55-58446/17011--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स मैटकाम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स क्वालिटी केबल्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55-38959/16991--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स क्वालिटी केबल्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सहगल नर्सिंग होम प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55-101446/17016--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स सहगल नर्सिंग होम प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स डी एक्सपोर्ट्स एण्ड फ्रेट प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55-8217/17006--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स डी एक्सपोर्ट्स एण्ड फ्रेट प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स गोल्डक्रोप सिक्वोरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55-75339/17230--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स गोल्डक्रोप सिक्वोरिटीज प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स उमेस्नेह सिक्वोरिटीस प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55-65924/17235--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स उमेस्नेह सिक्वोरिटीस प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स यमुना फार्मैसी प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/05-33538/17240--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स यमुना फार्मैसी प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स आर जी सिक्वोरिटी प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55-56802/17245--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स आर जी सिक्वोरिटी प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स चारू सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55-63888/17250--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स चारू सेल्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स बैटर थेयेटर्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55-1618/17255--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स बैटर थेयेटर्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स वैनगार्ड इन्टीरियर्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55-92793/17260--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स वैनगार्ड इन्टीरियर्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सुपर स्टारलाईन  
आटोमोबाइल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55-63292/17265--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स सुपर स्टारलाईन आटोमोबाइल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अमर डेको प्रोडक्ट्स  
प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55-102881/17280--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स अमर डेको प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स नवयुवक बिल्डर्स  
प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55-32276/17270--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स नवयुवक बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स प्रामे ट्रेडिंग एण्ड इन्वेस्टमेन्ट्स  
प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55-40689/17290--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स प्रामे ट्रेडिंग एण्ड इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स डिवाई सोल्यूशंस  
प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55-105444/17275--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स डिवाई सोल्यूशंस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जी सी बी मेटलक्राफ्ट्स  
प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55-40031/17295--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स जी सी बी मेटलक्राफ्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स दिनांक फाइनैस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55-79843/17300--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स दिनांक फाइनैस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सैलफोन हायर कम्पनी इंडिया प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55-84344/17315--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स सैलफोन हायर कम्पनी इंडिया प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एन. डी. रंगवाला प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55-56497/17305--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स एन. डी. रंगवाला प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मतिलका डेवेलोपर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55-85719/17320--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स मतिलका डेवेलोपर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स डा. रामजी लाल सिक्का एण्ड संस फाइनैसियर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55-42482/17310--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स डा. रामजी लाल सिक्का एण्ड संस फाइनैसियर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स शिवराम एजेन्सीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55-108474/17325--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स शिवराम एजेन्सीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा



कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स भिवाडी ऐलोयज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55-41647/17330--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स भिवाडी ऐलोयज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स आई डी जी लीजिंग एण्ड फाइनैस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55-57644/17345--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स आई डी जी लीजिंग एण्ड फाइनैस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कुसल प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55-8494/17335--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स कुसल प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स रस्की डीजल मेगापावर प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55-85145/17350--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स रस्की डीजल मेगापावर प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स इलेक्ट्रोमोबाईल इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55-48840/17340--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स इलेक्ट्रोमोबाईल इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मुस्कान म्यूजिक एंटरटेनर प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55-115821/17355--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स मुस्कान म्यूजिक एंटरटेनर प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मिक प्रोपर्टीज  
प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55-32086/17508--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स मिक प्रोपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मास्टर फौर्मस  
प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55-89291/17524--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स मास्टर फौर्मस प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स गोयल फ्रेट कम्पनी  
प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55-102687/17514--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स गोयल फ्रेट कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सचमीड बिल्डर्स  
प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55-99584/17529--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स सचमीड बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ओनिक्स ओवरसीस  
प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55-78800/17519--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स ओनिक्स ओवरसीस प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स माइक्रो मेरीटाईम्स (इण्डिया)  
प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55-75743/17534--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स माइक्रो मेरीटाईम्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सर्ज मेटल प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55-13876/17539--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स सर्ज मेटल प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स रिजेन्सी फुटवियर्स लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55-36105/17555--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स रिजेन्सी फुटवियर्स लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स टी. एस. जी. कंसलटैन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55-10105/17540-A--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स टी. एस. जी. कंसलटैन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स त्रेहन डेकोर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55-36469/17560--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स त्रेहन डेकोर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स लार्ड कृष्णा सीमेन्ट इन्डस्ट्री प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55-12902/17550--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स लार्ड कृष्णा सीमेन्ट इन्डस्ट्री प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स आर डी इवो इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55-39087/17565--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स आर डी इवो इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एशियन ओवरसीस एण्ड  
सिक्वोरिटीस लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55-20048/17570--कम्पनी  
अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में  
एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के  
उपरान्त मैसर्स एशियन ओवरसीस एण्ड सिक्वोरिटीस लिमिटेड का नाम  
इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया  
जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ट्राइकान ओवरसीज  
प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55-57032/17690--कम्पनी  
अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में  
एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के  
उपरान्त मैसर्स ट्राइकान ओवरसीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके  
प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा  
और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स डी सी ऐडवरटाइजिंग एण्ड  
पी आर कम्यूनिकेशंस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55-36628/17575--कम्पनी  
अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में  
एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के  
उपरान्त मैसर्स डी सी ऐडवरटाइजिंग एण्ड पी आर कम्यूनिकेशंस प्राईवेट  
लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो  
रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी  
जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अनुप्राव इन्टेनशनल  
प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55-76680/17894--कम्पनी  
अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में  
एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के  
उपरान्त मैसर्स अनुप्राव इन्टेनशनल प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके  
प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा  
और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स वान-यूनि इंजीनियरिंग  
प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55-115912/17560--कम्पनी  
अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में  
एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के  
उपरान्त मैसर्स वान-यूनि इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके  
प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा  
और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ओ जेड लिंक इण्डिया  
प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55-90612/17899--कम्पनी  
अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में  
एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के  
उपरान्त मैसर्स ओ जेड लिंक इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके  
प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा  
और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स प्रायोग चिट फण्ड एण्ड  
फाईनानशियल कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(5) एस.ई.एस./2003/55-13255/17904--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स प्रायोग चिट फण्ड एण्ड फाईनानशियल कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सान्या फैशन्स  
प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55-84595/17919--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स सान्या फैशन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कटारिया निकास्ट अलायेस  
प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55-118608/17909--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स कटारिया निकास्ट अलायेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एम. एम. ग्रेनाईट  
प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55-39963/17928--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स एम. एम. ग्रेनाईट प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सारटोम ट्रेड इम्पैक्स  
प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55-96162/17914--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स सारटोम ट्रेड इम्पैक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स धौलाधार ट्रेवल्स सर्विसेज  
प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55-66753/17929--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स धौलाधार ट्रेवल्स सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स नारायण केम डिस्ट्रीब्यूटर्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55-14349/17934--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स नारायण केम डिस्ट्रीब्यूटर्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स विद्योतामा विद्यापीठ साईंस एकेडेमी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55-105244/16961--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स विद्योतामा विद्यापीठ साईंस एकेडेमी प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अपोलो क्लोथियर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55-50340/17939--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स अपोलो क्लोथियर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जय माता क्रेडिट एण्ड होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55-46659/17964--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स जय माता क्रेडिट एण्ड होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स पेरामाऊन्ट टैक्नीकल सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55-113563/17944--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स पेरामाऊन्ट टैक्नीकल सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सोनाली बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55-82481/18039--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स सोनाली बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स रतारा लीजिंग एण्ड फाईनान्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55-53981/8059--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स रतारा लीजिंग एण्ड फाईनान्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स बिमल सिनथेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55-43266/18129--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स बिमल सिनथेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स चीयरवर्म इस्टेट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55-65379/8064--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स चीयरवर्म इस्टेट प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स टाईटन अपलाईनसेज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55-41748/18134--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स टाईटन अपलाईनसेज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स बुलन्द सीमेन्ट वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55-45061/8069--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स बुलन्द सीमेन्ट वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स लोटस इन्फोटेक सोल्यूशन्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55-102421/18139--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स लोटस इन्फोटेक सोल्यूशन्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स राजधानी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55-52711/18144--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स राजधानी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स राजधानी प्लान्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55-77314/18159--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स राजधानी प्लान्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मास एवियेशन प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55-92128/18154--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स मास एवियेशन प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कर्नालिया लीजिंग एण्ड फाईनेस प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(5) एस.ई.एस./2003/55-50985/18422--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स कर्नालिया लीजिंग एण्ड फाईनेस प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एमगो फाईनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55-46199/18149--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स एमगो फाईनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स रसदता प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(5) एस.ई.एस./2003/55-50958/18425--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स रसदता प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा



कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जिमी मोहन चिट्स  
प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(5) एस.ई.एस./2003/55-50973/18428--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स जिमी मोहन चिट्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स आर सी ए एक्सपोर्ट्स  
प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(5) एस.ई.एस./2003/55-73956/18452--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स आर सी ए एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कासुनवाला लिक्विड एण्ड  
कैमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(5) एस.ई.एस./2003/55-66646/18434--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स कासुनवाला लिक्विड एण्ड कैमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स लखानी फाईनानशियल  
सर्विसेज लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(5) एस.ई.एस./2003/55-68881/18461--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स लखानी फाईनानशियल सर्विसेज लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स वाल्सा ट्रेडर्स  
प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(5) एस.ई.एस./2003/55-18672/18437--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स वाल्सा ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एस. एस. कार्गो एन कोरियर  
प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(5) एस.ई.एस./2003/55-63402/18464--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एस. एस. कार्गो एन कोरियर प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स लाइन किंग एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(5) एस.ई.एस./2003/55-63053/18467--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स लाइन किंग एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स रिचलैंड ग्लोबल ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(5) एस.ई.एस./2003/55-16987/18476--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स रिचलैंड ग्लोबल ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ब्रोडवे बिजनेस सेन्टर (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(5) एस.ई.एस./2003/55-63461/18470--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स ब्रोडवे बिजनेस सेन्टर (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स काफिला ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(5) एस.ई.एस./2003/55-16073/18479--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स काफिला ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सराका ट्रेडिंग (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(5) एस.ई.एस./2003/55-9535/18473--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सराका ट्रेडिंग (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जीरो इन कम्युनिकेशन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(5) एस.ई.एस./2003/55-34929/18500--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स जीरो इन कम्युनिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कोल सेट इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(5) एस.ई.एस./2003/55-18427/18503--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स कोल सेट इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एम जी इन्फोर्मेटिक्स सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(5) एस.ई.एस./2003/55-21816/18512--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एम जी इन्फोर्मेटिक्स सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स नरेन्द्रा कन्स्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(5) एस.ई.एस./2003/55-18047/18506--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स नरेन्द्रा कन्स्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ब्लैक बर्ड इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(5) एस.ई.एस./2003/55-21685/18515--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स ब्लैक बर्ड इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स बी. सी. एफ. चिट् फंड प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(5) एस.ई.एस./2003/55-18418/18509--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स बी. सी. एफ. चिट् फंड प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कृतिका होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(5) एस.ई.एस./2003/55-65807/18551--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स कृतिका होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कॉकस एण्ड बैबस लीजिंग एण्ड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(5) एस.ई.एस./2003/55-34626/18563--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स कॉकस एण्ड बैबस लीजिंग एण्ड फाइनेंस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अंगद इंजीनियरिंग एण्टरप्राइसिस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(5) एस.ई.एस./2003/55-17799/18571--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स अंगद इंजीनियरिंग एण्टरप्राइसिस प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स दिल्ली ही राज्ज रियलटी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(5) एस.ई.एस./2003/55-15215/18572--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स दिल्ली ही राइज रियलटी प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स वी. डी. पुरी एण्ड सन्स  
प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(5) एस.ई.एस./2003/15021/18575--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स वी. डी. पुरी एण्ड सन्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स रुकू चिट्स  
प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55-30331/18622--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स रुकू चिट्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एक्वाटैक इंटरनेशनल  
लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55-82483/18597--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स एक्वाटैक इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स डेविस चिट्स  
प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/05-30764/18627--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स डेविस चिट्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स दिशु चिट्स  
प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55-095559/18607--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स दिशु चिट्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स स्पीडलाईन कोरियर्स  
प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55-97163/18632--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स स्पीडलाईन कोरियर्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स प्रोम्प्ट लाईन कोरियर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55-97165/18637--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स प्रोम्प्ट लाईन कोरियर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जी. के. चिट फंड प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55-24141/18707--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स जी. के. चिट फंड प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सुपर साइनेजिज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55-125261/18697--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स सुपर साइनेजिज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स राईटयार्ड कोरियर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55-97166/18712--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स राईटयार्ड कोरियर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स आर के जी चिट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/05-35168/18702--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स आर के जी चिट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स तेजबन्धु फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55-85550/18717--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स तेजबन्धु फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स वोईला आई. टी. सोल्यूशंस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55-102475/18722--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स वोईला आई. टी. सोल्यूशंस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स बाबादीप चिट फंड प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/05-33773/18737--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स बाबादीप चिट फंड प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स रिलेक्स एयर कन्डीशनर (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55-29227/18727--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स रिलेक्स एयर कन्डीशनर (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स धरमदीप चिट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/05-31474/18742--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स धरमदीप चिट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ऐ. एस. रिहाल एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55-8020/18732--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स ऐ. एस. रिहाल एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अनुग्रह चिट फंड प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55-45685/18747--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स अनुग्रह चिट फंड प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एडवांस पी वी सी प्रोफार्मिस् (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55-42586/18752--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स एडवांस पी वी सी प्रोफार्मिस् (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अभिशंक चिट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55-33398/18757--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स अभिशंक चिट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ओवल चिट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55-19132/18762--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स ओवल चिट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ऐविल चिट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55-14010/18767--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स ऐविल चिट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ऐसियाजेट कोमर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55-99974/18772--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स ऐसियाजेट कोमर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स दिविके इलैक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55-28246/18777--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स दिविके इलैक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा



कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कूलेनबर्ग पवन शक्ति  
(इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55-30708/18866--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स कूलेनबर्ग पवन शक्ति (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मोमेन्टम मार्किटिंग  
प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55-122973/19111--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स मोमेन्टम मार्किटिंग प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जीनियस टॉयज एण्ड गेम्स  
प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55-89851/18881--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स जीनियस टॉयज एण्ड गेम्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ग्युनिया कॉस्मेटिक्स  
प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(5) एस.ई.एस./2003/55-58490/19149--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स ग्युनिया कॉस्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ओम श्री क्रेडिट्स  
प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55-44745/19016--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स ओम श्री क्रेडिट्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स गीतांजली लीजिंग एण्ड  
फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(5) एस.ई.एस./2003/55-33627/19170--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स गीतांजली लीजिंग एण्ड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स खोसला ट्रेडिंग एण्ड होल्डिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(5) एस.ई.एस./2003/55-33457/19173--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स खोसला ट्रेडिंग एण्ड होल्डिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स स्काईविजन ऐडवर्टाइजिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(5) एस.ई.एस./2003/55-56825/19180--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स स्काईविजन ऐडवर्टाइजिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एम-रामचन्दानी चिट फंड प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(5) एस.ई.एस./2003/55-33955/19174--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एम-रामचन्दानी चिट फंड प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स आइकान कन्सल्टेंट्स इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(5) एस.ई.एस./2003/55-33810/19183--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स आइकान कन्सल्टेंट्स इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स हार्डी पेस्ट कन्ट्रोल प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(5) एस.ई.एस./2003/55-33831/19177--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स हार्डी पेस्ट कन्ट्रोल प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स रोजफील्ड डेवेलोपर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(5) एस.ई.एस./2003/55-33901/19186--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स रोजफील्ड डेवेलोपर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स नवीन ट्रांसपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(5) एस.ई.एस./2003/55-33959/19198--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स नवीन ट्रांसपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स पोलिगॉन प्रोसेसिस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(5) एस.ई.एस./2003/55-33632/19201--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स पोलिगॉन प्रोसेसिस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स फलैबैग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(5) एस.ई.एस./2003/55-33276/19204--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स फलैबैग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एम एन इलैक्ट्रोकांम्य  
प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(5) एस.ई.एस./2003/55-33114/19207--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एम एन इलैक्ट्रोक्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स के बी आटो प्लास्ट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(5) एस.ई.एस./2003/55-33362/19222--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स के बी आर प्लास्ट प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स फतेह ज़िट फंड प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(5) एस.ई.एस./2003/55-33452/19228--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स फतेह चिट फंड प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स होरिजेन ऐस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(5) एस.ई.एस./2003/55-33895/19231--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स होरिजेन ऐस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स वान्डर प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(5) एस.ई.एस./2003/55-33903/19234--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स वान्डर प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स फाल्कॉन ग्रोथ फंड प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(5) एस.ई.एस./2003/55-33707/19237--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स फालकॉन ग्रोथ फंड प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स क्रोकस मर्केन्टाइल प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(5) एस.ई.एस./2003/55-56285/19279---कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स क्रोकस मर्केन्टाइल प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ओपन सिस्टम्स एण्ड सोल्युशंस प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(5) एस.ई.एस./2003/55-56265/19285--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स ओपन सिस्टम्स एण्ड सोल्यूशंस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मैडिसकैन सर्विसिज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(5) एस.ई.एस./2003/55-56424/19291---कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स मैडिसकॉन सर्विसिज प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स आर. एम. वाटर सील प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(5) एस.ई.एस./2003/55-16361/19442--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स आर. एम. वाटर सील प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स आर. एम. आटोमोटिव पम्प्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(5) एस.ई.एस./2003/55-16462/19445--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स आर. एम. आटोमोटिव प्रोपर्टी प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स इन्सिस (इंडिया)  
प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(5) एस.ई.एस./2003/55-16592/19448--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स इन्सिस (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स माथुर व्यास्या चिट फंड एण्ड फाइनेन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(5) एस.ई.एस./2003/55-16827/19451--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स माथुर व्यास्या चिट फंड एण्ड फाइनेन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मुंजल इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(5) एस.ई.एस./2003/55-74284/19472--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स मुंजल इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स नन्दी प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(5) एस.ई.एस./2003/55-58866/19540--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स नन्दी प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एम पी जी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(5) एस.ई.एस./2003/55-58639/19543--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एम पी जी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स यारी लीजिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(5) एस.ई.एस./2003/55-30463/19549--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स यारी लीजिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स गणेश एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(5) एस.ई.एस./2003/55-66104/19826--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स गणेश एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा



कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जी पी फाइनेंसियर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560(5) एस.ई.एस./2003/55-33750/19225--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स जी पी फाइनेंसियर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स शिवानी ट्रेडलिंक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2003/55-80115/20032--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स शिवानी ट्रेडलिंक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ओ बी टी कन्सल्टेंट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2003/55-106339/20017--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स ओ बी टी कन्सल्टेंट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स प्रजात फाईनान्स एण्ड लिजिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2003/55-76512/20037--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स प्रजात फाईनान्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स वनीष ओवरसीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2003/55-68352/20022--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स वनीष ओवरसीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स बाट इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2003/55-65631/20042--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स बाट इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एफ सी एस शुगर लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2003/55-93043/20047--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एफ सी एस शुगर लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स विन्के मेटल एण्ड मिनर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2003/55-49086/20062--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स विन्के मेटल एण्ड मिनर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स आर के एन ऐजुकेशनल इंस्टीट्यूट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2003/55-34085/20052--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स आर के एन ऐजुकेशनल प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मल्टी भूमि प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट्स लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2003/05-33542/20072--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स मल्टी भूमि प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट्स लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स टेक्नोमैड सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2003/55-19061/20057--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स टेक्नोमैड सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स क्रोफ्ट इण्डस्ट्रियल सिस्टम प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(5) एस.ई.एस./2003/55-15549/20208--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स क्रोफ्ट इण्डस्ट्रियल सिस्टम प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कारबी केम ऑयल  
प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(5) एस.ई.एस./2003/55-52149/20309--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स कारबी केम ऑयल प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स बजरंग बिल्डर्स  
प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(5) एस.ई.एस./2003/55-55866/20318--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स बजरंग बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स दिव्या फिनवैस्ट  
प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(5) एस.ई.एस./2003/55-60670/20312--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स दिव्या फिनवैस्ट प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स स्तुति फैसिलीटिज सर्विसिज  
प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55-121914/20701--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स स्तुति फैसिलीटिज सर्विसिज प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जेसी ऑटोमोबाइल्स  
प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(5) एस.ई.एस./2003/55-60159/20315--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स जेसी ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एयर परफैक्ट इंस्ट्रुमेन्ट्स  
प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(5) एस.ई.एस./2003/55-28776/20961--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एयर परफैक्ट इंस्ट्रुमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एस. पी. हर्बोकैम्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(5) एस.ई.एस./2003/55-62612/20967--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एस. पी. हर्बोकैम्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सोमोन फूड एण्ड पैकेजिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(5) एस.ई.एस./2003/55-62674/20970--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सोमोन फूड एण्ड पैकेजिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स लखनऊ पेपर एण्ड एलाईड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55-19900/20973--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स लखनऊ पेपर एण्ड एलाईड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कोको फिनलीज लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55-73280/20978--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स कोको फिनलीज लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स रतिका चिट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(5) एस.ई.एस./2003/05-31046/21090--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स रतिका चिट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स शैफील्ड चिट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(5) एस.ई.एस./2003/05-031062/21093--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स शैफील्ड चिट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स फ़ेबटेक अप्रल्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(5) एस.ई.एस./2003/55-52921/21099--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स फ़ेबटेक अप्रल्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

-----

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स प्राधान पावर टेक्नोलोजिज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(5) एस.ई.एस./2003/55-84890/21250--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स प्राधान पावर टेक्नोलोजिज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

-----

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सिवादासी ट्रेडिंग एण्ड इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(5) एस.ई.एस./2003/55-13623/21968--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सिवादासी ट्रेडिंग एण्ड इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स यूरोटेक इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(5) एस.ई.एस./2003/55-35347/22505--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स यूरोटेक इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

-----

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स रिलाईंट इम्पैक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 22 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55-75302/22508--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स रिलाईंट इम्पैक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

-----

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स रूप्स पैकेजिंग इंडस्ट्री प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55-94489/22513--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स रूप्स पैकेजिंग इंडस्ट्री प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स बावा एविएशन एण्ड मेन्टीनेन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(5) एस.ई.एस./2003/55-59473/22536--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स बावा एविएशन एण्ड मेन्टीनेन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एसक्वायर कम्प्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(5) एस.ई.एस./2003/55-59588/22545--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एसक्वायर कम्प्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स पी. के. लूम टेक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(5) एस.ई.एस./2003/55-59354/22539--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स पी. के. लूम टेक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एज़रा टेलिकॉम्यूनिकेशन सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55-60085/22744--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स एज़रा टेलिकॉम्यूनिकेशन सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एक्सप्रेस क्रेडिट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(5) एस.ई.एस./2003/55-35311/22542--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एक्सप्रेस क्रेडिट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एपीजी इम्पैक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110 019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(3) एस.ई.एस./2005/55-111520/20027--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स एपीजी इम्पैक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा



कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स गंगानगर डेयरी फार्म प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर-302006, दिनांक 4 सितम्बर 2006

सं. आर.ओ.सी./560/5695/1284--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त पर मैसर्स गंगानगर डेयरी फार्म प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
राजस्थान

-----

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स बन्सी पहरपुर प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर-302006, दिनांक 7 सितम्बर 2006

सं. आर.ओ.सी./560/13553/1312--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त पर मैसर्स बन्सी पहरपुर प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
राजस्थान

-----

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मारवाड कम्प्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर-302006, दिनांक 7 सितम्बर 2006

सं. आर.ओ.सी./560/13546/1316--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त पर मैसर्स मारवाड कम्प्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स महफिल कैसेट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर-302006, दिनांक 7 सितम्बर 2006

सं. आर.ओ.सी./560/13128/1320--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त पर मैसर्स महफिल कैसेट्स प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
राजस्थान

-----

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स माइक्रोन माइनकेम प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर-302006, दिनांक 7 सितम्बर 2006

सं. आर.ओ.सी./560/14335/1327--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त पर मैसर्स माइक्रोन माइनकेम प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
राजस्थान

-----

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एच. जे. रबर प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर-302006, दिनांक 7 सितम्बर 2006

सं. आर.ओ.सी./560/14104/1328--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त पर मैसर्स एच. जे. रबर प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सुमन ऑटोबिल्ड (इंडिया)  
प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर-302006, दिनांक 12 सितम्बर 2006

सं. आर.ओ.सी./560/14486/1385--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त पर मैसर्स सुमन ऑटोबिल्ड (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जलधारा पाईप्स एण्ड  
प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर-302006, दिनांक 19 सितम्बर 2006

सं. आर.ओ.सी./560/10775/1440--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त पर मैसर्स जलधारा पाईप्स एण्ड प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स पाटोदी मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड  
के विषय में।

जयपुर-302006, दिनांक 19 सितम्बर 2006

सं. आर.ओ.सी./560/21196/1432--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त पर मैसर्स पाटोदी मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अनिल कारपेट्स प्राइवेट  
लिमिटेड के विषय में।

जयपुर-302006, दिनांक 19 सितम्बर 2006

सं. आर.ओ.सी./560/10551/1444--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त पर मैसर्स अनिल कारपेट्स प्राइवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स स्टेनलो स्टील रोलिंग मिल्स  
प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर-302006, दिनांक 19 सितम्बर 2006

सं. आर.ओ.सी./560/10168/1436--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त पर मैसर्स स्टेनलो स्टील रोलिंग प्राइवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स पोशाक फेब्रिक्स प्राइवेट  
लिमिटेड के विषय में।

जयपुर-302006, दिनांक 19 सितम्बर 2006

सं. आर.ओ.सी./560/10377/1448--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त पर मैसर्स पोशाक फेब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स आर. जी. कलर लैब प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर-302006, दिनांक 19 सितम्बर 2006

सं. आर.ओ.सी./560/16768/1458--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त पर मैसर्स आर. जी. कलर लैब प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स पिकॉक इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड के विषय में।

जयपुर-302006, दिनांक 19 सितम्बर 2006

सं. आर.ओ.सी./560/11218/1462--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त पर मैसर्स पिकॉक इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स पोपुलर पैकिंग्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर-302006, दिनांक 19 सितम्बर 2006

सं. आर.ओ.सी./560/1952/1466--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त पर मैसर्स पोपुलर पैकिंग्स प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सक्लिय इन्वेस्टमेंट कम्पनी के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 18 सितम्बर 2006

सं. 24089/560/5--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सक्लिय इन्वेस्टमेंट कम्पनी का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. के. गायचोर  
कम्पनी का सहायक रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स इवन्स इन्वेस्टमेंट एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 18 सितम्बर 2006

सं. 23785/560/7--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स इवन्स इन्वेस्टमेंट एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. के. गायचोर  
कम्पनी का सहायक रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ग्रीन्सबोरो इन्वेस्टमेंट कम्पनी के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 18 सितम्बर 2006

सं. 24082/560/8--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स ग्रीन्सबोरो इन्वेस्टमेंट कम्पनी का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. के. गायचोर  
कम्पनी का सहायक रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स गांधारी इन्वेस्टमेंट कम्पनी  
के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 18 सितम्बर 2006

सं. 24078/560/9--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स गांधारी इन्वेस्टमेंट कम्पनी का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. के. गायचोर  
कम्पनी का सहायक रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सायब्रोन इन्वेस्टमेंट कम्पनी  
के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 18 सितम्बर 2006

सं. 24090/560/9--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सायब्रोन इन्वेस्टमेंट कम्पनी का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. के. गायचोर  
कम्पनी का सहायक रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों  
के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 25 सितम्बर 2006

सं. 560(5)/2005--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

क्रम सं.	रजि. सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	3853	मैसर्स आर. एस. दुसाज एन्ड कं. प्राईवेट लिमिटेड
2.	3938	मैसर्स भरत टुल मैन्युफैक्चरिंग कं. प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
3.	4742	मैसर्स पटेल इलेक्ट्रीक कं. प्राईवेट लिमिटेड
4.	5608	मैसर्स स्पेक्ट्रम (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
5.	6555	मैसर्स मौज प्रकाशन प्राईवेट लिमिटेड
6.	6556	मैसर्स पीरलेस पब्लिसिटी कं.
7.	6845	मैसर्स कुसुमगर ओवरसीज प्राईवेट लिमिटेड
8.	6971	मैसर्स मिस्त्री इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
9.	8089	मैसर्स इस्टर्न कार्ड क्लोथिंग कं. प्राईवेट लिमिटेड
10.	8162	मैसर्स भवानीदास गंगादास एन्ड कं. प्राईवेट लिमिटेड
11.	8631	मैसर्स कास्टलीम्यूर प्राईवेट लिमिटेड
12.	9799	मैसर्स मरक्युरी आयरन एन्ड स्टील कं. प्राईवेट लिमिटेड
13.	11161	मैसर्स धर्म सिंह अवतार सिंह (फायनान्स) प्राईवेट लिमिटेड
14.	11339	मैसर्स सयानकोमा लेबोरेटरीस प्राईवेट लिमिटेड
15.	11345	मैसर्स आर. जी. केसवानी एन्ड कं. प्राईवेट लिमिटेड
16.	11525	मैसर्स बरोडा कन्टेनर्स प्राईवेट लिमिटेड
17.	11627	मैसर्स सीपको पुलवरीसर्स प्राईवेट लिमिटेड
18.	11711	मैसर्स दि इस्टर्न इलेक्ट्रीक इंजीनियरिंग कं. प्राईवेट लिमिटेड
19.	11855	मैसर्स फायरफो प्राईवेट लिमिटेड
20.	12064	मैसर्स रवि उदय विजया फोटो लिथो ओफसेट वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड
21.	12620	मैसर्स स्पाकोन इलेक्ट्रीकल्स प्राईवेट लिमिटेड
22.	12755	मैसर्स हिपेक प्राईवेट लिमिटेड
23.	12807	मैसर्स स्टैरेस्ड कोनक्रिट कनस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
24.	12916	मैसर्स गोहील ब्रदर्स प्राईवेट लिमिटेड
25.	13019	मैसर्स कीटकेम प्राईवेट लिमिटेड
26.	13076	मैसर्स टेस्ट इक्युपमेंट (इलेक्ट्रीकल) प्राईवेट लिमिटेड
27.	13250	मैसर्स श्री अश्विन एन्ड कं. माइनिंग प्राईवेट लिमिटेड
28.	13310	मैसर्स वुड चुल प्राईवेट लिमिटेड
29.	13442	मैसर्स अंबरनाथ सिल्क मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
30.		रिक्त

1	2	3	1	2	3
31.	14102	मैसर्स समर्थ पेपर एन्ड बोर्ड मील्ल्स प्राईवेट लिमिटेड	58.	18372	मैसर्स मोहित एग्रो इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
32.	14160	मैसर्स प्रभात ओईल इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड	59.	18450	मैसर्स श्री के. के. एस. टेक्सटाइल्स प्राईवेट लिमिटेड
33.	14323	मैसर्स इनवीरोनमेंटल इन्वेस्टमेंट्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड	60.	18728	मैसर्स नेपच्युन इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
34.	14627	मैसर्स एक्वर प्रीन्ट डुप्लीकेटर्स प्राईवेट लिमिटेड	61.	18755	मैसर्स मुकेश मुवीज प्राईवेट लिमिटेड
35.	14716	मैसर्स विनोदराय मनीलाल एन्ड कंपनी प्राईवेट लिमिटेड	62.	18770	मैसर्स दौलत शिपिंग एन्ड इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड
36.	14748	मैसर्स स्पेशलीटी चाल्वस प्राईवेट लिमिटेड	63.	18792	मैसर्स पीरामल सिन्थेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड
37.	15048	मैसर्स प्रशांत एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	64.	18805	मैसर्स केन्डस एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
38.	15197	मैसर्स मुवी फायनान्स कं. प्राईवेट लिमिटेड	65.	18806	मैसर्स केन्डस मार्केटींग प्राईवेट लिमिटेड
39.	15208	मैसर्स खन्ना प्लास्टिक्स एन्ड केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड	66.	19049	मैसर्स राज रोल प्राईवेट लिमिटेड
40.	15307	मैसर्स जे. हार्डकेअर एन्ड कंपनी प्राईवेट लिमिटेड	67.	19051	मैसर्स आर. एम. डी. सी. पैकेजिंग प्राईवेट लिमिटेड
41.	15596	मैसर्स दि भय्या अप्फलीटीस प्राईवेट लिमिटेड	68.	19083	मैसर्स स्टैन्डर्ड केमटेक्स प्राईवेट लिमिटेड
42.	16050	मैसर्स एफ. आर. इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड	69.	19417	मैसर्स बी. सी. एल. ओवरसीज एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
43.	16246	मैसर्स ओन्यस इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड	70.	19727	मैसर्स ओरके इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड
44.	16289	मैसर्स महावीर रीफाक्टरीस प्राईवेट लिमिटेड	71.	19851	मैसर्स जेसी ड्रग्स एन्ड फार्मास्युटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
45.	16801	मैसर्स स्वास्तिक इस्पात लिमिटेड	72.	19858	मैसर्स आय एण्ड एम फेरोमेट प्राईवेट लिमिटेड
46.	16865	मैसर्स नीलकंठ इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	73.	20305	मैसर्स थेउर स्टड एन्ड एग्रीकलचरल फार्म प्राईवेट लिमिटेड
47.	16905	मैसर्स आदित्य अंडवरटाइजिंग सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	74.	20368	मैसर्स साधना नीटर्स प्राईवेट लिमिटेड
48.	17026	मैसर्स सिनेवेक इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड	75.	20375	मैसर्स दोषी डायमंड्स प्राईवेट लिमिटेड
49.	17048	मैसर्स श्री एम सीलीकोन्स एन्ड केमीकल्स प्राईवेट लिमिटेड	76.	21018	मैसर्स अलगर पेकेजस प्राईवेट लिमिटेड
50.	17109	मैसर्स लामे इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड	77.	21518	मैसर्स चिराग एजेन्सीज प्राईवेट लिमिटेड
51.	17214	मैसर्स ज्योतीर माल्ट प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	78.	21555	मैसर्स चैत्रा फर्म्स एन्ड इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
52.	17330	मैसर्स सेश ट्रेड लिक्स प्राईवेट लिमिटेड	79.	21610	मैसर्स ओवरसीस एम्प्लायमेंट एन्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन कोरपोरेशन आफ महाराष्ट्र लिमिटेड
53.	17801	मैसर्स खायाबर कटरिंग कन्सलटेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	80.	21655	मैसर्स जे. एस. प्लास्टीक्स प्राईवेट लिमिटेड
54.	17847	मैसर्स आर्चीस कनस्ट्रक्शन एन्ड इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड	81.	21920	मैसर्स कनटेनर्स सेक्युरींग सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
55.	17913	मैसर्स टेक्नो पेपर इंडिया लिमिटेड	82.	21921	मैसर्स ए. मंगलदास एप्पेरेल्स प्राईवेट लिमिटेड
56.	18024	मैसर्स नीता एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	83.	21978	मैसर्स धमनकर ब्रदर्स इन्वेस्टमेंट कं. लिमिटेड
57.	18152	मैसर्स वेल पेक्ड पैकेजिंग प्राईवेट लिमिटेड	84.	21979	मैसर्स एम. डी. इन्वेस्टमेंट कं. लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
85.	21980	मैसर्स कुमुद इन्वेस्टमेंट कं. लिमिटेड	114.	25238	मैसर्स शह सन्स एग्रो प्रोडक्ट्स एन्ड ट्रेडिंग कं. प्राईवेट लिमिटेड
86.	21981	मैसर्स रवीन्द्र इन्वेस्टमेंट कं. लिमिटेड	115.	25267	मैसर्स केवीस फुड प्रोडक्ट्स लिमिटेड
87.	22060	मैसर्स एच. जे. ट्रेडिंग एन्ड इन्वेस्टमेंट्स कं. लिमिटेड	116.	24887	मैसर्स पेनीनसुलर शिपिंग प्राईवेट लिमिटेड
88.	22061	मैसर्स के. एच. ट्रेडिंग एन्ड इन्वेस्टमेंट कं. लिमिटेड	117.	25631	मैसर्स रत्नागिरी वायर्स प्राईवेट लिमिटेड
89.	22062	मैसर्स जे. सी. ट्रेडिंग एन्ड इन्वेस्टमेंट कं. लिमिटेड	118.	25437	मैसर्स पीरल होल्डिंग प्राईवेट लिमिटेड
90.	22063	मैसर्स सी. के. ट्रेडिंग एन्ड इन्वेस्टमेंट कं. लिमिटेड	119.	25654	मैसर्स प्रीसीशन स्ट्रीप्स प्राईवेट लिमिटेड
91.	22210	मैसर्स इन्वोवेनचर बिजनेस मशीनस प्राईवेट लिमिटेड	120.	25944	मैसर्स आशा फर्टीलाइजर्स प्राईवेट लिमिटेड
92.	22557	मैसर्स न्यु वाइटेक्स इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड	121.	26344	मैसर्स वाइडफील्ड केमीकल्स एण्ड मेटल्स प्राईवेट लिमिटेड
93.	22790	मैसर्स गरकम मिनरल इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड	122.	26378	मैसर्स सुपर हीट्स म्यूजीक प्राईवेट लिमिटेड
94.	22817	मैसर्स ब्रीज केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड	123.	26627	मैसर्स जेहनगीर इन्वेस्टमेंट्स एण्ड कंसलटेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
95.	23093	मैसर्स देवदीत मंगलदास इन्वेस्टमेंट कं.	124.	26677	मैसर्स विशाल आयोमोबाइल्स प्राईवेट लिमिटेड
96.	23440	मैसर्स मेक्सवीक स्टील मेल्टिंग इंडस्ट्रीस प्राईवेट लिमिटेड	125.	26716	मैसर्स होप होल्डिंग्स एण्ड ट्रेडिंग कं. प्राईवेट लिमिटेड
97.	24519	मैसर्स स्टेप्स इंजीनीयर्स प्राईवेट लिमिटेड	126.	26740	मैसर्स पांचाली इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
98.	23527	मैसर्स रशीद प्राईवेट लिमिटेड	127.	26741	मैसर्स मोनालासा इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
99.	23548	मैसर्स परबजोत टेक्सटाइल्स प्राईवेट लिमिटेड	128.	26763	मैसर्स जीत पेन होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
100.	23629	मैसर्स एमजेपी फायनान्स एन्ड कंसलटेंसी प्राईवेट लिमिटेड	129.	26764	मैसर्स ओरसी होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
101.	24034	मैसर्स युरू इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	130.	26765	मैसर्स बुमसी होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
102.	24101	मैसर्स सुफना सोल्ट प्राईवेट लिमिटेड	131.	26766	मैसर्स मन्नु होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
103.	24231	मैसर्स अवीस इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड	132.	26843	मैसर्स अटोमेक्स कम्प्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
104.	24233	मैसर्स आदित्यश्याम एक्सपोर्ट्स एन्ड इम्पोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	133.	26884	मैसर्स यश फार्मा-केम (बोम्बे) प्राईवेट लिमिटेड
105.	24267	मैसर्स माईटोल पेट्रोलियम्स प्राईवेट लिमिटेड	134.	26957	मैसर्स दफ्तरी इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
106.	24291	मैसर्स बालाजी पेन्स प्राईवेट लिमिटेड	135.	26993	मैसर्स राढी री सोलिंग मिल्स (नाशिक) प्राईवेट लिमिटेड
107.	24294	मैसर्स जी. एन. फायनान्स प्राईवेट लिमिटेड	136.	27014	मैसर्स आयपोनीटा इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड
108.	24299	मैसर्स सुरज कीरन फेब्रीक्स प्राईवेट लिमिटेड	137.	27121	मैसर्स शवना बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
109.	24381	मैसर्स मासकोट प्रोसेस एन्ड कंसलटेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	138.	27441	मैसर्स सोमकुमार कारबन पेपर प्राईवेट लिमिटेड
110.	24633	मैसर्स प्रीफोरमेड इनसुलेशन प्राईवेट लिमिटेड	139.	27769	मैसर्स आर. सी. मेकनीकल इंजीनियरिंग कं. (बोम्बे) प्राईवेट लिमिटेड
111.	24667	मैसर्स स्पीडेक्स डाटा प्रोसेसिंग प्राईवेट लिमिटेड	140.	27832	मैसर्स नोरवाय कम्प्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
112.	24730	मैसर्स गुप्ता ट्रेड एन्ड स्पेस प्राईवेट लिमिटेड	141.	27878	मैसर्स इनसीटु जीओटेकनीक्स प्राईवेट लिमिटेड
113.	25089	मैसर्स आदित्य ड्रग हाऊस प्राईवेट लिमिटेड	142.	27934	मैसर्स शोबा मशीनरीस प्राईवेट लिमिटेड
			143.	27947	मैसर्स वसुंधरा प्लास्टीक्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
144.	28405	मैसर्स संगता ट्रेडिंग इम्पेक्स लिमिटेड	172.	30151	मैसर्स ट्रान्सो टेक्सटाइल्स एण्ड इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड
145.	28430	मैसर्स वीन्दा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड	173.	30152	मैसर्स बीनाट टेक्सटाइल्स एण्ड इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड
146.	28459	मैसर्स प्रीमनोहर इन्वेस्टमेंट एण्ड फायनान्स कं. प्राईवेट लिमिटेड	174.	30528	मैसर्स देवकी सरन होल्डिंग्स कं. प्राईवेट लिमिटेड
147.	28478	मैसर्स रीगीमेक्स मशीन टूल्स प्राईवेट लिमिटेड	175.	30596	मैसर्स प्राइम फूड्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
148.	28479	मैसर्स रजनी इंजीनियरिंग कंसलटेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	176.	30676	मैसर्स दारूवाला दस्तुर ठाणावाला कंसलटेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
149.	28530	मैसर्स अग्रोनीक इन्स्ट्रुमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	177.	30702	मैसर्स ओमेगा पेकेजिंग प्राईवेट लिमिटेड
150.	28532	मैसर्स अवोन कलर्स एण्ड केमीकल्स प्राईवेट लिमिटेड	178.	30857	मैसर्स पेट्रुशका फायनान्स प्राईवेट लिमिटेड
151.	28603	मैसर्स इन्ड्रको ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड	179.	30858	मैसर्स शेष मुशरका फायनान्स लिमिटेड
152.	28614	मैसर्स त्रिशुल सेल्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड	180.	30859	मैसर्स अभुषन लिजिंग कं. प्राईवेट लिमिटेड
153.	28684	मैसर्स रीस्सी (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड	181.	30913	मैसर्स मेफललीफ सीन्याटीक लिमिटेड
154.	28702	मैसर्स एनजेपी कम्प्यूटर कंसलटेंसी सर्वीसेस लिमिटेड	182.	30914	मैसर्स सनगोल्ड सीन्याटीक टेक्सटाइल्स लिमिटेड
155.	28832	मैसर्स शिवदासानी इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड	183.	31074	मैसर्स शेली इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड
156.	29023	मैसर्स नाहुष टेक्सटाइल इंडस्ट्रीस प्राईवेट लिमिटेड	184.	31130	मैसर्स मल्लीका सरन होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
157.	29052	मैसर्स हब इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड	185.	31187	मैसर्स ब्रह्मभट इन्वेस्टमेंट कं. प्राईवेट लिमिटेड
158.	29235	मैसर्स रतनलाल इन्वेस्टमेंट एण्ड पिकवर्स प्राईवेट लिमिटेड	186.	31188	मैसर्स दुराफीज इन्वेस्टमेंट कं. प्राईवेट लिमिटेड
159.	29304	मैसर्स ओरको मेन मेड टेक्सटाइल्स प्राईवेट लिमिटेड	187.	31192	मैसर्स गीरीष इन्वेस्टमेंट फायनान्स प्राईवेट लिमिटेड
160.	29305	मैसर्स सी ग्रीन टेक्सटाइल्स प्राईवेट लिमिटेड	188.	31205	मैसर्स केम्सफोरे इंजीनियर्स एण्ड कन्स्ट्रक्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
161.	29306	मैसर्स पारामेंट सीन्याटीक लिमिटेड	189.	31228	मैसर्स संत्रीसाईड इन्वेस्टमेंट्स एण्ड ट्रेडिंग कं. प्राईवेट लिमिटेड
162.	29307	मैसर्स महेश सिन्थेटिक लिमिटेड	190.	31266	मैसर्स अर्जुन सीन्याटीक लिमिटेड
163.	29308	मैसर्स ओरलानडो सीन्याटीक इंडस्ट्रीस लिमिटेड	191.	31268	मैसर्स शीशु सीन्याटीक प्राईवेट लिमिटेड
164.	29319	मैसर्स ओरको इंटरनेशनल टेक्सटाइल्स प्राईवेट लिमिटेड	192.	31270	मैसर्स टिंकु सीन्याटीक प्राईवेट लिमिटेड
165.	29420	मैसर्स इनपीको टेक्सटाइल्स एण्ड जनरल इंडस्ट्रीस प्राईवेट लिमिटेड	193.	31275	मैसर्स शकु सीन्याटीक प्राईवेट लिमिटेड
166.	29500	मैसर्स लुईस सिल्क मिल्स प्राईवेट लिमिटेड	194.	31337	मैसर्स नैकी फार्मास्युटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
167.	29644	मैसर्स जे. डी. सेल्स लिमिटेड	195.	31588	मैसर्स सीलवर आर्च इन्वेस्टमेंट्स एण्ड लीजिंग कं. प्राईवेट लिमिटेड
168.	29788	मैसर्स साईनाथ पोलीयस्टर प्राईवेट लिमिटेड	196.	31667	मैसर्स जैनसन अप्परेलस प्राईवेट लिमिटेड
169.	29869	मैसर्स शेशव इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	197.	31948	मैसर्स चोक्स सेल्स प्राईवेट लिमिटेड
170.	30149	मैसर्स जेम्स सीन्याटीक एण्ड होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड	198.	32204	मैसर्स प्रीन्ट ओ क्वीक कम्प्यूटर सर्वीसेस प्राईवेट लिमिटेड
171.	30150	मैसर्स सचींद सीन्याटीक एण्ड होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड	199.	32290	मैसर्स रजनी सीन्याटीक प्राईवेट लिमिटेड
			200.	32291	मैसर्स सचिन ट्रान्सो प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
201.	32608	मैसर्स हेन्डर केयर कोन्समेटिक लिमिटेड
202.	32635	मैसर्स ससोई फुड प्रोडक्ट्स लिमिटेड
203.	32663	मैसर्स सत्य पुरुष फायनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट कं. प्राईवेट लिमिटेड
204.	32665	मैसर्स जेडी वायर फ्लक्स प्राईवेट लिमिटेड
205.	32763	मैसर्स डिओर दे पेरीस कोस्मेटिक्स (इ) लिमिटेड
206.	32764	मैसर्स कनटेस्सा दे पेरीस कोस्मेटिक्स (इ) प्राईवेट लिमिटेड
207.	33023	मैसर्स सुफीना इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड
208.	33153	मैसर्स चंदामी इन्वेस्टमेंट्स एण्ड फायनान्सिंग प्राईवेट लिमिटेड
209.	33229	मैसर्स हरकब होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
210.	33271	मैसर्स क्लासीक ड्रग्स प्राईवेट लिमिटेड
211.	33295	मैसर्स छत्रीया कोमप्रेस्सर एण्ड अल्लाइड सर्वीसेस प्राईवेट लिमिटेड
212.	33391	मैसर्स सोलार इनोवगनीक इंडस्ट्रीस प्राईवेट लिमिटेड
213.	33445	मैसर्स स्पेस स्ट्रक्चरल कनसलटेन्ट्स एण्ड इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड
214.	33460	मैसर्स आर एण्ड डी मल्टीप्लस इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड
215.	रिक्त	रिक्त
216.	33517	मैसर्स गौरव ओशनीक शिपिंग लिमिटेड
217.	रिक्त	रिक्त
218.	33945	मैसर्स मैक्रो सीलीका प्राईवेट लिमिटेड
219.	33980	मैसर्स अलीशा स्कुना इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड
220.	33994	मैसर्स मनीष कंसलटेन्सी सर्वीसेस प्राईवेट लिमिटेड
221.	34001	मैसर्स बिन्दल लिजिंग प्राईवेट लिमिटेड
222.	34167	मैसर्स के. के. पुन्जा केमीकल्स प्राईवेट लिमिटेड
223.	34422	मैसर्स सन्नी मुवीज (बोम्बे) प्राईवेट लिमिटेड
224.	34556	मैसर्स वेंक मैनेजमेंट कंसलटेन्ट्स लिमिटेड
225.	34655	मैसर्स इनसोफ्ट कम्प्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
226.	34682	मैसर्स ओरीओन मैनेजमेंट्स कंसल्टिंग ग्रुप प्राईवेट लिमिटेड
227.	34766	मैसर्स मल्टी इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
228.	34924	मैसर्स सक्सेसफुल लिजिंग एण्ड फायनान्सिंग लिमिटेड

1	2	3
229.	35012	मैसर्स मेरीडीयन प्रीन्टवेल प्राईवेट लिमिटेड
230.	35015	मैसर्स युनीयन लॉपस प्राईवेट लिमिटेड
231.	35312	मैसर्स कोनस्टंट मार्केटिंग सर्वीसेस प्राईवेट लिमिटेड
232.	35365	मैसर्स जेडी फूड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
233.	35525	मैसर्स नीरमन इस्पात उद्योग प्राईवेट लिमिटेड
234.	35558	मैसर्स डायनामीक्स प्ला सर्वीसेस प्राईवेट लिमिटेड
235.	35663	मैसर्स मोनो टेक्स प्राईवेट लिमिटेड
236.	35936	मैसर्स नवसारी इक्स्ट्राक्शन प्राईवेट लिमिटेड
237.	35943	मैसर्स अमरीत वेअरहौसींग कं. प्राईवेट लिमिटेड
238.	35945	मैसर्स महंतनेय बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
239.	35963	मैसर्स देवेन्द्र फेब्रीक्स प्राईवेट लिमिटेड
240.	36015	मैसर्स सीगनेट केमीकल्स प्राईवेट लिमिटेड
241.	36082	मैसर्स सिध्दी व बुद्धी पॉवर ट्रांसमिशन एण्ड इलेक्ट्रोनीक्स प्राईवेट लिमिटेड
242.	36083	मैसर्स युनीक ट्रांसफोर्म्स एण्ड इलेक्ट्रोनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
243.	36176	मैसर्स चेतक इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
244.	36228	मैसर्स प्लास्ट्रोनीक्स इंडिया लिमिटेड
245.	36479	मैसर्स शालीमार मशीनेन फेब्रीक्स प्राईवेट लिमिटेड
246.	36543	मैसर्स महंतने होटेल्स प्राईवेट लिमिटेड
247.	36574	मैसर्स मॉर्डन इस्सेनशीयल ओइल्स एण्ड केमीकल्स प्राईवेट लिमिटेड
248.	36652	मैसर्स वीमल सोल्ट पेंटर प्राईवेट लिमिटेड
249.	36661	मैसर्स अक्युरीस मैनेजमेंट कनसलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
250.	36748	मैसर्स अर्चना बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
251.	36850	मैसर्स सम्मर ऑयलड मार्केटिंग कं. प्राईवेट लिमिटेड
252.	36935	मैसर्स दि. सी ट्रेडिंग एण्ड फायनान्स लिमिटेड
253.	36988	मैसर्स स्लीमफास्ट फूड्स (बोम्बे) प्राईवेट लिमिटेड
254.	37211	मैसर्स एवरशाइन कोनट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
255.	37404	मैसर्स इमप्रिन्ट सोफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड
256.	37468	मैसर्स हरीसन्स टेक्सटाईल्स प्राईवेट लिमिटेड
257.	37502	मैसर्स श्री संपदा बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड



1	2	3	1	2	3
258.	37503	मैसर्स वसंतोष केमी प्लास्ट प्राईवेट लिमिटेड	286.	39810	मैसर्स विनायका लेमीनेट्स प्राईवेट लिमिटेड
259.	37598	मैसर्स एस. के. नन्दा कन्सलटेन्ट्स एण्ड इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड	287.	39964	मैसर्स श्री चारभुजा इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
260.	37705	मैसर्स दिजे उल्लन मील्स प्राईवेट लिमिटेड	288.	39965	मैसर्स नटवर नगर इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
261.	37714	मैसर्स बेर्गेसेन डि. वाय इंडिया प्राईवेट लिमिटेड	289.	40018	मैसर्स सुअनल कनस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
262.	37788	मैसर्स मित्तल रोड केरीअर्स प्राईवेट लिमिटेड	290.	40020	मैसर्स मोड फायनान्स प्राईवेट लिमिटेड
263.	37930	मैसर्स महावीर बिजनेस सर्वीस सेंटर प्राईवेट लिमिटेड	291.	40141	मैसर्स दिपा इंडस्ट्रीयल सर्वीसेस प्राईवेट लिमिटेड
264.	38005	मैसर्स अनुराग इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड	292.	40187	मैसर्स दीजे सिल्क मिल्स (बोम्बे) प्राईवेट लिमिटेड
265.	38311	मैसर्स बहुमेहा इन्वेस्टमेंट एण्ड फायनान्सियल कन्सलटेंसी सर्वीसेस प्राईवेट लिमिटेड	293.	40278	मैसर्स प्राइम फायनान्स सर्वीसेस प्राईवेट लिमिटेड
266.	38398	मैसर्स सीनो क्राफ्ट इंडस्ट्रीस (बोम्बे) प्राईवेट लिमिटेड	294.	40305	मैसर्स कोमल सीन्युटेक प्राईवेट लिमिटेड
267.	38405	मैसर्स रथाष इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड	295.	40309	मैसर्स सुयुका इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
268.	38408	मैसर्स अलवेन वाज एजेन्सीज प्राईवेट लिमिटेड	296.	40335	मैसर्स नीयती प्रोपर्टीस प्राईवेट लिमिटेड
269.	38518	मैसर्स गुडबोर्ननाथजी फायनान्सियल कं. प्राईवेट लिमिटेड	297.	40382	मैसर्स सुकु कम्प्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
270.	38571	मैसर्स छोग्यलाचेल इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	298.	40423	मैसर्स एडवान्ड डाइग्नोस्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड
271.	38573	मैसर्स रनछोडदासजी इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	299.	40461	मैसर्स शैलेष ट्रेडिंग कं. प्राईवेट लिमिटेड
272.	38595	मैसर्स आर्यवृत्त पेट्रोकेम एण्ड अलाइड इंडस्ट्रीस प्राईवेट लिमिटेड	300.	40472	मैसर्स कायर इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
273.	38632	मैसर्स वी कम्प्यूटर्स एण्ड सॉफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड	301.	40473	मैसर्स अरेम इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
274.	38749	मैसर्स एसके इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	302.	40477	मैसर्स अरुन्देल इन्वेस्टमेंट्स एण्ड फायनान्स प्राईवेट लिमिटेड
275.	38750	मैसर्स केटरीलर इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड	303.	40614	मैसर्स श्री रामचन्द्रा इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
276.	38779	मैसर्स रीडगे फार्मास्युटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड	304.	40672	मैसर्स मानव द्यूब उद्योग प्राईवेट लिमिटेड
277.	38782	मैसर्स साईनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीस प्राईवेट लिमिटेड	305.	40732	मैसर्स देवहीन ट्रेडिंग एण्ड एजेन्सीस प्राईवेट लिमिटेड
278.	38991	मैसर्स हनुमान पेकेजिंग कं. प्राईवेट लिमिटेड	306.	40860	मैसर्स पेन्डरकर इलेमेक वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड
279.	39001	मैसर्स नीओ कास्ट प्राईवेट लिमिटेड	307.	40927	मैसर्स मंगला इनफोरमेशन सर्वीसेस प्राईवेट लिमिटेड
280.	39040	मैसर्स केजे इन्वेस्टमेंट एण्ड फायनान्सियल कन्सलटेंसी सर्वीसेस प्राईवेट लिमिटेड	308.	41199	मैसर्स तेज प्रीत इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
281.	39074	मैसर्स रूचासोम इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	309.	41408	मैसर्स पीयल लीजिंग एण्ड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड
282.	39269	मैसर्स प्रीरूच इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	310.	41414	मैसर्स अमर फर्म्स प्राईवेट लिमिटेड
283.	39271	मैसर्स प्रीअश इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	311.	41497	मैसर्स महाजन सिन्धाटीक प्राईवेट लिमिटेड
284.	39272	मैसर्स प्रीओम इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	312.	41609	मैसर्स स्नाप अतो रब प्राईवेट लिमिटेड
285.	39323	मैसर्स सुदर्शन कनटेनर्सम्युकर्स प्राईवेट लिमिटेड	313.	41749	मैसर्स दागा प्लास्टीक्स इंडस्ट्रीस प्राईवेट लिमिटेड
			314.	41825	मैसर्स सुरक डिजिटल प्राईवेट लिमिटेड
			315.	42033	मैसर्स अनीफ इलेक्ट्रो प्लास्ट प्राईवेट लिमिटेड
			316.	42234	मैसर्स दमयंती इलेक्ट्रिकल प्राईवेट लिमिटेड
			317.	42248	मैसर्स पै एकजीम प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
318.	42265	मैसर्स छोटालाल इलेक्ट्रिक प्राईवेट लिमिटेड	347.	45561	मैसर्स कुमेक इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
319.	42266	मैसर्स सुकु एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	348.	45562	मैसर्स अशोमा इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
320.	42341	मैसर्स टेक्नो वाटर ट्रीटमेंट (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड	349.	45588	मैसर्स मृदु पेपर एण्ड बोर्ड इंडस्ट्रीस प्राईवेट लिमिटेड
321.	42356	मैसर्स क्लासीक कन्टेनर प्राईवेट लिमिटेड	350.	45608	मैसर्स भगवते बिजनेस सर्वीसेस प्राईवेट लिमिटेड
322.	42398	मैसर्स इन्वोवेटिक अप्लाइडसेस प्राईवेट लिमिटेड	351.	45918	मैसर्स ब्योचेक रेमीडीस प्राईवेट लिमिटेड
323.	42591	मैसर्स ला फ्रान्सेस इन्वेस्टमेंट एण्ड फायनान्स प्राईवेट लिमिटेड	352.	45919	मैसर्स स्पेशल फ्रूट्स प्राईवेट लिमिटेड
324.	42596	मैसर्स मीकासा इन्वेस्टमेंट फायनान्स प्राईवेट लिमिटेड	353.	45920	मैसर्स स्फडी मार्केटिंग सर्वीसेस प्राईवेट लिमिटेड
325.	42851	मैसर्स श्रद्धा लेबोरेट्रीस प्राईवेट लिमिटेड	354.	45940	मैसर्स रेनौन प्लास्टीक्स प्राईवेट लिमिटेड
326.	42987	मैसर्स वादीलाल इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड	355.	46295	मैसर्स इंटरमार्क होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
327.	43121	मैसर्स वेस्ट कोस्ट फायनान्स प्राईवेट लिमिटेड	356.	46381	मैसर्स अडवान्स मर्राइन एण्ड वेल्लिंग कं. प्राईवेट लिमिटेड
328.	43184	मैसर्स सीगनेट डाइकोम प्राईवेट लिमिटेड	357.	46385	मैसर्स लेबोरटरी सप्लायर्स (बोम्बे) प्राईवेट लिमिटेड
329.	43297	मैसर्स सुदामा इस्टेट एण्ड बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड	358.	46440	मैसर्स वेन-डोन इंडिया लिमिटेड
330.	43529	मैसर्स अंबरीश फायबर्स प्राईवेट लिमिटेड	359.	46614	मैसर्स गरुडा पोलीकेम इंडस्ट्रीस प्राईवेट लिमिटेड
331.	43584	मैसर्स मैलील इलेक्ट्रोनिक प्राईवेट लिमिटेड	360.	46934	मैसर्स वेन-फ्लो लेबोरटरीस प्राईवेट लिमिटेड
332.	43593	मैसर्स प्रु वीडिओ (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड	361.	46939	मैसर्स सोल्यूशन कन्सलटेन्ट्स एण्ड मैनेजमेंट सर्वीसेस प्राईवेट लिमिटेड
333.	43751	मैसर्स फाईन्सपार्क इलेक्ट्रोड्स प्राईवेट लिमिटेड	362.	47327	मैसर्स स्पीनर फायनान्स एण्ड लीजिंग प्राईवेट लिमिटेड
334.	43812	मैसर्स बीजमैन डायप्रु प्राईवेट लिमिटेड	363.	47389	मैसर्स ऋषि पोली फायबर्स एंड एकजीम प्राईवेट लिमिटेड
335.	44039	मैसर्स वासुदेवाया अग्रो एण्ड होल्टीकलचर डेव्हलपमेंट प्राईवेट लिमिटेड	364.	47413	मैसर्स मोटया इस्टेट एण्ड डेव्हलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
336.	44081	मैसर्स जनसंप ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड	365.	47472	मैसर्स भुमा ग्राफीक्स प्राईवेट लिमिटेड
337.	44146	मैसर्स अब्दुरे प्रीसीशन इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड	366.	47610	मैसर्स सुकु मेनेजमेंट कन्सलटेन्सी सर्वीसेस प्राईवेट लिमिटेड
338.	44180	मैसर्स पुरुषोत्तमदास माधवानी इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड	367.	47636	मैसर्स वीकेन्ड लगेज प्राईवेट लिमिटेड
339.	44657	मैसर्स मुरली मोहन प्राईवेट लिमिटेड	368.	47866	मैसर्स मेफील्ड बेयरींग्स प्राईवेट लिमिटेड
340.	44856	मैसर्स गजेन्द्र डेव्हलपर्स प्राईवेट लिमिटेड	369.	48015	मैसर्स अमोघ रेसीप्लास्टोनीक इंडस्ट्रीस प्राईवेट लिमिटेड
341.	44926	मैसर्स कोनवुड सेल्स प्राईवेट लिमिटेड	370.	48143	मैसर्स दिपक ब्रीज गुप्ता एण्ड कन्सलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
342.	45068	मैसर्स क्रीस्टल माइनींग एण्ड मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड	371.	48289	मैसर्स डायनामीक्स लेदर इंडस्ट्रीस प्राईवेट लिमिटेड
343.	45272	मैसर्स विनेष इलेक्ट्रीकल्स प्राईवेट लिमिटेड	372.	48508	मैसर्स झान्डु इन्वेस्टमेंट लिमिटेड
344.	45378	मैसर्स शिला होटेल्स प्राईवेट लिमिटेड	373.	48585	मैसर्स समी मेता यार्न प्राईवेट लिमिटेड
345.	45547	मैसर्स चमेष इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड			
346.	45552	मैसर्स फाइव स्टार्स शिपमेनेजमेंट कं. प्राईवेट लिमिटेड			

1	2	3	1	2	3
374.	48636	मैसर्स रीचलैंड इन्वेस्टमेंट्स कं. प्राईवेट लिमिटेड	404.	52641	मैसर्स पेस मार्केटिंग सर्वीसेस प्राईवेट लिमिटेड
375.	48736	मैसर्स युनीकोर्न फायनान्सीयल सर्वीसेस प्राईवेट लिमिटेड	405.	52748	मैसर्स ओरमेक्स ओडिओ प्राईवेट लिमिटेड
376.	48816	मैसर्स टारगेट सेक्युरीटिस एण्ड फायनान्सीयल ट्रस्ट प्राईवेट लिमिटेड	406.	53276	मैसर्स सनील केम इंडस्ट्रीस प्राईवेट लिमिटेड
377.	48983	मैसर्स इमीनेंट प्रिन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	407.	53583	मैसर्स लीटल स्टार एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
378.	49248	मैसर्स वेस्ट इंड क्लियरिंग एण्ड फारवरडींग प्राईवेट लिमिटेड	408.	53813	मैसर्स टेक्नोक्राट इंटरलॉक्स प्राईवेट लिमिटेड
379.	49437	मैसर्स टेक प्रिन्टर्स प्राईवेट लिमिटेड	409.	54059	मैसर्स जनता ग्लास वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड
380.	49785	मैसर्स पी. जे. स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड	410.	54210	मैसर्स मुनीर फेब्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड
381.	49865	मैसर्स सुजल इंटरमीडियेट्स प्राईवेट लिमिटेड	411.	54243	मैसर्स मॅचलेस्स एक्सपोर्ट लिमिटेड
382.	50108	मैसर्स भइराई फुड्स प्राईवेट लिमिटेड	412.	54415	मैसर्स हगेर इलेक्ट्रोप्लास लिमिटेड
383.	50140	मैसर्स गैंगसन्स फेब्रीक्स प्राईवेट लिमिटेड	413.	54567	मैसर्स महाशक्ती फ्रूट्स कनवरशन एण्ड एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
384.	50188	मैसर्स भावीन केमीकल इंडस्ट्रीस प्राईवेट लिमिटेड	414.	54743	मैसर्स ओरकेप स्टील प्राईवेट लिमिटेड
385.	50229	मैसर्स पारामाऊंट मेडीकोस लिमिटेड	415.	54872	मैसर्स शकीस फुड्स प्राईवेट लिमिटेड
386.	50282	मैसर्स विसाका एक्सपोर्ट्स इम्पोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	416.	55602	मैसर्स रेड अलेन स्पेयर्स प्राईवेट लिमिटेड
387.	50397	मैसर्स केप कन्स्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड	417.	55780	मैसर्स वीरच्यु एम्पेरेल्स प्राईवेट लिमिटेड
388.	50676	मैसर्स राजुला ट्रेडिंग कं. प्राईवेट लिमिटेड	418.	55789	मैसर्स रामा अलोयस प्राईवेट लिमिटेड
389.	50677	मैसर्स गजानन कमर्शियल इंटरप्राइसेज प्राईवेट लिमिटेड	419.	55828	मैसर्स अनुयोग एग्रौफार्म्स प्राईवेट लिमिटेड
390.	50712	मैसर्स अदमे मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड	420.	55873	मैसर्स क्रीसेन्डो इरेक्टर्स प्रोजेक्ट प्राईवेट लिमिटेड
391.	50840	मैसर्स निकीता डेव्हलपर्स प्राईवेट लिमिटेड	421.	55908	मैसर्स श्रीलॉन सिंथेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड
392.	50882	मैसर्स केसन्स इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड	422.	56014	मैसर्स अर्जमोन होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
393.	50883	मैसर्स डोरीक इस्टेट एण्ड इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	423.	56017	मैसर्स पवनम होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
394.	50923	मैसर्स इटल मेनेजमेंट सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड	424.	56020	मैसर्स रीषलींग होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
395.	50926	मैसर्स अभिनव अग्रो प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	425.	56022	मैसर्स विनटेज होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
396.	50933	मैसर्स विवेक डील प्राईवेट लिमिटेड	426.	56044	मैसर्स पुंडलीकराव केमीकल्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
397.	50959	मैसर्स टासा ग्लास एण्ड अडेसीव इंडस्ट्रीस प्राईवेट लिमिटेड	427.	56162	मैसर्स रंक लेबोराटरीस प्राईवेट लिमिटेड
398.	51229	मैसर्स मारकाज मशीनरीस प्राईवेट लिमिटेड	428.	56164	मैसर्स कैलीबर कम्प्यूटर्स एण्ड टेक्नोलॉजीस प्राईवेट लिमिटेड
399.	51686	मैसर्स वेदान्त होल्डिंग प्राईवेट लिमिटेड	429.	56412	मैसर्स सुचीता एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
400.	51781	मैसर्स ओमनीरा मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड	430.	56887	मैसर्स प्योर हेलियम (बोम्बे) प्राईवेट लिमिटेड
401.	51962	मैसर्स धारा कनस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड	431.	57048	मैसर्स शोवाकर होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
402.	52380	मैसर्स इकोन स्टील प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	432.	57100	मैसर्स फाइव स्टार्स रेक्यूटमेंट एण्ड ट्रेवेल सर्वीसेस प्राईवेट लिमिटेड
403.	52608	मैसर्स फजे इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड	433.	57099	मैसर्स स्टर्लींग ज्वेलरी प्राईवेट लिमिटेड
			434.	57151	मैसर्स मुंध्रा टेक्सटाईल्स प्राईवेट लिमिटेड
			435.	57221	मैसर्स नागार्जुनसागर रियलटर्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
436.	57339	मैसर्स सीमा होलीडे होम्स प्राईवेट लिमिटेड	465.	59533	मैसर्स पल्लोजी सुबसीया ऑफशोर लिमिटेड
437.	57402	मैसर्स लीट्टम जैन कनसलटेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	466.	59571	मैसर्स सायोनारा इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड
438.	57408	मैसर्स असमीता इस्टेट प्रोपर्टीस प्राईवेट लिमिटेड	467.	59596	मैसर्स देव-धर्मा इन्वेस्टमेंट एण्ड फायनान्सियल प्राईवेट लिमिटेड
439.	57424	मैसर्स व्यनेक्स सोप्स प्राईवेट लिमिटेड	468.	59607	मैसर्स रूल ऑप्टीकल्स प्राईवेट लिमिटेड
440.	57461	मैसर्स शाइल शिप्पींग प्राईवेट लिमिटेड	469.	59638	मैसर्स मलाटी तम्बे वैद्य एण्ड एसोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड
441.	57500	मैसर्स फ्रेया इन्वेस्टमेंट एण्ड लिसींग प्राईवेट लिमिटेड	470.	59657	मैसर्स आयरिस ट्रेडिंग एण्ड एजेंसिज प्राईवेट लिमिटेड
442.	57545	मैसर्स क्रीयेटीव ड्रग्स प्राईवेट लिमिटेड	471.	59669	मैसर्स स्वेमन बीयरिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
443.	57551	मैसर्स पंचवटी सीमेंट प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	472.	59695	मैसर्स स्पिनर रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
444.	57555	मैसर्स अभीमन्यु मेटल्स प्राईवेट लिमिटेड	473.	59713	मैसर्स गोपालदास छोटेलाल फैंब्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड
445.	57592	मैसर्स सत्यम स्कीनींग प्राईवेट लिमिटेड	474.	59745	मैसर्स सिम्बा डाईज एण्ड केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
446.	57612	मैसर्स कोसजे इक्झीम प्राईवेट लिमिटेड	475.	59757	मैसर्स शर्मिन ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड
447.	57621	मैसर्स फोरमोस्ट सीस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड	476.	59758	मैसर्स दनुबे ट्रेडिंग एण्ड एजेन्सिस प्राईवेट लिमिटेड
448.	57891	मैसर्स ट्रीमीत्रा पोली प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	477.	59892	मैसर्स मुकन्द सोवियत इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड
449.	57909	मैसर्स पोलीटेक कनस्ट्रक्शन मैनेजमेंट सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	478.	60285	मैसर्स पम्बी केमिकल कंपनी प्राईवेट लिमिटेड
450.	58085	मैसर्स कंचन कम्प्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड	479.	60298	मैसर्स सुकन्या इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
451.	58150	मैसर्स स्वेहन एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	480.	60314	मैसर्स प्लास्टिका इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
452.	58197	मैसर्स अमीर फायनेन्शियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	481.	60895	मैसर्स अकर ट्रेडिंग एण्ड इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
453.	58221	मैसर्स निती रिफ्रेक्टरीज एण्ड इनसुलेटर्स प्राईवेट लिमिटेड	482.	61061	मैसर्स भोटे डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
454.	58334	मैसर्स मुलाधर इन्वेस्टमेंट्स एण्ड ट्रेडिंग कंपनी प्राईवेट लिमिटेड	483.	61107	मैसर्स मंगलमय इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड
455.	58488	मैसर्स साई फ्लक्सिस प्राईवेट लिमिटेड	484.	61156	मैसर्स बनोसा कैपिटल मार्केट्स एण्ड होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
456.	58557	मैसर्स एसोसिएटेड इन्फ्रास्ट्रक्चर्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड (सी/एन)	485.	61236	मैसर्स सुधान डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
457.	58715	मैसर्स लिन्सन लीसिंग प्राईवेट लिमिटेड	486.	61617	मैसर्स प्रशांत ओवरसीस प्राईवेट लिमिटेड
458.	58767	मैसर्स मैडलैक्स एंजिम प्राईवेट लिमिटेड	487.	61780	मैसर्स शीन पेकेजिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
459.	58946	मैसर्स सरोज टेक्सटाईल्स प्राईवेट लिमिटेड	488.	61836	मैसर्स रोलेक्स ब्राइट बार्स प्राईवेट लिमिटेड
460.	59008	मैसर्स अग्रवाल क्लासिस प्राईवेट लिमिटेड	489.	61863	मैसर्स अमीनेस एण्ड केमिकल्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
461.	59122	मैसर्स मेवावाला इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	490.	61942	मैसर्स श्री दुर्गा रोलिंग प्राईवेट लिमिटेड
462.	59188	मैसर्स प्रोतेचना एंटरप्राइसिस प्राईवेट लिमिटेड	491.	61962	मैसर्स मीतेष इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
463.	59247	मैसर्स भूमि हाऊसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	492.	61997	मैसर्स बुलची लेदर वेअर प्राईवेट लिमिटेड
464.	59316	मैसर्स महाराष्ट्र फुटवीयर कम्पौनेंट्स प्राईवेट लिमिटेड			

1	2	3	1	2	3
493.	62259	मैसर्स मनीभद्रा डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड	519.	65237	मैसर्स व्याली मार्केटिंग सर्वीसेस प्राईवेट लिमिटेड
494.	62593	मैसर्स विष्णु प्रोग्रेसिव इन्वेस्टमेंट सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	520.	65310	मैसर्स पी. एस. मोहिते कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
495.	62744	मैसर्स नरेम केमीमेटल प्राईवेट लिमिटेड	521.	65359	मैसर्स ब्लॉसम कम्प्यूटर स्टेशनरी प्राईवेट लिमिटेड
496.	62857	मैसर्स अफकोन्स शेयरहोल्डर्स मेडिकल केअर एण्ड कं. प्राईवेट लिमिटेड	522.	65518	मैसर्स तनमय इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
497.	62894	मैसर्स प्रभु प्लेसमेंट सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	523.	65617	मैसर्स रीमबेनी इंपेक्स प्राईवेट लिमिटेड
498.	63004	मैसर्स वीन क्लोजर्स प्राईवेट लिमिटेड	524.	65886	मैसर्स आनंद इरेक्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
499.	63052	मैसर्स मधु शर्टिंग इस्ट्रूमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	525.	रिक्त	रिक्त
500.	63213	मैसर्स श्री गुरुकृपा ओडिओ वीडिओ सेल्स एण्ड सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	526.	66103	मैसर्स सागर सोलवेन्स प्राईवेट लिमिटेड
501.	63246	मैसर्स चेनिल एक्सपोर्ट्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड	527.	66253	मैसर्स करिश्मा टेक प्लेन्टेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
502.	63271	मैसर्स स्मार्ट सर्विसेस सेंटर प्राईवेट लिमिटेड (सी/एन)	528.	66605	मैसर्स एस. व्ही. मनी कन्सलटेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
503.	63349	मैसर्स तिरुबाला एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	529.	66753	मैसर्स प्रल्हादका सेक्युरिटीज प्राईवेट लिमिटेड
504.	63373	मैसर्स रवि इंडस्ट्रीयल बाग मैन्यूफैक्चरिंग कं. प्राईवेट लिमिटेड	530.	67085	मैसर्स अरुण दीप एण्ड छेग डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
505.	63374	मैसर्स अनिल वॉटरप्रूफ प्रोडक्ट प्राईवेट लिमिटेड	531.	67212	मैसर्स काक्ष कॉम्प्यूटेक प्राईवेट लिमिटेड
506.	63584	मैसर्स फ्लोअरन्स पेट्रोकेमीकल्स प्राईवेट लिमिटेड	532.	67230	मैसर्स माम काशीम (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
507.	63977	मैसर्स एफकॉनस एम्पलाईज हेल्थ केअर एण्ड वेलफेयर कं. प्राईवेट लिमिटेड	533.	67253	मैसर्स परफेक्ट प्लान्टेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
508.	64149	मैसर्स जिवानी एक्झीम प्राईवेट लिमिटेड	534.	67391	मैसर्स फ्लुडोस सिस्टीम्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
509.	69239	मैसर्स कट्स इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	535.	67467	मैसर्स शान्ती प्रकाश इंपेक्स प्राईवेट लिमिटेड
510.	64302	मैसर्स दीप ज्योत फार्मा सर्वीसेस प्राईवेट लिमिटेड	536.	67622	मैसर्स पुष्पम प्रिंट एण्ड पैक प्राईवेट लिमिटेड
511.	64599	मैसर्स स्पीनर एक्झीम प्राईवेट लिमिटेड	537.	67692	मैसर्स श्री सुखकर्ता फायनान्स एण्ड लिसींग प्राईवेट लिमिटेड
512.	64870	मैसर्स एस एम पीलकलर लिमिटेड	538.	67809	मैसर्स लक्ष्मी इम्पेक्स (बॉम्बे) प्राईवेट लिमिटेड
513.	65158	मैसर्स मोमया इलेक्ट्रीकल्स एण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड	539.	68003	मैसर्स प्राईम कोरस (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
514.	65161	मैसर्स माम चोईस मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड	540.	68219	मैसर्स सनम इंटरप्राईसेस प्राईवेट लिमिटेड
515.	65175	मैसर्स मालडे इलेक्ट्रीकल्स एण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड	541.	68342	मैसर्स ओटोमीक व्हैक्यूम कं. (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
516.	65191	मैसर्स आलराईड स्टेशनरी मैन्यूफैक्चरर्स प्राईवेट लिमिटेड	542.	68417	मैसर्स मार्टिया फार्मस लिमिटेड
517.	65218	मैसर्स मनिकांत इन्वेस्टमेंट एण्ड फाइनान्स प्राईवेट लिमिटेड	543.	68545	मैसर्स लिटील ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड (सी/एन)
518.	65225	मैसर्स समीर कंट्रोल एण्ड ओटोमेशन प्राईवेट लिमिटेड	544.	68688	मैसर्स अरिता केमीकल्स प्राईवेट लिमिटेड (सी/एन)
			545.	68770	मैसर्स सुकानशा केमीकल कं. लिमिटेड
			546.	68936	मैसर्स रिचमोर ट्रेडर्स एण्ड इन्व्हेस्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
			547.	68993	मैसर्स सातारा सोया लिमिटेड
			548.	69053	मैसर्स स्नेहा बुल केरियर्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
549.	69056	मैसर्स सफारी ब्लीचर्स एण्ड डायर्स प्राईवेट लिमिटेड	578.	72391	मैसर्स ऑकलैन्ड फायनान्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
550.	69188	मैसर्स कोन्टम डायएक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड	579.	72408	मैसर्स निलकंठ यान्स प्राईवेट लिमिटेड
551.	69429	मैसर्स स्वारात फोटो मी सर्वीसेस प्राईवेट लिमिटेड	580.	72431	मैसर्स एवरलास्ट एक्सट्रूशन प्राईवेट लिमिटेड
552.	69619	मैसर्स शेरॉन केअर फारमा प्राईवेट लिमिटेड	581.	72462	मैसर्स हितकारी मोलडेड कारपेट्स प्राईवेट लिमिटेड
553.	69649	मैसर्स त्रिशुल फायनान्सीयल सर्वीसेस प्राईवेट लिमिटेड	582.	72568	मैसर्स आतुर सेक्युरिटीज प्राईवेट लिमिटेड
554.	69867	मैसर्स युगीन मार्केटिंग लिमिटेड	583.	72625	मैसर्स ताज आयोसीस होटेल्स प्राईवेट लिमिटेड
555.	69928	मैसर्स विशाल क्रेडिट सर्वीसेस प्राईवेट लिमिटेड	584.	72626	मैसर्स ताज जीसीसी एयर कैंटरस प्राईवेट लिमिटेड
556.	69936	मैसर्स डागा मेटल प्रोफाईल्स प्राईवेट लिमिटेड	585.	72637	मैसर्स रिद्धी विज्ज एण्ड ह्युज प्राईवेट लिमिटेड
557.	70257	मैसर्स पैरामाउंट पोलीपैक प्राईवेट लिमिटेड	586.	72638	मैसर्स मेहता टेक्सटाईल्स इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
558.	70289	मैसर्स राधा होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड	587.	72766	मैसर्स एफ्ल्युएन्ट ट्रीटमेन्ट कं. (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
559.	70297	मैसर्स मन्ना कल्चर प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	588.	72833	मैसर्स रीचमोअर सेक्युरिटीज प्राईवेट लिमिटेड
560.	70754	मैसर्स पारेख एक्झीम प्राईवेट लिमिटेड	589.	72931	मैसर्स हाईटेक फोनवेस्ट एण्ड लिजिंग प्राईवेट लिमिटेड
561.	70768	मैसर्स एचटीई इंफोटेक (इंडिया) लिमिटेड	590.	73006	मैसर्स विपीन गारमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
562.	70834	मैसर्स टेंपल ग्रेनाईट्स प्राईवेट लिमिटेड	591.	73015	मैसर्स रामा क्लोथिंग कं. प्राईवेट लिमिटेड
563.	71177	मैसर्स स्पेक्ट्रल ऑल्युमिनियम प्राईवेट लिमिटेड	592.	73397	मैसर्स रोकीता इन्वेस्टमेन्ट एण्ड फायनान्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
564.	71258	मैसर्स पदिमनी मारुल्डस एण्ड प्लास्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड	593.	73483	मैसर्स एन्के होम. फायनान्स प्राईवेट लिमिटेड
565.	71408	मैसर्स चैनीसीस (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड	594.	73884	मैसर्स मैक्सवेलथ स्ट्रेटेजिक सर्वीसेस प्राईवेट लिमिटेड
566.	71429	मैसर्स सुमंग सिरामिक्स प्राईवेट लिमिटेड	595.	73903	मैसर्स फ्लेमिंगो मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
567.	71515	मैसर्स बायओजेनेसीस फार्मास्युटीकल्स (बॉम्बे) प्राईवेट लिमिटेड	596.	74072	मैसर्स ड्युरा टाईल्स प्राईवेट लिमिटेड
568.	71592	मैसर्स अजय गैरेज प्राईवेट लिमिटेड	597.	74215	मैसर्स देवगिरी इकोपन इंडिया प्राईवेट लिमिटेड (सी/एन)
569.	71660	मैसर्स टेकमार्क एक्झीम इंडिया प्राईवेट लिमिटेड	598.	74227	मैसर्स फोर्ट लैन्ड फायनान्स एण्ड ट्रेड प्राईवेट लिमिटेड
570.	71727	मैसर्स रूंगटा फीनट्रेड प्राईवेट लिमिटेड	599.	74239	मैसर्स फॉरचुमेकर्स इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
571.	71878	मैसर्स एंडी कंस्ट्रक्शन्स एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड	600.	74437	मैसर्स उत्कर्ष फामर्स प्राईवेट लिमिटेड
572.	71901	मैसर्स शीयामर सी फूड्स लिमिटेड	601.	74474	मैसर्स अमिनाजर बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
573.	71976	मैसर्स रहाईनस्टोन केमीकल्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड	602.	74516	मैसर्स हेमल गारमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
574.	72037	मैसर्स रेडीयंट लिक्वीड ट्रान्सपोर्ट कं. प्राईवेट लिमिटेड	603.	74519	मैसर्स प्रविण गारमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
575.	72074	मैसर्स ग्रपनेल इन्वेस्टमेन्ट कं. प्राईवेट लिमिटेड	604.	74522	मैसर्स ग्रिट इस्टेट डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
576.	72136	मैसर्स बॉम्बीनो इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	605.	74775	मैसर्स अँड्रोमेटो इकोसिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
577.	72215	मैसर्स फलश्री फार्मिंग प्राईवेट लिमिटेड			

1	2	3
606.	74958	मैसर्स शिवशंकर पेपर प्रोडक्ट प्राईवेट लिमिटेड
607.	75130	मैसर्स सावंत प्लैटेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
608.	75147	मैसर्स ट्रेजर प्रॉपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड
609.	75148	मैसर्स एप्रिल लव प्रॉपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड
610.	75149	मैसर्स अँरो प्रॉपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड
611.	75150	मैसर्स नेरूल इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
612.	75179	मैसर्स कॅम्डेन्ट ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड
613.	75214	मैसर्स ग्रिस्ट फीनवेस्ट प्राईवेट लिमिटेड
614.	75355	मैसर्स जैनसन्स फीनवेस्ट लिमिटेड
615.	75569	मैसर्स फीटसीट प्रॉपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड
616.	75570	मैसर्स नोरा प्रॉपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड
617.	75636	मैसर्स क्रूती प्रिंट प्रॉडक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
618.	75637	मैसर्स लिपी कम्युनिकेशन प्राईवेट लिमिटेड
619.	75722	मैसर्स चंपा होटल्स एण्ड रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
620.	75794	मैसर्स करुणा इस्टेट एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
621.	75827	मैसर्स शिल्डअलॉय मेट केम प्राईवेट लिमिटेड
622.	75836	मैसर्स चारभुजा फायनान्स एण्ड इनवेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
623.	75895	मैसर्स जगदीप डाटा सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
624.	75915	मैसर्स फाईन पॉलीकन्वर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
625.	76115	मैसर्स प्राईम फ्रेट फॉरवर्ड्स प्राईवेट लिमिटेड
626.	76144	मैसर्स इनारी हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेड
627.	76234	मैसर्स ऑरके कैपिटल फायनान्स प्राईवेट लिमिटेड
628.	76285	मैसर्स चास्तर लिंसिंग प्राईवेट लिमिटेड
629.	76325	मैसर्स ऑरटोन फायनान्स लिमिटेड
630.	76422	मैसर्स हन्सोटिया कन्सल्टैन्सी प्राईवेट लिमिटेड
631.	76707	मैसर्स हॅब फायनान्सीअल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
632.	76840	मैसर्स आपका ऑयल फील्ड सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
633.	76861	मैसर्स ऑनलाईन मीरॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
634.	76954	मैसर्स विनील इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
635.	77126	मैसर्स लॅवेनियर विडियो फिल्म्स प्राईवेट लिमिटेड
636.	77269	मैसर्स रामा भवन वेस्ट मैनेजमेन्ट सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
637.	77438	मैसर्स ब्लू स्काई कन्स्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
638.	77456	मैसर्स टिवन सिटी ऑटो एजेन्सी प्राईवेट लिमिटेड
639.	77458	मैसर्स देवानी फीनवेस्ट प्राईवेट लिमिटेड
640.	77519	मैसर्स परीक्षित लिफोन प्राईवेट लिमिटेड
641.	77522	मैसर्स मेसुका मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
642.	77823	मैसर्स धवल ट्रेडिंग कं. प्राईवेट लिमिटेड
643.	77875	मैसर्स अखंड मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
644.	77995	मैसर्स कोशल नंदिनी ट्रेडिंग एण्ड इन्वेस्टमेंट कं. प्राईवेट लिमिटेड
645.	78077	मैसर्स अस्मित रियाटर्स प्राईवेट लिमिटेड
646.	78130	मैसर्स सप ऑटो इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
647.	78444	मैसर्स काणेकर कन्सल्टेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
648.	78538	मैसर्स अमी रबर सिलिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
649.	78569	मैसर्स होटेल एडीसन प्राईवेट लिमिटेड
650.	78635	मैसर्स इन्मार्क इंजीनियरिंग कन्सल्टैन्सी सर्विसेस लिमिटेड
651.	78813	मैसर्स लालानी डाटा टेक्नोलॉजिस प्राईवेट लिमिटेड
652.	79115	मैसर्स खनजन फायनान्शियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
653.	79286	मैसर्स अरुण स्टील एण्ड रीरोल्स (जालना) प्राईवेट लिमिटेड
654.	79308	मैसर्स वेव इपेक्स प्राईवेट लिमिटेड
655.	79614	मैसर्स पामवी मार्केटिंग लिमिटेड
656.	79618	मैसर्स बंजारी एग्रो फार्मस प्राईवेट लिमिटेड
657.	79671	मैसर्स खमागणी टूल्स एण्ड ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड
658.	79691	मैसर्स अनुज मिल्क स्पेशलिटीज प्राईवेट लिमिटेड
659.	79693	मैसर्स मनीपार्क फायनान्शियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
660.	79754	मैसर्स परमात्मा सेक्युरिटीज लिमिटेड
661.	79851	मैसर्स जयश्री सिद्धीविनायक फायनान्स प्राईवेट लिमिटेड
662.	79885	मैसर्स सत्यजीत इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
663.	79933	मैसर्स निगम्स प्रिन्ट्स एण्ड पैकर्स प्राईवेट लिमिटेड
664.	80028	मैसर्स संघराजका स्टॉक्स एण्ड सेक्युरिटीज प्राईवेट लिमिटेड
665.	80097	मैसर्स टेक्सएक्स कनेक्शन (इंडिया) लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
666.	80120	मैसर्स फास्टफ्लो ट्रेडिंग एण्ड इनवेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड	694.	82851	मैसर्स श्री इकोलॉजी एण्ड एन्वायरमेंट डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
667.	80134	मैसर्स असेंटे क्रियेशन्स प्राईवेट लिमिटेड	695.	83053	मैसर्स पराक्रम लीजिंग एण्ड फीनविस्ट प्राईवेट लिमिटेड
668.	80206	मैसर्स हरीसिंगानी कन्स्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड	696.	83193	मैसर्स नामागिरी अम्मन इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
669.	80226	मैसर्स वैष्णव एग्रो टेक प्राईवेट लिमिटेड	697.	83196	मैसर्स राहुल एण्ड रोहित कैपिटल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
670.	80458	मैसर्स टैचवेअर इनवेस्टमेंट कं. प्राईवेट लिमिटेड	698.	83197	मैसर्स डायनामिक्स मिल्क एण्ड फूड इंडस्ट्रीज लिमिटेड
671.	80598	मैसर्स इन्वोक्रेम सेल्स प्राईवेट लिमिटेड	699.	83304	मैसर्स ब्रीज एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
672.	80682	मैसर्स ऑगस्ट फार्माफेम प्राईवेट लिमिटेड	700.	83454	मैसर्स बॉटर वेज़ (ट्रान्सपोर्ट) इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
673.	80839	मैसर्स निशित टूल्स एण्ड ट्रैवल्स प्राईवेट लिमिटेड	701.	83487	मैसर्स विन्दीप एजेन्सीज प्राईवेट लिमिटेड
674.	80841	मैसर्स सुनयना एग्रो प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	702.	83505	मैसर्स रॉयल मराठा शिपयार्ड्स प्राईवेट लिमिटेड
675.	81063	मैसर्स सुलेखा ओवरसीज प्राईवेट लिमिटेड	703.	83552	मैसर्स कोनेर एन्टरप्राइसेस प्राईवेट लिमिटेड
676.	81069	मैसर्स राखी आर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	704.	83558	मैसर्स विनियोग इन्वेक्स प्राईवेट लिमिटेड
677.	81075	मैसर्स प्रीमैन् लीजिंग एण्ड फायनान्स प्राईवेट लिमिटेड	705.	83602	मैसर्स कोकण एको ट्रेड डेवलपमेंट लिमिटेड
678.	81367	मैसर्स शारशती प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड	706.	83625	मैसर्स शायमर फिशरीज प्राईवेट लिमिटेड
679.	81457	मैसर्स निल इंडिया स्पिनट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड	707.	83653	मैसर्स रक्ष रिऑल्टी प्राईवेट लिमिटेड
680.	81518	मैसर्स स्टकेन ट्रेडिंग एण्ड इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड	708.	83731	मैसर्स डाफीकास फूड एण्ड ड्रिंक्स प्राईवेट लिमिटेड
681.	81582	मैसर्स विसेम रेटेक एरोस्पेस प्राईवेट लिमिटेड	709.	83751	मैसर्स सिमेंट प्लांट सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
682.	81590	मैसर्स लिशा इलेक्ट्रीकल्स प्राईवेट लिमिटेड	710.	83896	मैसर्स विवा रिसोर्ट्स एण्ड होटेल्स प्राईवेट लिमिटेड
683.	81875	मैसर्स इअॅरो केन्स एण्ड कंटेनर्स प्राईवेट लिमिटेड	711.	84143	मैसर्स संगणक कम्प्यूटर सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
684.	81914	मैसर्स फ्लॅम्बोयन्ट इन्वेस्टमेंट एण्ड फायनान्स प्राईवेट लिमिटेड	712.	84307	मैसर्स श्री अनंत अल्कलीज एण्ड अलाईड केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
685.	82044	मैसर्स लिओ पेट्रोस्पेशलिटीज प्राईवेट लिमिटेड	713.	84388	मैसर्स श्रीराज मल्टीप्लायर्स प्राईवेट लिमिटेड
686.	82046	मैसर्स द्विदिशा फायनान्स प्राईवेट लिमिटेड	714.	84391	मैसर्स विर्गो गारमेंट्स एण्ड लेदर प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
687.	82180	मैसर्स धान्जी मुल्जी टेक्सटाइल्स प्राईवेट लिमिटेड	715.	84530	मैसर्स स्टैनिलाईड कम्युनिकेशन्स (इंडिया) लिमिटेड
688.	82441	मैसर्स स्पेसीयल होलोडायनामिक्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड	716.	84952	मैसर्स सायना प्रिमायसेस प्राईवेट लिमिटेड
689.	82489	मैसर्स स्काय टेक कंप्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड	717.	84967	मैसर्स अँकवा विरजिन फार्म प्राईवेट लिमिटेड
690.	82502	मैसर्स यूनायटेड ड्रेजिंग एण्ड शिपिंग सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	718.	84995	मैसर्स जम्बो एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
691.	82532	मैसर्स बॉम्बे हार्बर बॉटर ट्रांसपोर्ट कं. प्राईवेट लिमिटेड	719.	85009	मैसर्स कुंती इनवेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड (ट्रान्स. कं. फ्रॉम गोवा)
692.	82728	मैसर्स एच टी आर सॉफ्टवेअर (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड	720.	85014	मैसर्स मनिला क्रेडिट एण्ड कैपिटल प्राईवेट लिमिटेड
693.	82799	मैसर्स इन्डश एन्टरटेनमेंट कं. लिमिटेड			



1	2	3
721.	85016	मैसर्स एक्सोटीका कैपिटल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
722.	85097	मैसर्स बहुप्रिया कैपिटल एण्ड फायनान्स लिमिटेड
723.	85112	मैसर्स अँडेन एजेन्सीज प्राईवेट लिमिटेड
724.	85114	मैसर्स शोरवाला सीनटेक्चर्स प्राईवेट लिमिटेड
725.	85115	मैसर्स स्पिनडल्ल्स क्रियेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
726.	85134	मैसर्स एनेस्जी एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड
727.	85157	मैसर्स सन्शा सिक्युरिटीज लिमिटेड
728.	85314	मैसर्स प्रणल केमिकल्स एण्ड इक्विपमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
729.	85395	मैसर्स डॅक्सएअर ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
730.	85495	मैसर्स मैपल प्रिमायसेस प्राईवेट लिमिटेड
731.	85550	मैसर्स गिनी स्ट्रॉकपिन प्राईवेट लिमिटेड
732.	85578	मैसर्स मैकसेल फिनवेस्ट कनसल्टेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
733.	86037	मैसर्स मेकॉर्ड फायनान्शियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
734.	86117	मैसर्स डॅडसन स्टील प्राईवेट लिमिटेड
735.	86275	मैसर्स टी. बी. झवेरी इनवेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
736.	86287	मैसर्स निसे डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
737.	86364	मैसर्स क्रॉस ओशन एक्विम प्राईवेट लिमिटेड
738.	86395	मैसर्स मरीन रिअल्टी प्राईवेट लिमिटेड
739.	86454	मैसर्स ईडीएनएस इन्वेस्ट कं. प्राईवेट लिमिटेड
740.	86686	मैसर्स एसएनजे कॉरपोरेट सर्विसेस लिमिटेड
741.	86719	मैसर्स वक्रांगी फार्मा प्राईवेट लिमिटेड
742.	86770	मैसर्स वक्रांगी एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
743.	86797	मैसर्स कोहिनूर कौर्डस प्राईवेट लिमिटेड
744.	86866	मैसर्स वक्रांगी ऑर्गेनिक्स एण्ड केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
745.	86959	मैसर्स सोल्यूशन कम्प्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
746.	87006	मैसर्स वक्रांगी ऑरचर्ड्स प्राईवेट लिमिटेड
747.	87356	मैसर्स इथॉस इन्फार्मेशन सिस्टीम्स प्राईवेट लिमिटेड
748.	87567	मैसर्स रासबेरी रांच रिसोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
749.	87572	मैसर्स फुजी कैपिटल मार्केट प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
750.	87585	मैसर्स अँगब्रॉस कैपिटल प्राईवेट लिमिटेड
751.	87609	मैसर्स पितामह फीनलिस एण्ड इनवेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
752.	87610	मैसर्स कौडीन्या फीनलिस एण्ड इनवेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
753.	87649	मैसर्स गंदे फीनलिस एण्ड इनवेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
754.	87650	मैसर्स करवीरवासिनी फीनलिस एण्ड इनवेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
755.	87651	मैसर्स लखीनारायण फीनलिस एण्ड इनवेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
756.	87690	मैसर्स रीकॉर्ड ट्रेडिंग एण्ड मैनुफैक्चरिंग लिमिटेड
757.	87868	मैसर्स कोमल सिक्युरिटीज प्राईवेट लिमिटेड
758.	87872	मैसर्स कायरीयॉस फायनान्शियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
759.	87975	मैसर्स अँसेंट रिआल्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
760.	88024	मैसर्स इंदुजा ओवरसिज प्राईवेट लिमिटेड
761.	88058	मैसर्स हेमा कॉस्मोफार्मा लिमिटेड
762.	88117	मैसर्स कॉटनसिटी फीनवेस्ट प्राईवेट लिमिटेड
763.	88118	मैसर्स इस्सेसी हाऊसिंग प्राईवेट लिमिटेड
764.	88134	मैसर्स नमस्कार टूर कन्सल्टेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
765.	88161	मैसर्स मेरी असेट्स प्राईवेट लिमिटेड
766.	88162	मैसर्स चान्सलर होटेल्स एण्ड रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
767.	88202	मैसर्स विंटरसाईड बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
768.	88252	मैसर्स प्रौडीगी एक्सपोर्ट एण्ड फायनान्स प्राईवेट लिमिटेड
769.	88318	मैसर्स रणजीत नाईक आर्किटेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
770.	88450	मैसर्स सतगुरूज होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
771.	88451	मैसर्स कोठारी टेकनो इकोनॉमिक कंसल्टेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
772.	88478	मैसर्स एस आर प्रोसेसर्स प्राईवेट लिमिटेड
773.	88606	मैसर्स प्रियांका कैपिटल एण्ड फायनान्स प्राईवेट लिमिटेड
774.	88626	मैसर्स रॉकफोर्ट ओवरसिज प्राईवेट लिमिटेड
775.	88715	मैसर्स टी. बी. झवेरी वर्ल्डवाइड ज्वेलरीज लिमिटेड

1	2	3
776.	88744	मैसर्स ग्रोथ स्टॉकट्रेड प्राईवेट लिमिटेड
777.	88858	मैसर्स मलकापूर फायनान्स एण्ड लिजिंग कं. लिमिटेड
778.	88909	मैसर्स कलापूर्ण कन्स्ट्रक्शन्स एण्ड फायनान्स लिमिटेड
779.	89102	मैसर्स जेएन इनवेस्टमेंट्स एण्ड फायनान्सियल कंसलटेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
780.	89200	मैसर्स देवकी कंपिटल एण्ड क्रेडिट प्राईवेट लिमिटेड
781.	89337	मैसर्स भट्टाचार्य इंजीनियरिंग एण्ड मैनेजमेंट कंसलटेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
782.	89356	मैसर्स श्री वास्तु विकास प्राईवेट लिमिटेड
783.	89373	मैसर्स राजुल सिंटेक्स प्राईवेट लिमिटेड
784.	89388	मैसर्स मेजीक फीनवेस्ट सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
785.	89663	मैसर्स रविसन कन्डक्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
786.	89717	मैसर्स प्रेमी टूल्स एण्ड ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड
787.	89898	मैसर्स आकाश ओवरसिस ट्रेडिंग कं. प्राईवेट लिमिटेड
788.	89940	मैसर्स प्रोफीशियंट इंपेक्स प्राईवेट लिमिटेड
789.	89947	मैसर्स इटलीक इनवेस्टमेंट एण्ड फायनान्स प्राईवेट लिमिटेड
790.	90251	मैसर्स वेंडसन फायनान्सियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
791.	90294	मैसर्स वाखरकर कन्स्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
792.	90379	मैसर्स एन्के फायनान्स प्राईवेट लिमिटेड
793.	90390	मैसर्स आशा होम्स प्राईवेट लिमिटेड
794.	90493	मैसर्स एन्नार इन्फाईड लिमिटेड
795.	90593	मैसर्स निक्की शेअर रजिस्ट्री प्राईवेट लिमिटेड
796.	90610	मैसर्स सीबीड टेक्नोलोजिज प्राईवेट लिमिटेड
797.	90706	मैसर्स तुलजाभवानी स्टील इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
798.	90767	मैसर्स आंचल नेटवर्क प्राईवेट लिमिटेड
799.	90957	मैसर्स ऑक्टेवस कैपिटल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
800.	91342	मैसर्स मंगल एक्मे बिल्डकॉन (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
801.	91698	मैसर्स साई इलेक्ट्रो ऑटोमेशन प्राईवेट लिमिटेड
802.	91769	मैसर्स प्रवेश हाऊसिंग फायनान्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
803.	91774	मैसर्स शानदार इनवेस्टट्रेड प्राईवेट लिमिटेड
804.	91848	मैसर्स शुभमंगल मर्कन्याईल प्राईवेट लिमिटेड
805.	91853	मैसर्स रोहर बायो केमी प्राईवेट लिमिटेड
806.	92033	मैसर्स साईनाथ रिजलट्स एण्ड कन्स्ट्रक्शंस प्राईवेट लिमिटेड
807.	92218	मैसर्स फरहान ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड
808.	92379	मैसर्स यश फायनान्सियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
809.	92415	मैसर्स इन-डिजाइन इंफोटेक प्राईवेट लिमिटेड
810.	92416	मैसर्स इन-डिजाइन कम्युनिकेशन प्राईवेट लिमिटेड
811.	92456	मैसर्स प्राफीशियंट प्रॉपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड
812.	92529	मैसर्स नानावटी फायनान्स एण्ड लिजिंग प्राईवेट लिमिटेड
813.	92561	मैसर्स जयनम शीप ब्रकींग प्राईवेट लिमिटेड
814.	92601	मैसर्स शोगुन क्रेडिट कैपिटल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
815.	92661	मैसर्स ऑरेंज सिटी एग्रो-टेक लिमिटेड
816.	92843	मैसर्स वीएसएम एरोस्पेस प्राईवेट लिमिटेड
817.	92846	मैसर्स आईबनी ग्रीटींग्स प्राईवेट लिमिटेड
818.	92855	मैसर्स कॉन्वेक्स कैपिटल प्राईवेट लिमिटेड
819.	92878	मैसर्स कॉल्डीन एअरकॉन लिमिटेड
820.	92964	मैसर्स पोचित्रा फायनान्स प्राईवेट लिमिटेड
821.	92965	मैसर्स निची इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड
822.	93030	मैसर्स कोमाइड फीनट्रेड एण्ड इनवेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड
823.	93068	मैसर्स एन्के हेल्थ एण्ड इक्विपमेंट प्राईवेट लिमिटेड
824.	93135	मैसर्स दक्षिणा ट्रेडिंग कं. प्राईवेट लिमिटेड
825.	93225	मैसर्स स्पार्टन ऑटोमेशन सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
826.	93312	मैसर्स अरमान बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
827.	93313	मैसर्स आरजु इनवेस्टमेंट फायनान्स प्राईवेट लिमिटेड
828.	93515	मैसर्स क्रॉफर्ड फायनान्सियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
829.	93539	मैसर्स गुडवर्थ इंपेक्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
830.	93680	मैसर्स विचित्र रचना प्राईवेट लिमिटेड
831.	93791	मैसर्स ज्युपीटर ऑटोमोटीव्ह इक्विपमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
832.	93882	मैसर्स आर्टिक्युलेट फिस्कल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
833.	94021	मैसर्स रूमी सेक्युरिटीज प्राईवेट लिमिटेड
834.	94152	मैसर्स शोअरवाला कैपिटल मार्केट्स प्राईवेट लिमिटेड
835.	94592	मैसर्स युनियन स्टील (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
836.	94593	मैसर्स जेडराक्स इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
837.	94601	मैसर्स हंब फार्मास्युटीकल लिमिटेड
838.	94677	मैसर्स जीवन एप्रोटेक लिमिटेड
839.	94699	मैसर्स ज्युपीटर इको फॉरेस्ट्री (इंटरनेशनल) प्राईवेट लिमिटेड
840.	94725	मैसर्स टेक्सास इन रिसॉर्ट्स एण्ड होटेल्स प्राईवेट लिमिटेड
841.	94733	मैसर्स डब मर्केंटाइल लिमिटेड
842.	95013	मैसर्स एसटीएप हेल्थ केअर प्राईवेट लिमिटेड
843.	95125	मैसर्स भांडुप लैण्ड डेवलपमेंट प्राईवेट लिमिटेड
844.	95295	मैसर्स ई एडवाईस इनवेस्टमेंट एण्ड सर्विस इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
845.	95313	मैसर्स देवकी पैकेजिंग एण्ड लैमिनेशन प्राईवेट लिमिटेड
846.	95572	मैसर्स वर्ल्ड वॉटर फायनान्स लिमिटेड
847.	95675	मैसर्स किर्ती कम्प्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
848.	95775	मैसर्स इंटेक रिओल्टर्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
849.	95856	मैसर्स सी. बी. कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
850.	95865	मैसर्स पुनाग्री फीनटेक सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
851.	95996	मैसर्स मराठवाडा फोटो फिल्म प्राईवेट लिमिटेड
852.	96512	मैसर्स मिलानो सिरैमिक्स प्राईवेट लिमिटेड
853.	96254	मैसर्स मर्लिन कम्प्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
854.	96255	मैसर्स मांडलेछा इनवेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
855.	96338	मैसर्स हेड्स इंडस्ट्रीयल प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
856.	96576	मैसर्स निसार शेअर्स एण्ड सेक्युरिटीज लिमिटेड
857.	96631	मैसर्स महा गैसेस प्राईवेट लिमिटेड
858.	96664	मैसर्स फीस्कल स्टॉक ब्रोकींग प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
859.	97067	मैसर्स रूमी बिब्रोजेस प्राईवेट लिमिटेड
860.	97081	मैसर्स आर्ट इंजीनियरिंग मैनेजमेंट सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
861.	97193	मैसर्स रेलीफ इंफ्रास्ट्रक्चर एण्ड हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेड
862.	97453	मैसर्स अचिंतित बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
863.	97516	मैसर्स अल्पाइन गिफ्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
864.	97525	मैसर्स निसो फिड्स प्राईवेट लिमिटेड
865.	97536	मैसर्स समृद्धी फायनान्शियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
866.	97901	मैसर्स बारेल्स एण्ड क्लोजर्स (इंडिया) लिमिटेड
867.	98238	मैसर्स अबेरडीन लिजिंग एण्ड फोनवेस्ट प्राईवेट लिमिटेड
868.	98306	मैसर्स पुष्कराज होलिडिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
869.	98519	मैसर्स कार्लसन फिल्डेशन (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड (सी/एन)
870.	98628	मैसर्स इसिता एकजीम इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
871.	98664	मैसर्स दाम्पू फोन ट्रेड प्राईवेट लिमिटेड
872.	98701	मैसर्स ओयासिस कम्प्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
873.	98856	मैसर्स गणराज पेपर मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
874.	99104	मैसर्स डेरोवेटीव फायनान्स लिमिटेड
875.	99151	मैसर्स शनिल प्रेस लिमिटेड
876.	99390	मैसर्स आदी कन्स्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
877.	99446	मैसर्स एम.नेट इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
878.	99474	मैसर्स जिज्ञासा एग्रो लिमिटेड
879.	99494	मैसर्स मेलोडी सेक्युरिटीज प्राईवेट लिमिटेड
880.	99550	मैसर्स विजेश लिजिंग एण्ड फायनान्शियल सर्विसेस लिमिटेड
881.	99590	मैसर्स डाय सोरसिंग सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
882.	99676	मैसर्स वी.युज अकेडमी प्राईवेट लिमिटेड
883.	99781	मैसर्स पिनकल ट्रेवल्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
884.	99825	मैसर्स मेघदूत रियल इस्टेट डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
885.	100178	मैसर्स लेजरकॉम्प इंफोटेक प्राईवेट लिमिटेड
886.	100287	मैसर्स सब्लाईम शेअर सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
887.	100674	मैसर्स भंगारीया इनफीन एण्ड ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड
888.	100724	मैसर्स डायनामिक्स एलएचजी कं. प्राईवेट लिमिटेड
889.	100823	मैसर्स लैक्टो ऑर्गेनिक केमिकल डीलर्स प्राईवेट लिमिटेड
890.	100829	मैसर्स बंटस केमिकल डीलर्स प्राईवेट लिमिटेड
891.	100991	मैसर्स युसुफ प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
892.	100994	मैसर्स मुनिल फीनवेस्ट प्राईवेट लिमिटेड
893.	101059	मैसर्स दर्शन एन्टरप्राइजेस प्राईवेट लिमिटेड
894.	101098	मैसर्स के. देवरा प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स प्राईवेट लिमिटेड
895.	101161	मैसर्स रेड्डी मार्केटिंग (मुंबई) प्राईवेट लिमिटेड
896.	101453	मैसर्स निफ कम्युनिकेशन्स लिमिटेड
897.	101663	मैसर्स वी.जी.एन. फायनान्स प्राईवेट लिमिटेड
898.	101859	मैसर्स यतिन फीनवेस्ट प्राईवेट लिमिटेड
899.	101993	मैसर्स राजरशमी इनवेस्टमेंट एण्ड फायनान्स प्राईवेट लिमिटेड
900.	102195	मैसर्स वेलगोन एग्री प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
901.	102302	मैसर्स इटेक इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
902.	102421	मैसर्स विनशीर प्रिमीसेस प्राईवेट लिमिटेड
903.	102452	मैसर्स गुरुराज लीज फायनान्स प्राईवेट लिमिटेड
904.	102508	मैसर्स पॉजिटिव कम्युनिकेशन प्राईवेट लिमिटेड
905.	102528	मैसर्स खजराना गणेश फीनवेस्ट प्राईवेट लिमिटेड
906.	102567	मैसर्स हितकारी सेल्स एण्ड सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
907.	102619	मैसर्स धनंजय एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
908.	102664	मैसर्स वेंटेज सॉफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड
909.	102894	मैसर्स पैकेज स्टील्स एण्ड इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड
910.	102981	मैसर्स ब्लूस्टार एअरवेज (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
911.	103002	मैसर्स कागुल कैंटलॉग प्राईवेट लिमिटेड
912.	103275	मैसर्स झरना फीनस्टॉक प्राईवेट लिमिटेड
913.	103623	मैसर्स रीजेन्सी टूल्स एण्ड कंपोनेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
914.	103661	मैसर्स नाईनफोल्ड रिऑल्टर्स एण्ड इनवेस्टमेंट्स ग्रुप लिमिटेड

1	2	3
915.	103816	मैसर्स ज्योत्स्ना फायनान्स एण्ड इनवेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड
916.	103873	मैसर्स व्हीझार्ड फीनस्टॉक प्राईवेट लिमिटेड
917.	103948	मैसर्स सिमरीन ट्रेडिंग कं. प्राईवेट लिमिटेड
918.	104051	मैसर्स मेघाहर्दज कम्युनिकेशन लिमिटेड
919.	104075	मैसर्स एबल केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
920.	104217	मैसर्स वायु फीनवेस्ट प्राईवेट लिमिटेड
921.	104260	मैसर्स निलायम ऑपरेल प्राईवेट लिमिटेड
922.	104280	मैसर्स लार्स एन्टरप्राइजेस प्राईवेट लिमिटेड
923.	104289	मैसर्स नॉर्विक्सोन एडवर्टाइजिंग प्राईवेट लिमिटेड
924.	104302	मैसर्स मराठवाडा एजेन्सीज एण्ड सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
925.	104545	मैसर्स मिक्कीस कॉन्ट्रेक्टर्स एण्ड प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड
926.	104560	मैसर्स रूमी वेंडिंग मशीन्स प्राईवेट लिमिटेड
927.	104584	मैसर्स जयंत टेक्नो कन्सल्टेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
928.	104658	मैसर्स मेटल ट्यूब एल एण्ड रूलिंग मिल्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
929.	104787	मैसर्स नेलकेन फाईन केमी प्राईवेट लिमिटेड
930.	104821	मैसर्स चंपानगरी फीनवेस्ट प्राईवेट लिमिटेड
931.	104844	मैसर्स पार्टनर्स अलायन्स कम्युनिकेशन (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
932.	104885	मैसर्स स्पेक लिजिंग एण्ड फायनान्स प्राईवेट लिमिटेड
933.	105066	मैसर्स नागपुर पिग फार्म प्राईवेट लिमिटेड
934.	105179	मैसर्स राजपूत लक्जरीज प्राईवेट लिमिटेड
935.	105378	मैसर्स क्षितिज ट्रेड लिंक्स प्राईवेट लिमिटेड
936.	105623	मैसर्स सोनी एन्ट्राम्युज लिमिटेड
937.	105816	मैसर्स मुप्स प्रिमायसेस प्राईवेट लिमिटेड
938.	106322	मैसर्स विनिल कैपिटल एण्ड इनवेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड
939.	106467	मैसर्स सन्दीव फैशन्स एण्ड क्रिएशन्स प्राईवेट लिमिटेड
940.	106634	मैसर्स श्री सिद्धी वेंकटेश फूड्स लिमिटेड
941.	106654	मैसर्स सीमा इन्फोरमेटिक्स एण्ड सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
942.	106919	मैसर्स होली प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
943.	106966	मैसर्स शाश्वत मशीनरीज प्राईवेट लिमिटेड
944.	107084	मैसर्स सनबीम रिऑल्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
945.	107372	मैसर्स ट्रायटेक इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड
946.	107374	मैसर्स एस.वी.एन. ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड
947.	107504	मैसर्स पेंस कैपिटल्स प्राईवेट लिमिटेड
948.	107514	मैसर्स जीगर थर्मोवेअर प्राईवेट लिमिटेड
949.	107549	मैसर्स श्री कोहिनूर फ्लेवर टी प्राईवेट लिमिटेड
950.	107558	मैसर्स शायलॉक एजेन्सीज प्राईवेट लिमिटेड
951.	107675	मैसर्स कम्फर्ट कन्स्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
952.	107742	मैसर्स काकाजीवाला इंदोरियर्स प्राईवेट लिमिटेड
953.	107853	मैसर्स अर्चित एन्टरप्राइजेस प्राईवेट लिमिटेड
954.	107917	मैसर्स प्रॉम्प्ट डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
955.	107938	मैसर्स ऑयस्टर फायनान्शियल सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
956.	107950	मैसर्स फोर पाल प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
957.	108027	मैसर्स जीयल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
958.	108061	मैसर्स टीमसिक्स चारमाईल्स प्रेसिशन मशीनरी एण्ड सिस
959.	108076	मैसर्स शेरनी एन्टरप्राइजेस प्राईवेट लिमिटेड
960.	108171	मैसर्स केजेएमजी कन्सल्टेन्सी प्राईवेट लिमिटेड
961.	108200	मैसर्स वेंटेज इन्फॉर्मेशन सिस्टीम्स प्राईवेट लिमिटेड
962.	108348	मैसर्स सावरन कन्स्ट्रक्शन्स एण्ड एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
963.	108599	मैसर्स रेडस्ट्रीक फीनट्रेड एण्ड इनवेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड
964.	108705	मैसर्स उत्तोपियन फायनान्स सोल्युशन प्राईवेट लिमिटेड
965.	108715	मैसर्स कीर सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
966.	108829	मैसर्स ट्रन्झाक्ट सेक्युरिटीज प्राईवेट लिमिटेड
967.	108837	मैसर्स मेरीका म्युजिक प्राईवेट लिमिटेड
968.	108862	मैसर्स पुसाको एकजीम प्राईवेट लिमिटेड
969.	108914	मैसर्स कॉन्को पैकेजिंग प्राईवेट लिमिटेड
970.	109149	मैसर्स फलवृद्धि केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
971.	109153	मैसर्स रामेश्वर कॉन्सट्रुवेल्स प्राईवेट लिमिटेड
972.	109174	मैसर्स रावत जेम्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
973.	109375	मैसर्स नैक टेक्नोक्रेट्स प्राईवेट लिमिटेड
974.	109784	मैसर्स एस. आर. स्टुडियो प्राईवेट लिमिटेड
975.	109889	मैसर्स निक्को आयरन एण्ड स्टील (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
976.	109949	मैसर्स प्रचल एक्सपोर्ट्स एण्ड सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
977.	110014	मैसर्स भगवानदास गोपीचरण मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
978.	110160	मैसर्स सनस्वेप्ट प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड
979.	110161	मैसर्स एक्सीलेन्ट रियलटर्स प्राईवेट लिमिटेड
980.	110162	मैसर्स ब्लीस रियलटर्स प्राईवेट लिमिटेड
981.	110253	मैसर्स भास्कर ग्रेनाईट प्राईवेट लिमिटेड
982.	110366	मैसर्स एसएनके फायनान्स प्राईवेट लिमिटेड
983.	110655	मैसर्स लॉटायस कंसल्टेन्सी प्राईवेट लिमिटेड
984.	110720	मैसर्स सी निम्फ इन्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
985.	110875	मैसर्स श्री तिरुपति टेक्नोलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड
986.	110967	मैसर्स दृष्टी मैनेजमेंट कन्सल्टेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
987.	111002	मैसर्स हरीकिरण केमिकल प्राईवेट लिमिटेड
988.	111174	मैसर्स महेश्वर इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट प्राईवेट लिमिटेड
989.	111179	मैसर्स फर्स्ट लाईट इन्वेस्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
990.	111313	मैसर्स किंजल लेदर प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
991.	111337	मैसर्स ब्लूमॉन्डे एग्रो फॉरेस्ट्री लिमिटेड
992.	111522	मैसर्स आशि इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड
993.	111596	मैसर्स ट्रायसन कमर्शियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड (सी/एन)
994.	111659	मैसर्स आदित्यराज कन्सल्टेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
995.	112926	मैसर्स रेडियंट ट्रेक ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड
996.	112471	मैसर्स अनंतरंग होटल्स प्राईवेट लिमिटेड
997.	112476	मैसर्स बिल्ब पत्र हाऊसिंग प्राईवेट लिमिटेड
998.	112477	मैसर्स एकादश घर निर्मिती प्राईवेट लिमिटेड
999.	112735	मैसर्स करमरकर प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
1000.	112779	मैसर्स गेट एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
1001.	112794	मैसर्स विराट रबर प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
1002.	112895	मैसर्स द्रविड ब्राऊन इंजीनियरिंग (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
1003.	112912	मैसर्स सालवी केमीकल्स प्राईवेट लिमिटेड
1004.	113057	मैसर्स उचिता पोलीप्लास्ट प्राईवेट लिमिटेड
1005.	113062	मैसर्स पांयट फेब्रीकेट प्राईवेट लिमिटेड
1006.	113184	मैसर्स डेल्टा नेटकॉम सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
1007.	113191	मैसर्स नोबेल हाऊस एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
1008.	113202	मैसर्स जे.आर. पी. ट्रेडिंग कं. प्राईवेट लिमिटेड
1009.	113263	मैसर्स स्पेशियस फर्म्स एण्ड रिसोर्ट्स डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
1010.	113268	मैसर्स अस्त फायनान्शियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
1011.	113699	मैसर्स सहयोग युरोलाजी इन्स्टीट्यूट एण्ड रिसर्च सेंटर प्राईवेट लिमिटेड
1012.	113717	मैसर्स क्यूस्टोर्ट टी फाईनान्स प्राईवेट लिमिटेड
1013.	113875	मैसर्स देवदूत एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
1014.	113884	मैसर्स इमेलडी प्रोजेक्ट डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
1015.	114224	मैसर्स पायोनिअर रिबन्स प्राईवेट लिमिटेड
1016.	114295	मैसर्स आईमस लुब्रीकेंट्स एण्ड पैकिंग प्राईवेट लिमिटेड
1017.	114388	मैसर्स होमटेक्स एक्सपोर्ट्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
1018.	114522	मैसर्स एलीजीन सॉफ्टवेअर प्राईवेट लिमिटेड
1019.	114691	मैसर्स प्रीस्टीन मेनेजमेंट कंसलटेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
1020.	114755	मैसर्स आयसीसी डेरिवेटिव्स प्राईवेट लिमिटेड
1021.	114789	मैसर्स मनोहर फोटोऑफसेट प्राईवेट लिमिटेड
1022.	114872	मैसर्स मित्तल रिअलसोर्स एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
1023.	114926	मैसर्स प्रिंसीजन इक्विपमेंट्स एण्ड इंजीनियरिंग वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड
1024.	114954	मैसर्स लेराक्वीव इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
1025.	115011	मैसर्स कमल वॉटर प्यूरीफायर्स प्राईवेट लिमिटेड
1026.	115029	मैसर्स सफासेंट फायर प्रोटेक्शन एण्ड सेफ्टी इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
1027.	115119	मैसर्स लक्स कंसलटेंसी प्राईवेट लिमिटेड
1028.	115253	मैसर्स श्री निवास स्पेशलिटी केमीकल्स प्राईवेट लिमिटेड
1029.	115268	मैसर्स भुवल्का इंपेक्स प्राईवेट लिमिटेड
1030.	115331	मैसर्स हरेश फ्यूल्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
1031.	115383	मैसर्स मेटकेम इंपेक्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
1032.	115511	मैसर्स कोनार्क मरिने शिप ब्रेकर्स प्राईवेट लिमिटेड
1033.	115590	मैसर्स विजय मरिने शिप ब्रेकिंग प्राईवेट लिमिटेड
1034.	115638	मैसर्स अम्पमस इंटरनेट टेक्नोलॉजी प्राईवेट लिमिटेड
1035.	115911	मैसर्स मेट्रोफुट वेअर प्राईवेट लिमिटेड
1036.	115956	मैसर्स झेफर सॉफ्टवेअर (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
1037.	116231	मैसर्स यूनाइटेड पारसल सर्विसेस (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
1038.	116351	मैसर्स सीबाट फाउंडेशन क्लासेस प्राईवेट लिमिटेड
1039.	116426	मैसर्स नितार्ई केम इंपेक्स प्राईवेट लिमिटेड
1040.	116626	मैसर्स महिंद्र वेनुई मेनेजमेंट प्राईवेट लिमिटेड
1041.	116680	मैसर्स मैराथान कम्प्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
1042.	116683	मैसर्स अरिहंत अग्री-प्रो प्राईवेट लिमिटेड
1043.	116766	मैसर्स संचि इंटरप्राइजेस प्राईवेट लिमिटेड
1044.	116794	मैसर्स अवरो एशिया इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड
1045.	116842	मैसर्स श्रीम ओपशन्स एण्ड होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
1046.	116953	मैसर्स मराक्वरी एनर्जी एण्ड फ्यूल प्राईवेट लिमिटेड
1047.	117058	मैसर्स नमस्कार कम्प्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
1048.	117091	मैसर्स ओमशिवम प्लास्टिक प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
1049.	117185	मैसर्स विक्टर एडवाइजरी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
1050.	117338	मैसर्स हंस कंसलटेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
1051.	117373	मैसर्स कॅडदॉक ऑटोमेशन सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
1052.	117389	मैसर्स अतद इंटरनेट प्राईवेट लिमिटेड
1053.	117510	मैसर्स इनफोक्युस्ट कंसलटेंसी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
1054.	117938	मैसर्स नायक फार्मास्यूटीकल्स प्राईवेट लिमिटेड
1055.	117980	मैसर्स असेस मायक्रोसोल्युशन प्राईवेट लिमिटेड
1056.	118032	मैसर्स गणेश टाईल्स प्राईवेट लिमिटेड
1057.	118115	मैसर्स नायरसन्स कोलाफिल्ड्स लिमिटेड
1058.	118135	मैसर्स मायसेल्फ इन्ट्रो लिमिटेड

1	2	3
1059.	118198	मैसर्स पापीलोन ट्रेवलस एण्ड एक्जीम प्राईवेट लिमिटेड
1060.	118619	मैसर्स नसेन्ट सॉफ्टयुशन्स प्राईवेट लिमिटेड
1061.	118148	मैसर्स इमेसबी एग्रो प्राईवेट लिमिटेड
1062.	118675	मैसर्स डोन टोन डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
1063.	118722	मैसर्स एम. व्ही. ऑटो पार्स प्राईवेट लिमिटेड
1064.	118750	मैसर्स रेनार्डसेन्स विजनेस एण्ड सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
1065.	118785	मैसर्स सान्थवुड इंडिया लिमिटेड
1066.	118813	मैसर्स डायनामीक लेन्स प्राईवेट लिमिटेड
1067.	118860	मैसर्स कौस्तुभ सॉफ्टवेयर एण्ड सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
1068.	118904	मैसर्स सोनावाला सेक्युरिटीज प्राईवेट लिमिटेड
1069.	118960	मैसर्स एकदाऊसन एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
1070.	118984	मैसर्स सॉन्टीफीक कम्युनिकेशन जदनलस (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
1071.	119113	मैसर्स दिशकृति इंटरटेनमेंट प्राईवेट लिमिटेड (सी/एन)
1072.	119197	मैसर्स सोर्ट्स सॉफ्टवेयर एण्ड मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
1073.	119218	मैसर्स विनोद ट्रेवलस प्राईवेट लिमिटेड
1074.	119242	मैसर्स वर्ड कम्युनिकेशन सेंटर (मुंबई) प्राईवेट लिमिटेड
1075.	119287	मैसर्स सॉफकॉम टेक्नोलॉजिज प्राईवेट लिमिटेड
1076.	119393	मैसर्स सिद्धेश इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड
1077.	119538	मैसर्स केम एण्ड फिटनेस प्राईवेट लिमिटेड
1078.	119541	मैसर्स मोक्ष कम्युनिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
1079.	119650	मैसर्स केजीएन रिअल ट्रेडिंग कं. प्राईवेट लिमिटेड
1080.	119652	मैसर्स विप्रा प्रिंटर्स प्राईवेट लिमिटेड
1081.	119717	मैसर्स कमलेश मेटल एण्ड ट्रेडिंग कं. प्राईवेट लिमिटेड
1082.	119724	मैसर्स क्लासीक हुक अप सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
1083.	119799	मैसर्स सुपर गेन इंपोर्ट एक्सपोर्ट (बॉम्बे) प्राईवेट लिमिटेड
1084.	119971	मैसर्स ग्रेस क्लोथिंग प्राईवेट लिमिटेड
1085.	119993	मैसर्स एम्पांभट कम्युटर्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
1086.	120007	मैसर्स बोध शिल्प मूवीज प्राईवेट लिमिटेड
1087.	120018	मैसर्स बोइंग कंसेट्स प्राईवेट लिमिटेड
1088.	120099	मैसर्स लोनारी ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड
1089.	120101	मैसर्स लोनारी वार्डन्स प्राईवेट लिमिटेड
1090.	120103	मैसर्स लोनारी एजेन्सीज प्राईवेट लिमिटेड
1091.	120150	मैसर्स व्हीलर फार्माकैम प्राईवेट लिमिटेड
1092.	120151	मैसर्स एक्जोटीक स्पेसिआ एग्रो प्राईवेट लिमिटेड
1093.	120274	मैसर्स एरोमार्क फार्माकैम इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
1094.	120340	मैसर्स रामसरनदास एण्ड सन्स ट्रेवलस एन्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
1095.	120454	मैसर्स अलाईड पावर डेवलपमेंट कं. प्राईवेट लिमिटेड
1096.	120502	मैसर्स जाम सॉफ्टवेयर सोल्यूशन लिमिटेड
1097.	120513	मैसर्स ट्रोलॉजिक सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
1098.	120747	मैसर्स ग्रैन्ड मेटापैक (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
1099.	120914	मैसर्स कसे लोजिस्टिक्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
1100.	121105	मैसर्स शिवम पर्सनल केअर प्रोडक्ट्स लिमिटेड
1101.	121136	मैसर्स जगदंबा गुऊर्ड फोर्स प्राईवेट लिमिटेड
1102.	121456	मैसर्स पिनोचिओ अम्पूजमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
1103.	121618	मैसर्स डिजीटल यात्रा टेक्नोलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड
1104.	121630	मैसर्स दुर्गा खोटे प्रोडक्शन प्राईवेट लिमिटेड
1105.	121680	मैसर्स मैकलेलन (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
1106.	121889	मैसर्स हेल्थकेअर रेमिडीज इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
1107.	122060	मैसर्स ई मेड (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
1108.	122145	मैसर्स जे. जे. लिक्वायर्स प्राईवेट लिमिटेड
1109.	122259	मैसर्स गुडरिच टेक्नोलॉजिज प्राईवेट लिमिटेड
1110.	122548	मैसर्स मुसकान सेल्स एण्ड मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
1111.	122562	मैसर्स रूतू सामवेद नर्सरी प्राईवेट लिमिटेड
1112.	122576	मैसर्स सेलवी टूर्स एण्ड ट्रेवलस प्राईवेट लिमिटेड
1113.	122592	मैसर्स मिलेश ऑप्टीकल्स प्राईवेट लिमिटेड
1114.	122656	मैसर्स आयडीअल मरकेंटाईल प्राईवेट लिमिटेड
1115.	122669	मैसर्स नायक इनफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कं. लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
1116.	122681	मैसर्स जस रेस्टोरेट एण्ड सेल्स प्राईवेट लिमिटेड	1144.	125051	मैसर्स इंटरनेट एन्ड डायकोम टेक्नोलॉजिज (मुंबई) प्राईवेट लिमिटेड
1117.	122761	मैसर्स सिप्रान ऑफिस ऑटोमेशन प्राईवेट लिमिटेड	1145.	125066	मैसर्स अपेक्स होम बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
1118.	122769	मैसर्स अमेय ट्रेडिंग कं. प्राईवेट लिमिटेड	1146.	125101	मैसर्स सायबर मेडिया इंटरएक्टिव लिमिटेड
1119.	122845	मैसर्स टिप टेच प्राईवेट लिमिटेड	1147.	125217	मैसर्स करंट माऊस कॉम इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
1120.	122861	मैसर्स आयशा नेट प्राईवेट लिमिटेड	1148.	125291	मैसर्स अवियो टेक्नोलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड
1121.	122957	मैसर्स इजीनेट ग्लोबल प्राईवेट लिमिटेड	1149.	125294	मैसर्स डेस्टीनो ई. वेनचर्स प्राईवेट लिमिटेड
1122.	122973	मैसर्स लिचा फील्ड प्राईवेट लिमिटेड	1150.	125296	मैसर्स विडसॉफ्ट इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
1123.	122988	मैसर्स युनायटेड ट्रांसक्रिप्शन (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड	1151.	125453	मैसर्स जेमिनी मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
1124.	123038	मैसर्स एक्सप्लीसीट हाऊसिंग एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चरल प्राईवेट लिमिटेड	1152.	125504	मैसर्स सुर्यचक्र इनफोटेक प्राईवेट लिमिटेड
1125.	123396	मैसर्स रिलाईबल स्टेशनर्स प्राईवेट लिमिटेड	1153.	125646	मैसर्स केव्हीपी वेंचर अँडव्हायज़र्स प्राईवेट लिमिटेड
1126.	123394	मैसर्स गोल्ड अरोम प्राईवेट लिमिटेड	1154.	125680	मैसर्स प्रोपरेक ऑनलाइन (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
1127.	123477	मैसर्स लक्ष्मी रतन ट्रेडिंग कं. प्राईवेट लिमिटेड	1155.	125782	मैसर्स सर एलपीजी प्राईवेट लिमिटेड
1128.	123516	मैसर्स इंदूबाला सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	1156.	125783	मैसर्स इ परिवहन इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
1129.	123561	मैसर्स सायबर लाजिस्टिक्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड	1157.	125784	मैसर्स ई किशी इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
1130.	123618	मैसर्स इन क्युबीज इंडिया प्राईवेट लिमिटेड	1158.	125785	मैसर्स ईशोबीज़ इंडिया कॉम प्राईवेट लिमिटेड
1131.	123634	मैसर्स बैक्टा हाऊसिंग एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चरल प्राईवेट लिमिटेड	1159.	125807	मैसर्स दिलसत सेक्युरिटीज प्राईवेट लिमिटेड
1132.	123888	मैसर्स नाथे कंसलटेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	1160.	125814	मैसर्स निदीरा स्टॉक्स प्राईवेट लिमिटेड
1133.	124174	मैसर्स विस्मा एक्जीम प्राईवेट लिमिटेड	1161.	125819	मैसर्स लोणारी इनफोटेक प्राईवेट लिमिटेड
1134.	124243	मैसर्स सेंचुरिअन ट्रेडिंग कं. प्राईवेट लिमिटेड	1162.	125866	मैसर्स हीरो सेक्युरिटीज एन्ड स्टॉक ब्रोकिंग प्राईवेट लिमिटेड
1135.	124299	मैसर्स बुलबुल ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड	1163.	125929	मैसर्स इन्स्टीट्यूट ऑफ हाय टेक्नोलॉजीज (इंडिया) लिमिटेड
1136.	124586	मैसर्स ब्रीसोना होटल्स एन्ड रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	1164.	125957	मैसर्स बिटसॉफ्ट इतफो लिमिटेड
1137.	124693	मैसर्स इंडिया कनेक्शन कॉम (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड	1165.	126007	मैसर्स इसरी इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
1138.	124698	मैसर्स इडीमेडिया सोल्यूशन्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड	1166.	126102	मैसर्स ई पर्यावरण इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
1139.	124702	मैसर्स सिध्दनाथ हारवाम फोर्मुलेशन प्राईवेट लिमिटेड	1167.	126137	मैसर्स ई उर्जा इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
1140.	124733	मैसर्स लेण्याद्री रिअल इस्टेट प्राईवेट लिमिटेड	1168.	126164	मैसर्स माऊली शुगर मिल्स लिमिटेड
1141.	124761	मैसर्स निमीश इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड	1169.	126198	मैसर्स फ्युचरिस्टीक सिस्टम टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
1142.	125007	मैसर्स क्विक इनफोटेक प्राईवेट लिमिटेड	1170.	126293	मैसर्स इंटरस्कप बज़ार (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
1143.	125010	मैसर्स रिषी इनव्हेक्स प्राईवेट लिमिटेड	1171.	126319	मैसर्स ई ट्रांसपोर्ट नगर इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
			1172.	126320	मैसर्स ई आयुर्वेदिक इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
			1173.	12632.	मैसर्स ई शिपब्रोकिंग इंडिया प्राईवेट लिमिटेड



1	2	3
1174.	126322	मैसर्स ई लग्न इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
1175.	126339	मैसर्स फॉनसी इंडीरीयर्स प्राइवेट लिमिटेड
1176.	126393	मैसर्स राघ इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1177.	126405	मैसर्स मानेक पिलोट एयरसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
1178.	126523	मैसर्स आर नेट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
1179.	126535	मैसर्स आय ग्रामीण विकास इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
1180.	126544	मैसर्स सर टेलको प्राइवेट लिमिटेड
1181.	126587	मैसर्स निर्माण फुड्स प्राइवेट लिमिटेड
1182.	126671	मैसर्स एडिसीसी इंडिया कॉम लिमिटेड
1183.	126675	मैसर्स एडिसीसी वेब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड
1184.	126734	मैसर्स अडिवा नेट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
1185.	126804	मैसर्स साई ऑन लाईन प्राइवेट लिमिटेड
1186.	126843	मैसर्स सायुस फर्म प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1187.	126989	मैसर्स इनवेस्टमेंट मैनेजर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
1188.	127017	मैसर्स हरिकीरन इनफोटेक लिमिटेड
1189.	127036	मैसर्स एम. बी. जेम्स प्राइवेट लिमिटेड
1190.	127182	मैसर्स एकोर्न ऑडिओविजुअल्स प्राइवेट लिमिटेड
1191.	127325	मैसर्स श्री नारायण इक्वीटीज प्राइवेट लिमिटेड
1192.	127564	मैसर्स एक्सेल नेट प्रीन्यअर्स प्राइवेट लिमिटेड
1193.	127701	मैसर्स रेडिअंट रोड ट्रांसपोर्ट कं. प्राइवेट लिमिटेड
1194.	127745	मैसर्स सीधी ई. कॉम. प्राइवेट लिमिटेड
1195.	127782	मैसर्स सुलझा फार्मा कोम प्राइवेट लिमिटेड
1196.	128016	मैसर्स बेस्ट सिस्टम्स एन्ड सोल्यूशन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
1197.	128212	मैसर्स हीनस्टोन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड
1198.	128232	मैसर्स ओमकार ट्रांसपोर्ट एन्ड ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड
1199.	128306	मैसर्स क्विक बाईट डोट कॉम (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
1200.	128312	मैसर्स अडेप्ट वेब (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
1201.	128385	मैसर्स आय नेस्टर ट्रस्टी कं. प्राइवेट लिमिटेड
1202.	128593	मैसर्स उतकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
1203.	128592	मैसर्स आय पंचायत इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

1	2	3
1204.	128774	मैसर्स लिफा फ्रेट फोरवर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
1205.	129054	मैसर्स इ माहिला इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
1206.	129055	मैसर्स आयोजना इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
1207.	129056	मैसर्स इ प्रसारण इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
1208.	129062	मैसर्स इ पर्यटन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
1209.	129068	मैसर्स सोलारीज टेक्नॉलोजी प्राइवेट लिमिटेड
1210.	129102	मैसर्स फीपोस्ट इंटरनेट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
1211.	129244	मैसर्स फ्यरिच सोल्यूशन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
1212.	129273	मैसर्स रिजन सेक्यूरिटीज प्राइवेट लिमिटेड
1213.	129278	मैसर्स सेलवी मरिने सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
1214.	129381	मैसर्स ई बेझर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
1215.	129382	मैसर्स ई ज्योतिश इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
1216.	129467	मैसर्स परम इनफोकॉम प्राइवेट लिमिटेड
1217.	129534	मैसर्स रे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
1218.	129686	मैसर्स कंटलायस्ट इनफोटेक प्राइवेट लिमिटेड
1219.	129757	मैसर्स होट बाईस कम्युनिकेशन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
1220.	129780	मैसर्स अभिषेक ट्रेडको (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
1221.	129842	मैसर्स कबडी डोटकोम लि.
1222.	130060	मैसर्स निकासीवो ट्रंचलेस टेक्नोलॉजीस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
1223.	130069	मैसर्स एकटिव रिक्रयूटिंग (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
1224.	130071	मैसर्स कोडेक्स टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
1225.	130311	मैसर्स वेब इंटरलिंग कं. (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
1226.	130462	मैसर्स इनफोनेट इलेक्ट्रीकल्स प्राइवेट लिमिटेड
1227.	130525	मैसर्स संगनश नेटवर्क सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
1228.	130526	मैसर्स सॉल्टीटेअर इन्फोरमेशन टेक्नोलॉजीज सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड
1229.	130725	मैसर्स न्यू सॉफ्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
1230.	130841	मैसर्स आउकलंड ब्रेवरीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
1231.	130894	मैसर्स द न्यू कोलमन पंप कं. प्राइवेट लिमिटेड
1232.	130937	मैसर्स एन. आर. सेठी कार्ड्स प्राइवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
1233.	131302	मैसर्स सोफ्टवेयर पालरी (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड	1262.	134251	मैसर्स सुप्रीम इंटरनेट सेक्युरिटी सर्विसेस (मुंबई) प्राईवेट लिमिटेड
1234.	131511	मैसर्स ऐलार टेक्नॉलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड	1263.	134263	मैसर्स आयजीटी एक्जीम प्राईवेट लिमिटेड
1235.	131674	मैसर्स अँकमे कोमसॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड	1264.	134285	मैसर्स लक्ष्मी कुलींग सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
1236.	131678	मैसर्स चिंटकोश आय टि एकेडमी प्राईवेट लिमिटेड	1265.	134297	मैसर्स ग्रीन सर्कल हेल्थ एण्ड ब्यूटी प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
1237.	131751	मैसर्स थोमसन कारपोरेशन इंडिया प्राईवेट लिमिटेड	1266.	134363	मैसर्स लाईफ लाईन डायरेक्ट मार्केटिंग मुंबई प्राईवेट लिमिटेड
1238.	131902	मैसर्स एस. जे. फुट बेअर प्राईवेट लिमिटेड	1267.	134443	मैसर्स मोलेक्युलर प्रोडक्ट्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
1239.	131953	मैसर्स अर्यशका इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	1268.	134449	मैसर्स मिराकल ऑनलाइन इनफार्मेशन प्राईवेट लिमिटेड
1240.	132116	मैसर्स एक्ससेस नेटवर्क इंडिया प्राईवेट लिमिटेड	1269.	134483	मैसर्स लेदर विला (इंडिया) लिमिटेड
1241.	132443	मैसर्स जे. बी. मरिने सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	1270.	134737	मैसर्स राहुल इन्टरमिडीएट्स प्राईवेट लिमिटेड
1242.	132553	मैसर्स अरिहंत मेडिया प्राईवेट लिमिटेड	1271.	134759	मैसर्स युगर एक्सचेंज टेक्नॉलॉजीज (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
1243.	132586	मैसर्स सलगी ओरगनीक्स प्राईवेट लिमिटेड	1272.	134834	मैसर्स विधाता गोएल अचिवमेंट इनफो प्राईवेट लिमिटेड
1244.	132638	मैसर्स क्लब बॉक्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड	1273.	134992	मैसर्स के बी नेटवर्क सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
1245.	132745	मैसर्स सी न स्काय टूर्स प्राईवेट लिमिटेड	1274.	135041	मैसर्स टबॉन पार्स एण्ड सर्विसेस (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
1246.	132807	मैसर्स ग्रुफंगस मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड	1275.	135264	मैसर्स फुसन बी सर्विसेस (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
1247.	132818	मैसर्स कोमा स्टूडियो लाईन प्राईवेट लिमिटेड	1276.	135486	मैसर्स लिलाक एन्टरप्राइजिस प्राईवेट लिमिटेड
1248.	132838	मैसर्स मिहल इलेक्ट्रीक सिंडीकेट प्राईवेट लिमिटेड	1277.	135616	मैसर्स फोनिक्स रिसरजन्सी मैनेजमेंट सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
1249.	132890	मैसर्स गरुडा रिअल सेक्युरिटीज ट्रेडिंग कं. प्राईवेट लिमिटेड	1278.	135743	मैसर्स समनन लॉजीस्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड
1250.	132933	मैसर्स अष्टविनायक नेटवर्क मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड	1279.	135815	मैसर्स वसुंधरा सोऊल एनरिचर्स प्राईवेट लिमिटेड
1251.	133090	मैसर्स अफिक्स टेक्नॉलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड	1280.	135878	मैसर्स सोनरसीस मैनेजमेंट सर्विसेस (मुंबई) प्राईवेट लिमिटेड
1252.	133134	मैसर्स गोविंदा हारबर इन्जीनियर्स लिमिटेड	1281.	135889	मैसर्स थिओरमा इंडिया इंपेक्स प्राईवेट लिमिटेड
1253.	133368	मैसर्स झिअल क्रिएशन्स प्राईवेट लिमिटेड	1282.	135988	मैसर्स टेक हाऊस सिस्टम्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
1254.	133371	मैसर्स सुपर किसान फर्टिलाइजर्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड	1283.	136006	मैसर्स अन्वीकार कंसलटिंग इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
1255.	133423	मैसर्स अँक्वीफील्ड इन्स्ट्रुमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	1284.	136027	मैसर्स डॉ. बाश्रास पोजिटिव हेल्थ एकेडमी प्राईवेट लिमिटेड
1256.	133742	मैसर्स बोनीरा होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड	1285.	136347	मैसर्स शॅलोर इक्वीम प्राईवेट लिमिटेड
1257.	133758	मैसर्स थरमोवाफ टेक्नॉलॉजीज इंडिया प्राईवेट लिमिटेड			
1258.	133785	मैसर्स साई लिला फिल्मस प्राईवेट लिमिटेड			
1259.	133855	मैसर्स डॉ. ब्रात्रास पोजिटिव हेल्थ क्रिएशन प्राईवेट लिमिटेड			
1260.	134009	मैसर्स जी एम आयुर्वेदिक इंडिया प्राईवेट लिमिटेड			
1261.	134090	मैसर्स नगनो प्रेशर एण्ड टेम्परेचर इन्स्ट्रुमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड			

1	2	3	1	2	3
1286.	136453	मैसर्स सचिनस मल्टीलेवल मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड	1312.	139650	मैसर्स राष्ट्रतेज इनवेस्टमेंट कंसलटेंसी प्राईवेट लिमिटेड
1287.	136503	मैसर्स रिच कन्सलटेंसी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	1313.	139804	मैसर्स सारथी टेलकॉम प्राईवेट लिमिटेड
1288.	137091	मैसर्स मिरा सीगनस प्राईवेट लिमिटेड	1314.	139978	मैसर्स डि. के. सन्स साड़ी एण्ड टेक्सटाईल्स प्राईवेट लिमिटेड
1289.	137104	मैसर्स माऊ मल्टी ट्रेड प्राईवेट लिमिटेड	1315.	140014	मैसर्स पाईक मर्वेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
1290.	137576	मैसर्स आर. एस. रहेजा बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड	1316.	140029	मैसर्स पोसाईजन मेडिया एडगे प्राईवेट लिमिटेड
1291.	137628	मैसर्स ग्लो टेक डिस्प्लेज प्राईवेट लिमिटेड	1317.	140241	मैसर्स सिपल फाईलस्टोक लिमिटेड
1292.	137774	मैसर्स अर्यन मोटेल्स एण्ड डेवलपर्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड	1318.	140280	मैसर्स सागर होमट्रेड प्राईवेट लिमिटेड
1293.	137810	मैसर्स रेयन एण्ड बेकर ट्रेड इवेन्स एण्ड एक्सपोजिशनस प्राईवेट लिमिटेड	1319.	140602	मैसर्स नोवा ऑयलफील्ड सर्विसेस (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
1294.	137931	मैसर्स ओम लक्ष्मी मार्बल्स एण्ड ग्रेनाईट्स प्राईवेट लिमिटेड	1320.	140635	मैसर्स रेशनल ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड
1295.	138296	मैसर्स बाय एयर लॉजिस्टिक्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड	1321.	140782	मैसर्स मेनटोट टेक्ट्रॉनिक्स सोल्युशन्स प्राईवेट लिमिटेड
1296.	138366	मैसर्स विश्वास कम्प्युटराईज्ड पैथोलॉजी लेबोरेटरीज प्राईवेट लिमिटेड	1322.	140789	मैसर्स टिकर कंस्ट्रक्शन एण्ड इनफ्रास्ट्रक्चर कं. प्राईवेट लिमिटेड
1297.	138375	मैसर्स दिवा एनिमेशन्स प्राईवेट लिमिटेड	1323.	140863	मैसर्स फाईव स्टार रिंग सर्विसेस (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
1298.	138413	मैसर्स फैमिली फार्मास्युटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड	1324.	141057	मैसर्स आमपार्ट कनसलटेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
1299.	138675	मैसर्स फोरच्युन इनफोरनमेंट प्राईवेट लिमिटेड	1325.	141103	मैसर्स ओरिवोन मंत्र मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
1300.	138732	मैसर्स फ्युचर फेज टेक्नोलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड	1326.	141192	मैसर्स इपोल कंसलटेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
1301.	139094	मैसर्स ड्रीम्स आफ कन्सलटेंसी (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड	1327.	141227	मैसर्स आरजी इंटरएक्तेल प्राईवेट लिमिटेड
1302.	139099	मैसर्स वरजीन एक्सप्रेस प्राईवेट लिमिटेड	1328.	141304	मैसर्स निमीत प्रोपर्टीज एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
1303.	139131	मैसर्स रिलाएबल सॉफ्टप्रो सोल्युशन्स प्राईवेट लिमिटेड	1329.	141684	मैसर्स नूरज फायनान्शियल सर्विसेस एण्ड इनवेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड
1304.	139258	मैसर्स कैप्रीकोर्न टेक्नोक्रेट्स एण्ड एक्झीम प्राईवेट लिमिटेड	1330.	141723	मैसर्स मास्टर तुगस प्राईवेट लिमिटेड
1305.	139296	मैसर्स रामेश्वर पेट्रोकेमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड	1331.	142358	मैसर्स दत्त कृपा हाऊस कीपिंग एण्ड पेस्ट कंट्रोल प्राईवेट लिमिटेड
1306.	139336	मैसर्स बी. पी. ई. इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड	1332.	142387	मैसर्स एक्सीलेंट हॉस्पिटैलिटी एण्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्राईवेट लिमिटेड
1307.	139484	मैसर्स बी 2 बी इलेक्ट्रिकल्स.कॉम प्राईवेट लिमिटेड	1333.	142459	मैसर्स सेंसोज इंटरप्राइजेस प्राईवेट लिमिटेड
1308.	139513	मैसर्स अनमोल इंपेक्स लिमिटेड	1334.	142618	मैसर्स राईजिंग सन बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
1309.	139613	मैसर्स निंबल टेक्नोलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड	1335.	142735	मैसर्स क्वीन्सबेरी फुड्स प्राईवेट लिमिटेड
1310.	139620	मैसर्स ट्रान्स्टर शिपिंग प्राईवेट लिमिटेड	1336.	142795	मैसर्स सुपर स्ट्रांग प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड
1311.	139646	मैसर्स लुफकीन लाईफ साइन्स प्राईवेट लिमिटेड	1337.	142796	मैसर्स एवर रेडी प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
1338.	142797	मैसर्स अस्टर कन्स्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
1339.	142813	मैसर्स टवीलाईट कन्स्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
1340.	142917	मैसर्स फ्यअलट वेक्स प्रोडक्ट्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
1341.	143135	मैसर्स काऊलड्रान कम्युनिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
1342.	143147	मैसर्स तोरवीम पेट्रोलियम सर्विसेस इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
1343.	143358	मैसर्स एसी प्रीमाइसेस प्राईवेट लिमिटेड
1344.	144112	मैसर्स रॉक सोल्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
1345.	144440	मैसर्स नदुरे मेडिप्लान्टो प्राईवेट लिमिटेड
1346.	144486	मैसर्स नुक्लस टेलीलिंक्स प्राईवेट लिमिटेड
1347.	144647	मैसर्स एच. के. फायनान्शियल सर्विसेस एण्ड इनवेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड
1348.	144698	मैसर्स मनिला फायनान्शियल सर्विसेस एण्ड इनवेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड
1349.	144858	मैसर्स वी के आर एन टेक्नॉलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड
1350.	145386	मैसर्स कवच सैक्युरिटी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
1351.	145612	मैसर्स वेद एक्सप्रेस कुरियर एण्ड कार्गो प्राईवेट लिमिटेड
1352.	145916	मैसर्स ही टेक ई टर्मिनल इन्स्टॉलेशन प्राईवेट लिमिटेड
1353.	147006	मैसर्स विजुअल हारमोनी इंटरटेनमेंट प्राईवेट लिमिटेड
1354.	147063	मैसर्स ओमनी पार्किंग मीटर सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
1355.	147224	मैसर्स सेंटोस टेक्सटाईल्स प्राईवेट लिमिटेड
1356.	148039	मैसर्स सायनर्जी इवेंट्स एण्ड एक्जीबीशन्स प्राईवेट लिमिटेड
1357.	148062	मैसर्स स्पिरयान जॉन्टींग्स प्राईवेट लिमिटेड
1358.	148168	मैसर्स स्पम प्लास्टो प्राईवेट लिमिटेड
1359.	148604	मैसर्स एनशुअर सॉफ्टवेयर कनसल्टिंग प्राईवेट लिमिटेड
1360.	149210	मैसर्स आकाश इलेक्ट्रोसील (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
1361.	149429	मैसर्स सीआर के सिस्टम प्रोटैक्शन प्राईवेट लिमिटेड
1362.	151121	मैसर्स जोडिएक एजुकेशनल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
1363.	153840	मैसर्स मजोरट्रेड सेक्युरिटीज प्राईवेट लिमिटेड
1364.	155084	मैसर्स बीबीएम इंटरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड
1365.	105754	मैसर्स एशीयन टेक्नॉलॉजिस्ट लिमिटेड
1366.	134420	मैसर्स खानदेश हार्ट हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्राईवेट लिमिटेड

डी. के. गुप्ता  
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 तथा निम्नलिखित कम्पनियों  
के विषय में

मुम्बई, दिनांक 25 सितम्बर 2006

सं. 560(5)/2005--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनियां विघटित हो गयी हैं :--

क्र.सं.	रजिस्ट्रेशन सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1501.	123690	मैसर्स राजनेट. कॉम प्राईवेट लिमिटेड
1502.	123705	मैसर्स के. एस. इंटरटेनमेंट एण्ड टेक्नॉलॉजी प्राईवेट लिमिटेड
1503.	123753	मैसर्स ओर्गनोफाया अग्रो प्राईवेट लिमिटेड
1504.	123851	मैसर्स उम्प सेक्युरिटीज प्राईवेट लिमिटेड
1505.	123852	मैसर्स एम एस पी सैक्युरिटीज प्राईवेट लिमिटेड
1506.	123874	मैसर्स जे 1 इनव्हेस्टमेंट एण्ड इन्फो प्राईवेट लिमिटेड
1507.	124004	मैसर्स परगी ओनलाईन सर्विसेस (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
1508.	124009	मैसर्स हरीस एजन्सीज प्राईवेट लिमिटेड
1509.	124098	मैसर्स राशी सॉफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड
1510.	124230	मैसर्स शादीस. कॉम (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
1511.	124255	मैसर्स वी एस पी ट्रेड्स लिमिटेड
1512.	124285	मैसर्स विधि इनफोटेक प्राईवेट लिमिटेड
1513.	124296	मैसर्स अचिक्वमेंट्स इनफोटेक प्राईवेट लिमिटेड
1514.	124322	मैसर्स तझीन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
1515.	124330	मैसर्स संजीवेली होटेलस एण्ड रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
1516.	124332	मैसर्स मधुर ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड
1517.	124369	मैसर्स इको टेक मार्केटिंग सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
1518.	124419	मैसर्स साईराम शेअर एन्ड स्टॉक प्राईवेट लिमिटेड	1548.	126121	मैसर्स एन विजन (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
1519.	124441	मैसर्स अंब्रेडिया एग्री प्राईवेट लिमिटेड	1549.	126136	मैसर्स वामन स्टोरस हायटेका प्राईवेट लिमिटेड
1520.	124465	मैसर्स सेर्वाक फार्मा (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड	1550.	126152	मैसर्स अटलांटि सुपर कॉम्प्युटर्स प्राईवेट लिमिटेड
1521.	124472	मैसर्स होमट्रोनिक्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड	1551.	126166	मैसर्स इफिसियंट लॉजीस्टीक्स प्राईवेट लिमिटेड
1522.	124477	मैसर्स स्टैलिऑन फार्माशुटीकल्स प्राईवेट लिमिटेड	1552.	126169	मैसर्स इफिसियंट शिपिंग एजन्सीज इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
1523.	124557	मैसर्स रेंडेझ वीस हॉटेलस प्राईवेट लिमिटेड	1553.	126203	मैसर्स एक्सलेंट शिपिंग एजन्सीज इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
1524.	124601	मैसर्स सबकुछ ई कॉमर्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड	1554.	126217	मैसर्स संबंध मार्केटींग प्राईवेट लिमिटेड
1525.	124662	मैसर्स कॉलड्रान टेक्नोलोजीज प्राईवेट लिमिटेड	1555.	126288	मैसर्स प्रोसटर मार्केटींग प्राईवेट लिमिटेड
1526.	124838	मैसर्स अंडव्हेन्टेज कंफोर्ट (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड	1556.	126358	मैसर्स आयडियल डेहिव्हेरीज लिमिटेड
1527.	125079	मैसर्स पेट्रोमैक्स शिपिंग एन्ड लॉजीस्टीक्स प्राईवेट लिमिटेड	1557.	126447	मैसर्स गुड व्हैल्यू इनफोटेक प्राईवेट लिमिटेड
1528.	125112	मैसर्स इमेरलड इनफोटेक प्राईवेट लिमिटेड	1558.	126491	मैसर्स ग्रेविटी इनफोटेक लिमिटेड
1529.	125134	मैसर्स रालाटिज एग्री इनपुट्स प्राईवेट लिमिटेड	1559.	126531	मैसर्स मजी. कॉम प्राईवेट लिमिटेड
1530.	125162	मैसर्स एम कम्युनिकेट.कॉम (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड	1560.	रिकामा	रिकामा
1531.	125207	मैसर्स फीओझ टेकनॉलॉजीज इंडिया प्राईवेट लिमिटेड	1561.	126612	मैसर्स नारंजा टेक लिमिटेड
1532.	125239	मैसर्स पूर्वी इनफो वे प्राईवेट लिमिटेड	1562.	126653	मैसर्स सुप्रिटेक वेंचर्स प्राईवेट लिमिटेड
1533.	125277	मैसर्स मंघसन्स इंपेक्स प्राईवेट लिमिटेड	1563.	126676	मैसर्स ऑनलाईन टेलेंटस (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
1534.	125320	मैसर्स शाही एबल कार करिअर लिमिटेड	1564.	126725	मैसर्स स्कीनटोन्स फोटोग्राफी प्राईवेट लिमिटेड
1535.	125376	मैसर्स साउंड पिक्चर कम्युनिकेशन्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड	1565.	126752	मैसर्स फोनसिस इनफोटेक (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
1536.	125377	मैसर्स कॉर्पसर्व (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड	1566.	126838	मैसर्स एफ एम मानिफान्टी प्लिअर प्राईवेट लिमिटेड
1537.	125399	मैसर्स इसगी कॉम्प्युटर्स प्राईवेट लिमिटेड	1567.	126903	मैसर्स रारगेट फिल्मस प्राईवेट लिमिटेड
1538.	125566	मैसर्स प्रोगेसन सिसटीमस (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड	1568.	126905	मैसर्स प्रिमुस टेकनॉलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड
1539.	125605	मैसर्स सहयाद्री फिल्मसिटी प्राईवेट लिमिटेड	1569.	127000	मैसर्स बीएमबी इंटरटेनमेंट प्राईवेट लिमिटेड
1540.	125608	मैसर्स लता हॉस्पिटल एन्ड टेकनीकल एज्युकेशन प्राईवेट लिमिटेड	1570.	127106	मैसर्स एम. एफ. फाईनेन्सीयल प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
1541.	125637	मैसर्स सायबर अग्री प्राईवेट लिमिटेड	1571.	127201	मैसर्स पिकोप कंट्रोलस प्राईवेट लिमिटेड
1542.	125818	मैसर्स ड्रिमस इनफो. कॉम प्राईवेट लिमिटेड	1572.	127206	मैसर्स रामो पम्पस प्राईवेट लिमिटेड
1543.	125859	मैसर्स इंडिया पोर्ट. कॉम प्राईवेट लिमिटेड	1573.	127253	मैसर्स टिवीएस कम्युनिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
1544.	125863	मैसर्स स्टारडस्ट इंडिया. कॉम प्राईवेट लिमिटेड	1574.	127304	मैसर्स अस्ट्रल ई सर्विसेस लिमिटेड
1545.	125931	मैसर्स कोडिएम इंटरप्राइजेस प्राईवेट लिमिटेड	1575.	127391	मैसर्स प्रोडक्ट हट. कॉम (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
1546.	126060	मैसर्स ईजी सेक्युरिटीज प्राईवेट लिमिटेड	1576.	127418	मैसर्स मास्टरप्लस सॉफ्टवेयर सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
1547.	126115	मैसर्स मस्ट फॉर्ममस. कॉम इंडिया प्राईवेट लिमिटेड	1577.	127517	मैसर्स बोडविज्जन् सॉफ्टवेयर सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
1578.	127536	मैसर्स इटलीट टेक्नॉलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड	1606.	128759	मैसर्स प्रीस्म एलपीजी सेफ्टी. कॉम प्राईवेट लिमिटेड
1579.	127558	मैसर्स न्यु एक्सेलसीअर इन्वेस्टमेंट एण्ड ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड	1607.	128838	मैसर्स वामन टेक्नॉलॉजीज (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
1580.	127678	मैसर्स केसीएल शिपींग प्राईवेट लिमिटेड	1608.	128869	मैसर्स करेनाटाऊन (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
1581.	127694	मैसर्स प्रीसमेंटकि पैकेजिंग प्राईवेट लिमिटेड	1609.	128917	मैसर्स तिवेज ट्रैवलस एण्ड टूरस प्राईवेट लिमिटेड
1582.	127704	मैसर्स बॉबा यबुझ कॉम इंडिया प्राईवेट लिमिटेड	1610.	128944	मैसर्स किडसॉफ्ट टेक्नॉलॉजीज (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
1583.	127740	मैसर्स राजसन्स (बोम्बे) ट्रेडिंग एण्ड इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड	1611.	138982	मैसर्स टीएसपी व्हायल रिटेल लिमिटेड
1584.	127797	मैसर्स एमआरसीसी सॉफ्टवेयर सोल्युशनस प्राईवेट लिमिटेड	1612.	129036	मैसर्स एसमार्ट इन्फोटेक इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
1585.	127803	मैसर्स ट्रस्टलेन मिपींग सिस्टीमस प्राईवेट लिमिटेड	1613.	129155	मैसर्स मिरा नीट फॅब प्राईवेट लिमिटेड
1586.	127913	मैसर्स मा नेट ऑप्लीकेशन प्राईवेट लिमिटेड	1614.	129308	मैसर्स कमामाक्सी इंपेक्ष प्राईवेट लिमिटेड
1587.	127925	मैसर्स शिवसागर रेस्टोरेंट प्राईवेट लिमिटेड	1615.	129335	मैसर्स गेनी कोस्ट इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
1588.	127983	मैसर्स सुर्या अंबे टेलीफोल्मस प्राईवेट लिमिटेड	1616.	129363	मैसर्स लायसन इंडिया. कॉम इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
1589.	127990	मैसर्स गंध. कॉम इंडिया प्राईवेट लिमिटेड	1617.	129367	मैसर्स स्वानंद कॉम्प्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
1590.	127994	मैसर्स ब्राग ऑक्विशन प्राईवेट लिमिटेड	1618.	129392	मैसर्स तलडभ सॉफ्टवेयर सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
1591.	128018	मैसर्स के. एच. दालमिया (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड	1619.	129471	मैसर्स क्पीलीफाईड इन्वेस्टमेंट एण्ड ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड
1592.	128083	मैसर्स सॅसमिक अलगोरीअम (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड	1620.	129540	मैसर्स सॅक्शन नेटवर्कस प्राईवेट लिमिटेड
1593.	128155	मैसर्स नेट ब्रान्डिंग. कॉम (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड	1621.	129567	मैसर्स प्रतिष्ठ रिअलस्टोर प्राईवेट लिमिटेड
1594.	128196	मैसर्स गोल्ड मार्केटींग एण्ड ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड	1622.	129583	मैसर्स मार्बल रिमिडीज प्राईवेट लिमिटेड
1595.	128214	मैसर्स इझीलाईफ इन्वेस्टमेंट कंसलटन्सी प्राईवेट लिमिटेड	1623.	129669	मैसर्स विकप सॉफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड
1596.	128238	मैसर्स असेन्ट इनपीनीटी टेक्नॉलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड	1624.	129694	मैसर्स एन्ट्रन्समास्टर. कॉम (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
1597.	128250	मैसर्स ई प्रोवोग (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड	1625.	129754	मैसर्स बेनाझीया बाथवेयर प्राईवेट लिमिटेड
1598.	128269	मैसर्स मिनस्टल ग्लेज़िंग सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड	1626.	129765	मैसर्स ओइल केयर प्राईवेट लिमिटेड
1599.	128356	मैसर्स के. अनिल टेक्स प्राईवेट लिमिटेड	1627.	129802	मैसर्स पेपर प्लस मार्केटींग (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
1600.	128435	मैसर्स न्यु इंडिया आय. टि. सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	1628.	129817	मैसर्स समा इक्वपमेंट एण्ड सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
1601.	128459	मैसर्स विजयलक्ष्मी इंपेक्ष प्राईवेट लिमिटेड	1629.	129854	मैसर्स न्युम टेक्नॉलॉजी प्राईवेट लिमिटेड
1602.	128487	मैसर्स मर्टोनी पॉली वेब प्राईवेट लिमिटेड	1630.	129855	मैसर्स कवीकवे इंडिया मल्टीलेवल्स मार्केटींग प्राईवेट लिमिटेड
1603.	128541	मैसर्स फ्लोरामार्ट. कॉम इंडिया प्राईवेट लिमिटेड	1631.	129879	मैसर्स एनर्जी बायोटेक प्राईवेट लिमिटेड
1604.	128640	मैसर्स शालिमार् स्वारप ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड	1632.	129990	मैसर्स जिनेश ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड
1605.	128644	मैसर्स अंसारी इंपेक्ष प्राईवेट लिमिटेड	1633.	13029	मैसर्स सन आर्य कॉम्प्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
1634.	130165	मैसर्स तेज ट्रेन कार्गो सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	1664	131321	मैसर्स एम. ए. पी. इनफोटेक सिस्टमस (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
1635.	130218	मैसर्स एम. के. इनफोटेक प्राईवेट लिमिटेड	1665.	131349	मैसर्स इंदलॉजीटीक्स (मुम्बई) प्राईवेट लिमिटेड
1636.	130320	मैसर्स मासकॉन एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	1666.	131554	मैसर्स आय टेक इनफोरमेशन सिस्टमस प्राईवेट लिमिटेड
1637.	130487	मैसर्स उमेक इनफो सिसटीमस प्राईवेट लिमिटेड	1667.	131735	मैसर्स हश इनफोकॉम प्राईवेट लिमिटेड
1638.	130516	मैसर्स गेक्स्ट टेक्नॉलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड	1668.	131847	मैसर्स डाइटा इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
1639.	130590	मैसर्स इंटरपोर्ट शिपिंग एण्ड ट्रांसपोर्ट (नार्थ) प्राईवेट लिमिटेड	1669.	132300	मैसर्स युपीएस ट्रडर्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
1640.	130610	मैसर्स मोनसुन टेक्नॉलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड	1670.	132435	मैसर्स प्रोपेट मरकनटाइल कं. प्राईवेट लिमिटेड
1641.	रिक्त	रिक्त	1671.	132468	मैसर्स पेयामेक्स इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
1642.	रिक्त	रिक्त	1672.	132582	मैसर्स इकलाट फायनान्सीयल सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
1643.	रिक्त	रिक्त	1673.	132648	मैसर्स साइगन्स नेटवर्क सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
1644.	रिक्त	रिक्त	1674.	132663	मैसर्स पी. हरीष एण्ड कंपनी (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
1645.	रिक्त	रिक्त	1675.	132671	मैसर्स समयश टेक्नालॉजिस प्राईवेट लिमिटेड
1646.	रिक्त	रिक्त	1676.	132681	मैसर्स कवीराज इन्वेस्ट प्राईवेट लिमिटेड
1647.	रिक्त	रिक्त	1677.	133255	मैसर्स ओल्टीमेट मरकनटाइल प्राईवेट लिमिटेड
1648.	130629	मैसर्स अस्सीरीमेंट कनसलटिंग प्राईवेट लिमिटेड	1678.	133257	मैसर्स लेमन प्लानेट इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
1649.	130640	मैसर्स कन इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड	1679.	133281	मैसर्स मीनस्टाल मरकनटाइल कं. प्राईवेट लिमिटेड
1650.	130649	मैसर्स बाबा इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड	1680.	133282	मैसर्स वन अप सोलुशन प्राईवेट लिमिटेड
1651.	130726	मैसर्स अरीसटोस इन्स्टीट्यूट ऑफ इनफोरमेशन टेक्नॉलाजी प्राईवेट लिमिटेड	1681.	133304	मैसर्स इंटीवीज़ (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
1652.	130740	मैसर्स पी. एण्ड जे. प्रिंटिंग एण्ड स्टेशनरी प्राईवेट लिमिटेड	1682.	133366	मैसर्स शारदा ब्रदर्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
1653.	130750	मैसर्स पेस इनवेस्टोरेक लिमिटेड	1683.	133396	मैसर्स एस. एच. अयुर्वेदिक प्राईवेट लिमिटेड
1654.	130754	मैसर्स साना इंटरटेनमेंट नेटवर्क लिमिटेड	1684.	133397	मैसर्स सनरेस ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड
1655.	130815	मैसर्स अटलास कोमपेडटेक प्राईवेट लिमिटेड	1685.	133450	मैसर्स रीजेन्सी फायनान्सीअल प्रोडक्ट्स एण्ड सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
1656.	130908	मैसर्स मुम्बई टेक्नॉलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड	1686.	133487	मैसर्स लीबर्टी एडबरायडिंग प्राईवेट लिमिटेड
1657.	130955	मैसर्स मीआमी ट्रडप्लेस प्राईवेट लिमिटेड	1687.	133510	मैसर्स क्रिस्टल स्पेशल प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
1658.	131044	मैसर्स अग्रीकोल प्रीजरवेशन एण्ड स्टोरेज (इंडिया) लिमिटेड	1688.	133559	मैसर्स कीस्ती जोहन हेल्थकेअर प्राईवेट लिमिटेड
1659.	131067	मैसर्स वेल ब्यस्ट रिसर्च प्राईवेट लिमिटेड	1689.	133608	मैसर्स रोफी नोवा टेक प्राईवेट लिमिटेड
1660.	131089	मैसर्स मल्टीनेट कम्प्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड	1690.	133656	मैसर्स अंगीमोर बायो टेक प्राईवेट लिमिटेड
1661.	131113	मैसर्स आदीत्य बीर्ला एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड	1691.	133700	मैसर्स बेस्ट है टेक सरवायर्स एण्ड कन्सलटेन्सी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
1662.	131266	मैसर्स नक्षत्र सेक्यूरिटीज प्राईवेट लिमिटेड	1692.	133749	मैसर्स राजगोर स्टीलस प्राईवेट लिमिटेड
1663.	131308	मैसर्स फास्टर प्वाइंट कोम लिमिटेड			

1	2	3	1	2	3
1693.	133787	मैसर्स फ्युचर सोफ्टबीझ (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड	1720.	136917	मैसर्स सेनटेक्स इंडिया हुमन रीसोर्स एन्ड रीसर्च प्राईवेट लिमिटेड
1694.	133807	मैसर्स मेलोन मार्केटींग कनसेप्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	1721.	137031	मैसर्स झेरो ओक्यो सोल्यूशन्स ((इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
1695.	133826	मैसर्स गेनेटिक रीदम (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड	1722.	137342	मैसर्स लाईफ इनलाईट्स सर्विसेस (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
1696.	133882	मैसर्स मारवेल हेल्थ वेअर सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	1723.	137374	मैसर्स आझमुथ प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
1697.	133959	मैसर्स मासील इनसुरेन्स सर्विसेस लिमिटेड	1724.	137521	मैसर्स भव्य नेट मार्केटींग प्राईवेट लिमिटेड
1698.	133962	मैसर्स राज फार्मा केम प्राईवेट लिमिटेड	1725.	137981	मैसर्स अँस्ट्रोगेम स्टोन सेंटर प्राईवेट लिमिटेड
1699.	134284	मैसर्स न्यु लॉन्स पीक्वर्स प्राईवेट लिमिटेड	1726.	138210	मैसर्स भगवती एलाइड सेक्युरिटीज सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
1700.	134383	मैसर्स टरनींग पोईंट टेलीसीस्टमस प्राईवेट लिमिटेड	1727.	138218	मैसर्स एवरग्रीन फीटनेस प्राईवेट लिमिटेड
1701.	134715	मैसर्स गोडगीफ्ट स्टीलस प्राईवेट लिमिटेड	1728.	138278	मैसर्स महाराष्ट्र स्टेट कनस्ट्रक्शन्स कं. लिमिटेड
1702.	134720	मैसर्स ओरीओन इनसुरेन्स एजेन्ट्स एन्ड सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	1729.	138317	मैसर्स सागी मार्लेटिंग प्राईवेट लिमिटेड
1703.	134751	मैसर्स मेगनेट कोरपोरेट कनसलटेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	1730.	138325	मैसर्स ओरंगाबाद सिटी इंटरग्रेटेड रोड डेवलपमेंट लिमिटेड
1704.	134910	मैसर्स देसुलु स्टीलस प्राईवेट लिमिटेड	1731.	138326	मैसर्स सीमा रिसोर्ट एण्ड बॉटर पार्क प्राईवेट लिमिटेड
1705.	134803	मैसर्स जरगौन माइको सोलुशन्स प्राईवेट लिमिटेड	1732.	138378	मैसर्स कोंगो एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
1706.	134931	मैसर्स इडिफीस सोफ्टवेअर टेकनोलजीस प्राईवेट लिमिटेड	1733.	138428	मैसर्स नागपुर सिटी इंटरग्रेटेड रोड डेवलपमेंट प्राईवेट लिमिटेड
1707.	135125	मैसर्स हरेल इक्लीम प्राईवेट लिमिटेड	1734.	138434	मैसर्स एर्कस पग्लस प्राईवेट लिमिटेड
1708.	135330	मैसर्स कोसमोस फार्मासिटिकलस इंडिया प्राईवेट लिमिटेड	1735.	138444	मैसर्स नंदूरबार सिटी इंटरग्रेटेड रोड डेवलपमेंट लिमिटेड
1709.	135384	मैसर्स कुलअर्थ फोन मार्ट प्राईवेट लिमिटेड	1736.	138445	मैसर्स पुणे सिटी इंटरग्रेटेड रोड डेवलपमेंट लिमिटेड
1710.	135691	मैसर्स मंगवानी इंजीनीयर्स एन्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड	1737.	138621	मैसर्स कंट्री क्लब (मुंबई) लिमिटेड
1711.	135767	मैसर्स नूतन हेल्थ कोयर प्राईवेट लिमिटेड	1738.	138635	मैसर्स एम. आर. टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
1712.	135807	मैसर्स सप्पीरे फेशन्स प्राईवेट लिमिटेड	1739.	138725	मैसर्स अमल एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
1713.	135835	मैसर्स अष्टविनायक एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	1740.	138733	मैसर्स माईडंजरे मरकनटाईल एण्ड एजेन्सीज प्राईवेट लिमिटेड
1714.	136123	मैसर्स एम आर पी नायर इंजीनीयरींग वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड	1741.	138779	मैसर्स ओटोमेक कन्सलटेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
1715.	136322	मैसर्स टी एम एस कन्टेनर लाईन्स प्राईवेट लिमिटेड	1742.	139000	मैसर्स ब्राबो इंजेक्स प्राईवेट लिमिटेड
1716.	136325	मैसर्स मेट्रो इक्विटोडस (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड	1743.	139095	मैसर्स कीश डलिस प्राईवेट लिमिटेड
1717.	136346	मैसर्स नझर मार्केटींग प्राईवेट लिमिटेड	1744.	139171	मैसर्स अपना परिवार मार्केटींग (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
1718.	136731	मैसर्स डाटाकरे टेक्नोलॉजीस (इंडिया) लिमिटेड	1745.	139174	मैसर्स कपूर केटीरिंग एण्ड हाऊस किपींग प्राईवेट लिमिटेड
1719.	136748	मैसर्स नैसर्गिक डायरी एन्ड एग्रो प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड			



1	2	3	1	2	3
1746.	139234	मैसर्स महामंत्र फैशनस प्राईवेट लिमिटेड	1774.	142714	मैसर्स सीध्दी मेटलास प्राईवेट लिमिटेड
1747.	139265	मैसर्स जीएसके पब्लिकेशनस प्राईवेट लिमिटेड	1775.	142997	मैसर्स मीलीद डोमेस्टिक गॅस लिमिटेड
1748.	139366	मैसर्स जीमी जॉर्ज कन्सलटींग एण्ड ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड	1776.	143021	मैसर्स आईसीएस बोल इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
1749.	139461	मैसर्स पी एण्ड जी एक्सप्रेस प्राईवेट लिमिटेड	1777.	143198	मैसर्स पीजी एंटरटेनमेंट प्राईवेट लिमिटेड
1750.	139475	मैसर्स सहकार मार्केटींग कं. प्राईवेट लिमिटेड	1778.	143357	मैसर्स एक्सीम इनफोमेडीया (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
1751.	139546	मैसर्स प्राईड इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड	1779.	143486	मैसर्स राज केबल नटवर्क प्राईवेट लिमिटेड
1752.	139558	मैसर्स सेवनसिज इमिग्रेशन एण्ड एजुकेशन कन्सलटेंट प्राईवेट लिमिटेड	1780.	143508	मैसर्स रीना आयुर्वेदीक प्राईवेट लिमिटेड
1753.	139602	मैसर्स नांदेड सोलिड वैस्ट प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	1781.	143575	मैसर्स जेम्स मार्केटींग प्राईवेट लिमिटेड
1754.	139894	मैसर्स रामजीवन दरक एण्ड सन्स ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड	1782.	143717	मैसर्स शार्पलाईन एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
1755.	139921	मैसर्स के. के. ट्रान्सपोर्ट कं. प्राईवेट लिमिटेड	1783.	144211	मैसर्स उज्ज्वल फरटीलाइजर्स लिमिटेड
1756.	139964	मैसर्स कैलाश रजनी इस्टेट कन्सलटेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	1784.	144320	मैसर्स ओलक्यर ड्रास प्राईवेट लिमिटेड
1757.	140020	मैसर्स ट्रेस बोरस हॉस्पिटैलीटी प्राईवेट लिमिटेड	1785.	144424	मैसर्स दुन रेडिओ प्राईवेट लिमिटेड
1758.	140152	मैसर्स बुकसोम कोचीम क्लासेस प्राईवेट लिमिटेड	1786.	144564	मैसर्स पुने ऑप्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड
1759.	140248	मैसर्स कनकतारु मरिने सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	1787.	144615	मैसर्स नांदेड इनफास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कं. लिमिटेड
1760.	140387	मैसर्स वेलरच मशिनरी प्राईवेट लिमिटेड	1788.	144650	नीची फिल्मस प्राईवेट लिमिटेड
1761.	140400	मैसर्स अँकमे रबर प्राईवेट लिमिटेड	1789.	144771	मैसर्स ग्रीनलाईन एजन्सीस प्राईवेट लिमिटेड
1762.	140503	मैसर्स श्री सेफ लिंक नेटवर्क मार्केटींग प्राईवेट लिमिटेड	1790.	144836	मैसर्स अइरो प्रीन्ट (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
1763.	140561	मैसर्स श्री राम प्रण ट्रेड लिंकस प्राईवेट लिमिटेड	1791.	144886	मैसर्स मनपेक्स ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड
1764.	140798	मैसर्स कैनाथ फिल्मस प्राईवेट लिमिटेड	1792.	144981	मैसर्स संथी माइन्नींग सोल्युशन प्राईवेट लिमिटेड
1765.	140853	मैसर्स वीब्रीट सोफ्टवेयर सीस्टमस (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड	1793.	145565	मैसर्स वीनस स्करपकोन प्राईवेट लिमिटेड
1766.	140942	मैसर्स वलचर प्रॉपर्टीस प्राईवेट लिमिटेड	1794.	145585	मैसर्स श्री दिपज्योती फुडस प्राईवेट लिमिटेड
1767.	140994	मैसर्स गोल्ड ट्री मार्केटींग नेटवर्कस् प्राईवेट लिमिटेड	1795.	145633	मैसर्स केकेएम सरजीकल्स एण्ड मेडिका प्राईवेट लिमिटेड
1768.	141233	मैसर्स केबीपी कनसलटींग प्राईवेट लिमिटेड	1796.	145691	मैसर्स अटलांटिक नेट सर्विसेस (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
1769.	141360	मैसर्स वीटो इंपेक्स प्राईवेट लिमिटेड	1797.	145721	मैसर्स परपल पीक्वर्स प्राईवेट लिमिटेड
1770.	141424	मैसर्स संनजा मारीटाइम प्राईवेट लिमिटेड	1798.	145774	मैसर्स वीट्या मैनपॉवर सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
1771.	141581	मैसर्स गोल्ड मेजीक मार्केटींग प्राईवेट लिमिटेड	1799.	145856	मैसर्स अस्तर लाईफ साईस प्राईवेट लिमिटेड
1772.	142337	मैसर्स ओवरचर सर्च सर्विसेस (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड	1800.	146057	मैसर्स इ ओरीयंट नेटवर्कस (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
1773.	142517	मैसर्स शिवशक्ती टेक्सफेब एण्ड टूटर्स प्राईवेट लिमिटेड	1801.	146116	मैसर्स स्मास रीसोर्टस एण्ड फुड प्रोसेसर्स प्राईवेट लिमिटेड
			1802.	146220	मैसर्स ओम श्री ओफीस सोल्युशन्स प्राईवेट लिमिटेड
			1803.	146912	मैसर्स एम एल सकसेस नेटवर्क मार्केटींग प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
1804.	145936	मैसर्स इ लिंक इनफोकॉम प्राईवेट लिमिटेड
1805.	147595	मैसर्स पॉवर वेल सर्विसेस इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
1806.	147902	मैसर्स पेन पेयर एक्सप्रेस प्राईवेट लिमिटेड
1807.	147963	मैसर्स फारगो टेलकोम प्राईवेट लिमिटेड
1808.	147990	मैसर्स अथर्वा ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड
1809.	148142	मैसर्स सनफील्ड कन्सट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
1810.	148525	मैसर्स हीओरका फार्मा इंडिया लिमिटेड
1811.	148757	मैसर्स वेल्यु 4 मिडिया प्राईवेट लिमिटेड
1812.	149732	मैसर्स निसा ज्वेलर प्राईवेट लिमिटेड
1813.	150471	मैसर्स वीयु मिडिया प्राईवेट लिमिटेड
1814.	151299	मैसर्स श्रीनाथ कान्स्ट्रक्टर्स एण्ड इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
1815.	151300	मैसर्स सोमल वर्कस कोन्स्ट्रक्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
1816.	151301	मैसर्स शिवम इंजीनियरिंग सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड

डी. के. गुप्ता  
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों  
के विषय में

बंगलौर, दिनांक 31 अगस्त 2006

सं. एस.के./560(3)/एसईएस/2005--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उप-धारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि नियत तारीख से तीन माह समाप्त हो जाने पर निम्नलिखित कम्पनियों के नाम प्रतिकूल कारण नहीं दिये जाने पर रजिस्टर से काट दिए जाएंगे और उस कम्पनी को विघटित कर दिया जाएगा :--

क्रम सं.	कोड सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	12516	मैसर्स कामाक्षी एक्सट्रासन्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	17014	मैसर्स स्प्रेस इन्डीरिस प्राईवेट लिमिटेड
3.	15353	मैसर्स मैट्रि ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड
4.	22129	मैसर्स लोजिस्टिक सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
5.	23407	मैसर्स हेक्साकोम सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
6.	15726	मैसर्स सीवाट सिग्मा प्राईवेट लिमिटेड
7.	22926	मैसर्स मौली कन्सट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
8.	19676	मैसर्स नोरस गलस्टील प्राईवेट लिमिटेड
9.	20898	मैसर्स न्यू हल्लि फार्म्स एण्ड कौट्टी क्लब प्राईवेट लिमिटेड
10.	23557	मैसर्स ऐवी प्रोपर्टी डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
11.	19285	मैसर्स राजा रत्ना अल्ट्रा रिसोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
12.	19845	मैसर्स विसा प्रोपर्टीस प्राईवेट लिमिटेड
13.	20058	मैसर्स कनिव फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड
14.	22841	मैसर्स मारवल डटसन् ऐन्टरप्राइस प्राईवेट लिमिटेड
15.	13374	मैसर्स गुरुवासूरप्पा चिट्स प्राईवेट लिमिटेड
16.	18787	मैसर्स करिश्मा फार्म्स एण्ड रिसोर्ट्स प्राईवेट मैसर्स लिमिटेड
17.	20442	मैसर्स आटो मानेजमेन्ट कन्सलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
18.	18470	मैसर्स बंजारा एन्क्लेवस प्राईवेट लिमिटेड
19.	20715	मैसर्स सॉफ्टको कन्सलटेन्सी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
20.	19669	मैसर्स स्पैडर नेट टेक्नोलॉजीस प्राईवेट लिमिटेड
21.	15814	मैसर्स मारुति जिम्स प्राईवेट लिमिटेड
22.	20544	मैसर्स विटिपि केरियर एण्ड कारगो प्राईवेट लिमिटेड
23.	14621	मैसर्स लिबेटी शक्ति इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
24.	17374	मैसर्स एचपिएस इंजीनियरिंग एण्ड कन्सलटेन्सी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
25.	19343	मैसर्स प्रियंका बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
26.	16691	मैसर्स जय जी अप्पाटल प्राईवेट लिमिटेड
27.	17186	मैसर्स धूत सेक्यूरिटीस लिमिटेड
28.	17313	मैसर्स वीडियोकोन पावर फाईनैस प्राईवेट लिमिटेड
29.	17937	मैसर्स पर्धा एस्टेट डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
30.	16758	मैसर्स असरिक कम्प्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
31.	19989	मैसर्स जय जी कलोलिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
32.	16957	मैसर्स रियाहि प्रोपर्टीज एण्ड फिनवेस्ट प्राईवेट लिमिटेड
33.	23960	मैसर्स मैक्रोकोन एमएम प्राईवेट लिमिटेड
34.	16961	मैसर्स रहलेश प्रोपर्टीज एण्ड फिनवेस्ट प्राईवेट लिमिटेड
35.	16139	मैसर्स सिलवेस्ट्रो प्रोपर्टीज एण्ड इन्वेस्ट्मेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
36.	17311	मैसर्स विडियोकोन पॉवर सेक्यूरिटीस लिमिटेड

1	2	3
37.	17185	मैसर्स वीडियोकोन अप्लैन्स सिक्कुरिटीज लिमिटेड
38.	15052	मैसर्स प्रीमियम कूर्ग कोफी एण्ड स्पैसेस प्राईवेट लिमिटेड
39.	15897	मैसर्स चेतन ड्रावल्स प्राईवेट लिमिटेड
40.	15141	मैसर्स टैकून इन्टरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड
41.	17798	मैसर्स अनील एण्ड सुनील प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड
42.	17168	मैसर्स ए जी सन्स इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
43.	15186	मैसर्स हैट्रसोल प्राईवेट लिमिटेड
44.	16697	मैसर्स आश्चर्या डयमंड्स प्राईवेट लिमिटेड
45.	14843	मैसर्स त्रिनिटी मोनेटरी मनेजमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
46.	16947	मैसर्स डेसिकोन इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड
47.	13371	मैसर्स गालक्सी अग्रिकेम प्राईवेट लिमिटेड
48.	14703	मैसर्स साईकृपा लीजिंग प्राईवेट लिमिटेड
49.	17855	मैसर्स गुणा होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
50.	13677	मैसर्स जयभद्रा एस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
51.	19167	मैसर्स माधुच्छया फाईनान्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
52.	16985	मैसर्स वेणुगोपाल प्रोपर्टीज एण्ड फिनवेस्ट प्राईवेट लिमिटेड
53.	19087	मैसर्स यशस्वी मार्किटिंग प्राईवेट लिमिटेड
54.	21957	मैसर्स वेमना मैक्रो सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
55.	17188	मैसर्स वीडियोकोन इन्टरनेशनल सिक्कुरिटीज लिमिटेड
56.	13033	मैसर्स रोहिणी मैनिंग प्राईवेट लिमिटेड
57.	19160	मैसर्स माक्सप्रस फाईनेन्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
58.	23037	मैसर्स स्पुटेक पॉवर टेक्नोलोजीज प्राईवेट लिमिटेड
59.	21460	मैसर्स निम्नागड्डा ग्रेनाइट्स प्राईवेट लिमिटेड
60.	20596	मैसर्स नन्दी गारडेन्स एण्ड फ्लोरिकल्चर प्राईवेट लिमिटेड
61.	23147	मैसर्स सुप्रीम पार्क प्राईवेट लिमिटेड
62.	22391	मैसर्स अस्पस इंजीनियरिंग नीड्स एण्ड सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
63.	18784	मैसर्स सारथी टूर्स एण्ड ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड
64.	20709	मैसर्स सौक्या फाईनेन्स एण्ड रीयल इस्टेट प्राईवेट लिमिटेड
65.	20755	मैसर्स वीनस विला कन्स्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
66.	22630	मैसर्स लिंकन टिश्यूस प्राईवेट लिमिटेड
67.	23319	मैसर्स मणिपाल कन्स्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
68.	22126	मैसर्स कांचना फाईनेन्शियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
69.	18928	मैसर्स सनटेक कन्स्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
70.	23974	मैसर्स डिकोन टेलीसिस्टम्स लिमिटेड
71.	21533	मैसर्स स्पोर्ट्स वेयर एक्सप्रेस प्राईवेट लिमिटेड
72.	14856	मैसर्स प्रशान्त मल्टी-प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
73.	20529	मैसर्स एन. जी. आर. इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड
74.	12930	मैसर्स मुदीरेश्वर ग्रेनाइट इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
75.	21685	मैसर्स वरिन एक्जिम प्राईवेट लिमिटेड

संतोष कुमार  
सहायक रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज  
कर्नाटक

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों  
के विषय में

कोच्चि, दिनांक 18 सितम्बर 2006

सं. 560(5)/एसईएस/2005--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उप-धारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम इस तारीख से रजिस्टर से काट दिए जाएंगे और निम्नलिखित कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी :--

क्रम सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	3003	मैसर्स पोली ड्रग्स एण्ड केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	7351	मैसर्स टुलिप इस्टेट्स एण्ड कन्स्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
3.	7445	मैसर्स कन्सर्ट टेक्निकल एण्ड इन्फोर्मेशन सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
4.	8294	मैसर्स पॉवरफुल ट्रेड लिंक्स प्राईवेट लिमिटेड
5.	8508	मैसर्स बिन्स अप्लाइन्सेस प्राईवेट लिमिटेड
6.	8780	मैसर्स कोचीन ट्रेडिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
7.	8907	मैसर्स चिमारो बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
8.	9362	मैसर्स फ्लोरिटेक एक्सोटिका इन्टरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड
9.	10541	मैसर्स रंगनाथा डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
10.	14580	मैसर्स सियेनार प्लान्टेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
11.	15206	मैसर्स ओरियन्टल गोत फाम प्राईवेट लिमिटेड

एस. एम. अमीरुल मिल्लात  
कम्पनी पंजीयक  
केरल

-----

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों  
के विषय में।

कम्पनी कार्य मंत्रालय

कम्पनी पंजीयक कार्यालय, केरल

कम्पनी विधि भवन, बी. एम. सी. रोड, त्रिवकाकरा पी.ओ.

एरणाकुलम-682 021, दिनांक 20 सितम्बर 2006

सं. 560(5)/एस एम/4219--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560  
की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि  
निम्नलिखित कंपनियों के नाम इस तारीख से रजिस्टर से काट दिए जाएंगे  
और निम्नलिखित कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी :--

क्रम सं.	पंजी. सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	8662	मैसर्स बिन मालिक इन्डस्ट्रियल एण्ड ट्रेडिंग कंपनी (केरल) प्राईवेट लिमिटेड
2.	8707	मैसर्स एरिक एक्सपोर्ट्स एण्ड इम्पोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
3.	8716	मैसर्स न्यू-टेक फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड
4.	9017	मैसर्स हायरेन्ज कार्ड्स एण्ड ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड
5.	9091	मैसर्स सौत इंडियन कैपिटल प्राईवेट लिमिटेड
6.	9095	मैसर्स ट्रांसवर्ल्ड होलिंग प्राईवेट लिमिटेड
7.	9170	मैसर्स मनतला कुरीस एण्ड लॉन्स प्राईवेट लिमिटेड
8.	9457	मैसर्स सहारा हॉस्पिटल प्राईवेट लिमिटेड
9.	9575	मैसर्स जी एस एस ग्रुप प्राईवेट लिमिटेड
10.	9635	मैसर्स पोक्कन्जेरी आयुर्वेदिक्स प्राईवेट लिमिटेड
11.	9654	मैसर्स ओमहार एक्सिम प्राईवेट लिमिटेड
12.	9702	मैसर्स लिनोरा चिट्स एण्ड फाईनान्स प्राईवेट लिमिटेड
13.	9818	मैसर्स प्रोविन्ड कुरीस एण्ड जनरल फाईनान्स प्राईवेट लिमिटेड
14.	9885	मैसर्स जे बी एस क्रम्ब प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
15.	9937	मैसर्स ऑटोपार्क प्राईवेट लिमिटेड
16.	9981	मैसर्स सहयसूर्या एग्रो फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड
17.	10062	मैसर्स मूनार गार्डन्स प्राईवेट लिमिटेड
18.	10091	मैसर्स एम सी फील्ड मार्केटिंग एण्ड रिसर्च प्राईवेट लिमिटेड
19.	10176	मैसर्स कैतारी करलकडा एण्ड इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
20.	10185	मैसर्स श्री हरि कुरीस एण्ड लॉन्स प्राईवेट लिमिटेड
21.	10294	मैसर्स बून इंडिया एग्रो प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
22.	10319	मैसर्स चमत्तिल एस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
23.	10327	मैसर्स रॉयल कुरीस एण्ड लॉन्स प्राईवेट लिमिटेड
24.	10328	मैसर्स विजयास गोल्डार्ट प्राईवेट लिमिटेड
25.	10333	मैसर्स सुधनराज कन्स्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
26.	10383	मैसर्स फिफि ट्रेड्स प्राईवेट लिमिटेड
27.	10388	मैसर्स हैलान्डेर्स सेक्युरिटीस प्राईवेट लिमिटेड
28.	10394	मैसर्स क्षेत्रा फाईनान्शियल सर्विस प्राईवेट लिमिटेड
29.	10423	मैसर्स उदयज्योति चिट्स एण्ड फाईनान्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
30.	10459	मैसर्स निर्माल्यम कुरीस प्राईवेट लिमिटेड
31.	10477	मैसर्स ग्रीन लैन्ड एसोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड
32.	10481	मैसर्स श्रीमुत्तप्पन चिट्स एण्ड फाईनान्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
33.	10519	मैसर्स धन्वन्तरी चिकित्सालय एण्ड हेल्थ रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
34.	10542	मैसर्स वरहा चिट एण्ड फाईनान्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
35.	10553	मैसर्स मारवा ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
36.	10558	मैसर्स ईश्वरी पेपर्स प्राईवेट लिमिटेड
37.	10559	मैसर्स प्रेम मोल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
38.	10562	मैसर्स अस्त्रा स्पैसस एण्ड केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
39.	10570	मैसर्स उन्नति चिट्स एण्ड फाईनान्स प्राईवेट लिमिटेड
40.	10578	मैसर्स सी वेवस फाईनान्स एण्ड हायर पचेस प्राईवेट लिमिटेड
41.	1065	मैसर्स धनरूप चिट्स एण्ड फाईनान्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
42.	10657	मैसर्स सिद्धार्थ कुरीस एण्ड लॉन्स प्राईवेट लिमिटेड	70.	11164	मैसर्स ग्रेइस ग्रावैट एण्ड मिनरल वाटर कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
43.	10670	मैसर्स ब्रॉडकास्ट इंडिया टेलिविजन नेटवर्क प्राईवेट लिमिटेड	71.	11175	मैसर्स ब्रह्म लाटकस प्राईवेट लिमिटेड
44.	10685	मैसर्स श्री कीर्तनम कुरीस एण्ड लॉन्स प्राईवेट लिमिटेड	72.	11185	मैसर्स मेघा मिल्क प्राईवेट लिमिटेड
45.	10698	मैसर्स बी एस टेक्नो रबर्स प्राईवेट लिमिटेड	73.	11186	मैसर्स क्वासर चिट्स एण्ड फाइनन्स प्राईवेट लिमिटेड
46.	10719	मैसर्स श्री पदम प्राईवेट लिमिटेड	74.	11188	मैसर्स फौन्टेइन डाटा फोम्स प्राईवेट लिमिटेड
47.	10725	मैसर्स टी एण्ड टी एग्रो ट्रेड्स प्राईवेट लिमिटेड	75.	11192	मैसर्स मूलिका हर्बल्स प्राईवेट लिमिटेड
48.	10728	मैसर्स गुडफिना क्रेडिट्स एण्ड इनवेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	76.	11201	मैसर्स माक-विन कन्स्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
49.	10736	मैसर्स स्कैकिंग ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड	77.	11218	मैसर्स ओरियन्टल कन्सल्टेन्सी सर्विस-इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
50.	10748	मैसर्स होमारस मारियडम प्राईवेट लिमिटेड	78.	11236	मैसर्स इंगिल क्राफ्ट्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
51.	10757	मैसर्स सुकुमार इंजीनियरिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	79.	11253	मैसर्स इस्टाटिक प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
52.	10795	मैसर्स एलयोन मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड	80.	11258	मैसर्स एस. के. काईस प्राईवेट लिमिटेड
53.	10813	मैसर्स काम-मान्स कलर लैब प्राईवेट लिमिटेड	81.	11261	मैसर्स नैशनल पब्लीशिंग हाऊस प्राईवेट लिमिटेड
54.	10849	मैसर्स अनिल एडवर्टाइजिंग एजेन्सी प्राईवेट लिमिटेड	82.	11263	मैसर्स फस्ट लाइन कम्प्युनिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
55.	10850	मैसर्स सुभद्रा एक्सपोर्ट्स इम्पोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	83.	11268	मैसर्स डी एस जे इन्फार्मेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड
56.	10856	मैसर्स अकोर्न ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	84.	11286	मैसर्स रिसोर्ट डेवलपर्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
57.	10857	मैसर्स महम्मूद एण्ड महम्मूद प्राईवेट लिमिटेड	85.	11287	मैसर्स चोक्कारन फाईनैन्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
58.	10867	मैसर्स एकदन्ता कुरीस प्राईवेट लिमिटेड	86.	11291	मैसर्स आई बी सी कोमटेक प्राईवेट लिमिटेड
59.	10893	मैसर्स खायई एग्रो फुड्स प्राईवेट लिमिटेड	87.	11334	मैसर्स ट्रेडवेइस एक्सपोर्टिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
60.	10932	मैसर्स ट्रावनकोर मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड	88.	11359	मैसर्स हेट्स हायर परचेस एण्ड लीसिंग प्राईवेट लिमिटेड
61.	11040	मैसर्स यू-दे-वी प्राईवेट लिमिटेड	89.	11362	मैसर्स बल्डमोट फार्म एण्ड डेयरी प्राईवेट लिमिटेड
62.	11042	मैसर्स मैल्टेन मार्केटिंग सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	90.	11363	मैसर्स पवरति कुरीस एण्ड लॉन्स प्राईवेट लिमिटेड
63.	11052	मैसर्स शिवास नं. 1 ट्रिनिटी बीच रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	91.	11367	मैसर्स अम्बाडी फार्म प्राईवेट लिमिटेड
64.	11116	मैसर्स सण एण्ड ड्यू हिल रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	92.	11383	मैसर्स दि लॉर्ड फिल्मस प्राईवेट लिमिटेड
65.	11119	मैसर्स कान्जना चिटीस एण्ड लॉन्स प्राईवेट लिमिटेड	93.	11397	मैसर्स कोरम आयुर्वेदिक हेल्थ रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
66.	11133	मैसर्स छेल इंडिया प्राईवेट लिमिटेड	94.	11411	मैसर्स चार्टेड टूरिजम एण्ड मोटल्स प्राईवेट लिमिटेड
67.	11140	मैसर्स बीच लैन्ड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	95.	11455	मैसर्स पोलीटेक मशीनरीज प्राईवेट लिमिटेड
68.	11157	मैसर्स देवमंगलम फाइनन्स एण्ड कुरीस प्राईवेट लिमिटेड	96.	11483	मैसर्स रहमत रियल एस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
69.	11159	मैसर्स धनंजया कुरीस एण्ड लॉन्स प्राईवेट लिमिटेड	97.	11491	मैसर्स मुरल एण्ड कोटिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
			98.	11530	मैसर्स ली एण्ड अलक्सान्डर एंटरप्राइजिस प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
99.	11532	मैसर्स फ्रन्टीयर एस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड	126.	11947	मैसर्स वेबस्कूल मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
100.	11561	मैसर्स माधवी एन्जिक्न्स प्राईवेट लिमिटेड	127.	11950	मैसर्स कुइलुत चिट्ठी फन्ड प्राईवेट लिमिटेड
101.	11568	मैसर्स डी वी एस्टेट्स एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड	128.	11989	मैसर्स मेनसा मैनेजमेंट कन्सल्टैन्स प्राईवेट लिमिटेड
102.	11574	मैसर्स वेनजे ट्रेड्स सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	129.	11990	मैसर्स ज्योति काटिल फीड्स प्राईवेट लिमिटेड
103.	11579	मैसर्स काक्कशेरी फाईनन्स एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	130.	12004	मैसर्स तयिल इम्पेक्स एण्ड टूल्स प्राईवेट लिमिटेड
104.	11586	मैसर्स माकफील्ड मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड	131.	12008	मैसर्स पेन्टान चिट्ठ प्राईवेट लिमिटेड
105.	11606	मैसर्स ग्रामलक्ष्मी चिट्ठ एण्ड लॉन्स प्राईवेट लिमिटेड	132.	12009	मैसर्स चियारी पावरटेक प्राईवेट लिमिटेड
106.	11619	मैसर्स पिंग एण्ड गुडविल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	133.	12012	मैसर्स कोन्वेरी इको सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
107.	11625	मैसर्स वास्ट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड	134.	12018	मैसर्स अनन्तम चिट्ठ फन्ड प्राईवेट लिमिटेड
108.	11636	मैसर्स ओ एण्ड सी सिस्टम्स एण्ड प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	135.	12025	मैसर्स बिनबिन एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
109.	11641	मैसर्स मेडेईल एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	136.	12026	मैसर्स गुरु मूवी मेकर्स प्राईवेट लिमिटेड
110.	11650	मैसर्स मयूरम इन्वेस्टमेंट्स एण्ड कुरीम प्राईवेट लिमिटेड	137.	12032	मैसर्स चैतन्या एक्सपोर्ट्स एण्ड इम्पोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
111.	11660	मैसर्स वाष्परम्बिल एन्टरप्राइसिस प्राईवेट लिमिटेड	138.	12035	मैसर्स चेराय कुरीस प्राईवेट लिमिटेड
112.	11671	मैसर्स सेफटेक इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड	139.	12039	मैसर्स सिसिन सॉफ्टवेयरस प्राईवेट लिमिटेड
113.	11677	मैसर्स अनसा फूड्स प्राईवेट लिमिटेड	140.	12057	मैसर्स सी ब्रीज हॉटल्स प्राईवेट लिमिटेड
114.	11686	मैसर्स हरिजन ग्रामा व्यवसाय लिमिटेड	141.	12077	मैसर्स वेर्ड एडवरटाईजिंग प्राईवेट लिमिटेड
115.	11698	मैसर्स इन्टरकनेक्ट ट्रेवल एण्ड टूरिज्म प्राईवेट लिमिटेड	142.	12078	मैसर्स विस्मया मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
116.	11711	मैसर्स आमजोन ग्रानैट्स प्राईवेट लिमिटेड	143.	12100	मैसर्स मलयालम मेडिकल मिशन प्राईवेट लिमिटेड
117.	11725	मैसर्स लक्ष्मीदास ज्वैलर्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड	144.	12106	मैसर्स सेफ्टी वाटर प्रूफिंग प्राईवेट लिमिटेड
118.	11753	मैसर्स कोच्चिन पलमैरा रिक्रिएशन सेन्टर प्राईवेट लिमिटेड	145.	12110	मैसर्स चित्रसीमा फिल्मस प्राईवेट लिमिटेड
119.	11760	मैसर्स टेक्नोक्राट स्टील प्राईवेट लिमिटेड	146.	12111	मैसर्स पुलितरा चिट्ठ फन्ड्स प्राईवेट लिमिटेड
120.	11776	मैसर्स जूनो बूटीक प्राईवेट लिमिटेड	147.	12124	मैसर्स तिरुवोनम फाईनान्स प्राईवेट लिमिटेड
121.	11807	मैसर्स सावन कन्सल्टैन्सी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	148.	12128	मैसर्स ग्रीनोयासिस एनवयोनमेंटल इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड
122.	11816	मैसर्स उत्राडम चिट्ठ एण्ड फाईनन्स प्राईवेट लिमिटेड	149.	12132	मैसर्स पूरम चिट्ठी एण्ड लॉन्स प्राईवेट लिमिटेड
123.	11821	मैसर्स अलैन रबर प्राईवेट लिमिटेड	150.	12162	मैसर्स सिन्डिकेट ट्रेड लिंक्स प्राईवेट लिमिटेड
124.	11852	मैसर्स मेइन स्ट्रीम सिनेमा प्राईवेट लिमिटेड	151.	12172	मैसर्स विनत्रोप हॉटल्स प्राईवेट लिमिटेड
125.	11905	मैसर्स एम टी आई मोटोर्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड	152.	12179	मैसर्स बी जी टूल्स एण्ड ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड
			153.	12191	मैसर्स कोक्स्वेइन कोरियर प्राईवेट लिमिटेड
			154.	12193	मैसर्स वालसल्या राजीव रक्षा आधुरा आश्रिता सेवा प्राईवेट लिमिटेड
			155.	12196	मैसर्स होमियो डीलर्स हॉलसेल डिपोट प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
156.	12224	मैसर्स दि वाटर साइड इन प्राईवेट लिमिटेड	183.	12454	मैसर्स सेवन स्टार प्लैबुड प्राईवेट लिमिटेड
157.	12227	मैसर्स अम्मु फूड्स प्राईवेट लिमिटेड	184.	12468	मैसर्स किंग वेनीस प्राईवेट लिमिटेड
158.	12241	मैसर्स पनिकेर्स अग्रि ओरगानिक्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड	185.	12470	मैसर्स इन्टग्रीटेड सोलार सिस्टम्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
159.	12247	मैसर्स सालिह ग्रानैट्स प्राईवेट लिमिटेड	186.	12506	मैसर्स टेक्नोलॉजी एण्ड सेक्यूरिटी-कोच्ची प्राईवेट लिमिटेड
160.	12248	मैसर्स आकाश इन्टीरियर एण्ड एक्सटीरियर्स प्राईवेट लिमिटेड	187.	12520	मैसर्स पोर्टेबल सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
161.	12250	मैसर्स एनपीईस होल्डिंग्स एण्ड इनवेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	188.	12530	मैसर्स सविथर सैबर कनसल्टेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
162.	12254	मैसर्स वल्लिक्काट इलोस्टोमर्स प्राईवेट लिमिटेड	189.	12531	मैसर्स मैत्री कार शेयर प्राईवेट लिमिटेड
163.	12273	मैसर्स वलकोडु टी प्राईवेट लिमिटेड	190.	12541	मैसर्स मोन्टो लागो इलैक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
164.	12285	मैसर्स सेडिकोम कपासिटेर्स एण्ड कम्पोनेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	191.	12543	मैसर्स वेल्लानिक्करा कुरीस प्राईवेट लिमिटेड
165.	12286	मैसर्स इनस्टेट कोरियर्स एण्ड कार्गोस प्राईवेट लिमिटेड	192.	12562	मैसर्स एस. जी. डिस्टिलरीस प्राईवेट लिमिटेड
166.	12301	मैसर्स मेटल, सिस्टम्स एण्ड यूटिलिटीस प्राईवेट लिमिटेड	193.	12568	मैसर्स बिस्मी मरैन एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
167.	12324	मैसर्स ईश्वरी पावर मिल्स प्राईवेट लिमिटेड	194.	12572	मैसर्स हॉलिडे बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
168.	12347	मैसर्स चैत्रम कुरीस प्राईवेट लिमिटेड	195.	12620	मैसर्स न्यू लुक कुरीस प्राईवेट लिमिटेड
169.	12355	मैसर्स कोक्कून हेरिटेज होम्स प्राईवेट लिमिटेड	196.	12654	मैसर्स स्वराज सेक्यूरिटीस प्राईवेट लिमिटेड
170.	12358	मैसर्स सी. के. एम. फूड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	197.	12655	मैसर्स रायमेन्ट एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
171.	12374	मैसर्स अक्काई क्रियेशन्स सिनेमा प्राईवेट लिमिटेड	198.	12668	मैसर्स बेस्ट मेडिकेयर फार्मास्यूटिकल्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
172.	12381	मैसर्स सुपरजाक चिट्स प्राईवेट लिमिटेड	199.	12695	मैसर्स सायलोसेर्व सेल्स एण्ड सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
173.	12394	मैसर्स नाम 'स नेटवर्क प्राईवेट लिमिटेड	200.	12697	मैसर्स गोल्डबेर्ग बिबरेजस प्राईवेट लिमिटेड
174.	12399	मैसर्स मारकार्ड प्राईवेट लिमिटेड	201.	12707	मैसर्स पविश्रम वन्डरलैन्ड एण्ड रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
175.	12405	मैसर्स बी पोन्ट मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड	202.	12708	मैसर्स सिंफणी फर्नीचर्स प्राईवेट लिमिटेड
176.	12413	मैसर्स हैन्डिक्राफ्ट्स एन्टरप्राइजिस प्राईवेट लिमिटेड	203.	12723	मैसर्स स्कैग्रिप कोनट्रैक्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
177.	12415	मैसर्स ट्रावनकोर लॉटरीस एण्ड मार्केटिंग सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	204.	12748	मैसर्स मुगल कुरीस प्राईवेट लिमिटेड
178.	12418	मैसर्स इन्टग्रल लूब्स एण्ड पॉलिमर्स प्राईवेट लिमिटेड	205.	12815	मैसर्स अमृत मेडिकेयर सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
179.	12420	मैसर्स हॉलिडे विलेज प्राईवेट लिमिटेड	206.	12818	मैसर्स सिलटेक टेक्नोलॉजीस प्राईवेट लिमिटेड
180.	12432	मैसर्स टोपस्पोट विलास प्राईवेट लिमिटेड	207.	12840	मैसर्स वाई. एम्स लॉटरी सर्विसेस इंडिया लिमिटेड
181.	12443	मैसर्स चेनाल चिट्स प्राईवेट लिमिटेड	208.	12890	मैसर्स मलयाली कनस्ट्रक्शन कंपनी प्राईवेट लिमिटेड
182.	12452	मैसर्स न्यू वेक्स रेडिवियर्स प्राईवेट लिमिटेड	209.	12895	मैसर्स अमै-बेन अम्प्यूसमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
			210.	12915	मैसर्स तशरीफ एयर ट्रैफिक सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
211.	12969	मैसर्स कनसट नेटवर्क सिस्टम्स एण्ड टेक्नोलॉजीस प्राईवेट लिमिटेड	238.	13464	मैसर्स आकाश मरैन प्राईवेट लिमिटेड
212.	12976	मैसर्स श्री मुरुगा टिम्बर्स प्राईवेट लिमिटेड	239.	13471	मैसर्स कुंजनार पब्लिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
213.	12987	मैसर्स मणिलाल सोप्स एण्ड कोसमेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड	240.	13474	मैसर्स लोटस (नोवेल) कम्प्यूटर सिस्टम एण्ड सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
214.	13012	मैसर्स एसकाडो इंडिया ट्रेड्स प्राईवेट लिमिटेड	241.	13483	मैसर्स शिवशैलम वायर नेटिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
215.	13045	मैसर्स कृटिल रोलर फ्लोर मिल्स प्राईवेट लिमिटेड	242.	13526	मैसर्स सनबेरीस फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
216.	13049	मैसर्स गोश्री एक्सिम प्राईवेट लिमिटेड	243.	13530	मैसर्स अलप्पी गैस एजेन्सीस प्राईवेट लिमिटेड
217.	13062	मैसर्स एन. एल. एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	244.	13599	मैसर्स सोफ्ट ट्रेक आई टी सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
218.	13106	मैसर्स सरप्लास सर्विसेस (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड	245.	13622	मैसर्स के. बी. टिम्बर एण्ड वुड वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड
219.	13128	मैसर्स कल्लियारा एस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड	246.	13631	मैसर्स प्यूपिल टेक सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
220.	13137	मैसर्स रिनस मार्केटिंग सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	247.	13714	मैसर्स मिल्लेनियम मीडिया विशन प्राईवेट लिमिटेड
221.	13138	मैसर्स पेस्ट सर्विसेस इंडिया प्राईवेट लिमिटेड	248.	13720	मैसर्स एक्सोलूट सेक्यूर इन्फार्मेशन रिसोर्सस टेक्नोलॉजीस प्राईवेट लिमिटेड
222.	13151	मैसर्स सुजित एन्टरप्राइजिस प्राईवेट लिमिटेड	249.	13766	मैसर्स साब हैजीनिक प्रोडक्ट्स मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
223.	13190	मैसर्स रिचरिच हॉटेल्स एण्ड रिसोर्ट्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड	250.	13767	मैसर्स डिग फ्यूअर सोफ्टवेयर इन्विकलंग प्राईवेट लिमिटेड
224.	13191	मैसर्स नदीम ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड	251.	13775	मैसर्स कल्लपरम्बल कुरीस प्राईवेट लिमिटेड
225.	13219	मैसर्स गुडलुक कम्प्यूनिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड	252.	13778	मैसर्स जड ट्रेड कम्बैन्स प्राईवेट लिमिटेड
226.	13226	मैसर्स स्कै टेक्स ट्रेडिंग (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड	253.	14186	मैसर्स मेंटर हॉस्पिटल एक्जूपमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
227.	13229	मैसर्स एन्डमनुरुत्तिल इरवी आयुर्वेदा मर्मा वैद्या शाला प्राईवेट लिमिटेड	254.	14208	मैसर्स कल्पका लीसिंग प्राईवेट लिमिटेड
228.	13260	मैसर्स चिकागो रिवोल्विंग रेस्टोरेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	255.	14226	मैसर्स ऑरबिट कोनडिमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
229.	13284	मैसर्स और-ऑन ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	256.	14238	मैसर्स वोल्गा पोलिमर्स प्राईवेट लिमिटेड
230.	13289	मैसर्स इनस्ट्राप्रीज वेयरहाउसस लिमिटेड	257.	14272	मैसर्स होलसोफ्ट सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
231.	13301	मैसर्स पी.ए. मोहम्मद सलीम कोनट्रेक्टर्स प्राईवेट लिमिटेड	एस. एम. अमीरुल मिल्लात कम्पनी पंजीयक केरला		
232.	13306	मैसर्स वर्षा कोनट्रेक्टर्स प्राईवेट लिमिटेड			
233.	13316	मैसर्स मलयालम रिसोर्ट्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड	कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में		
234.	13322	मैसर्स सलवा मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड			
235.	13323	मैसर्स जे.एम.सी. ब्रिक्स कोम्पलेक्स प्राईवेट लिमिटेड	एरणाकुलम, कोच्चिन-21, दिनांक 22 सितम्बर 2006		
236.	13336	मैसर्स नेडुमंगाडु रबर ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड			
237.	13461	मैसर्स श्रीविजय हॉस्पिटल रिसर्च एण्ड हेल्थकेयर प्राईवेट लिमिटेड	सं. 560(5)/एल आई क्यू--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उप-धारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती		



है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम इस तारीख से रजिस्टर-से काट दिए जाएंगे और निम्नलिखित कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी :--

क्रम सं.	कंपनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	3385	मैसर्स पोर्टशेरी प्लान्टेशनस प्राईवेट लिमिटेड
2.	3691	मैसर्स पूतिकोट प्लान्टेशन एण्ड एजेन्सीज प्राईवेट लिमिटेड
3.	3773	मैसर्स जेबल प्लान्टेशन प्राईवेट लिमिटेड
4.	4286	मैसर्स धोनी मेटल क्रबिंग कंपनी प्राईवेट लिमिटेड
5.	4554	मैसर्स मालतडम प्लान्टेशन प्राईवेट लिमिटेड
6.	4689	मैसर्स कलपका फाईनान्स प्राईवेट लिमिटेड
7.	4869	मैसर्स रिलायन्स प्रिन्टिंग इन्क प्राईवेट लिमिटेड
8.	5270	मैसर्स वी ए के सुपरमार्कट्स प्राईवेट लिमिटेड
9.	5371	मैसर्स दक्षिण पत्रिका प्राईवेट लिमिटेड
10.	5526	मैसर्स मैत्री सिल्क एण्ड प्लान्टेशन कंपनी लिमिटेड
11.	5626	मैसर्स पझान्जि कुरीस एण्ड इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
12.	5653	मैसर्स धनूस इंजिनियर्स एण्ड कनसल्टेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
13.	6843	मैसर्स तेक्कुमकोर प्लान्टेशन प्राईवेट लिमिटेड
14.	7279	मैसर्स ग्रीनक्रैस प्लान्टेशन प्राईवेट लिमिटेड
15.	7281	मैसर्स कान्जुपरम्बिल प्लान्टेशन प्राईवेट लिमिटेड
16.	7354	मैसर्स सुबरबन प्लान्टेशन प्राईवेट लिमिटेड
17.	8346	मैसर्स सुधा प्लान्टेशन प्राईवेट लिमिटेड
18.	8695	मैसर्स फिलेटा प्लान्टेशन एण्ड रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
19.	8720	मैसर्स कावडिया प्लान्टेशन प्राईवेट लिमिटेड
20.	8747	मैसर्स समरितन प्लान्टेशन एण्ड गुड फार्म प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
21.	8753	मैसर्स क्रिसेन्ट अक्वा प्रोजेक्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
22.	9248	मैसर्स कन्ट्रोलस एण्ड कम्प्यूनिक्शन्स टेक्नॉलोजीस प्राईवेट लिमिटेड
23.	10279	मैसर्स त्रिचूर फूड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
24.	10628	मैसर्स वेनाड प्लान्टेशनस प्राईवेट लिमिटेड
25.	13261	मैसर्स युनै इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
26.	14328	मैसर्स बीमौन्ट लैन्ड डेवलपर्स एण्ड कन्स्ट्रक्शन्स लिमिटेड

एस. एम. अमीरुल मिल्लता  
कंपनी पंजीयक  
केरला

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों  
के विषय में

कोच्ची-682 021, दिनांक 13 सितम्बर 2006

सं. 560(3)/एस.एम.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उप-धारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम इस तारीख से तीन माह के अवसान पर प्रतिकूल कारण दर्शित न लिये जाने पर रजिस्टर से काट दिये जाएंगे और निम्नलिखित कम्पनियां विघटित की दी जाएंगी :--

क्रम सं.	पंजी. सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	09-13937	मैसर्स न्यूराट इन्फो टेक.कॉम प्राईवेट लिमिटेड
2.	09-14974	मैसर्स साप टेक्नोलोजीस प्राईवेट लिमिटेड

के. श्रीकुमार  
सहायक पंजीयक  
केरल

## UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi-110 069, the 31st January 2006

No. A-38013/11/2005-Admn. III.—Consequent upon attaining the age of superannuation Shri R. K. Bodwal, Section Officer (Ad hoc) of the CSS Cadre of Union Public Service Commission stands retired from Government Service w.e.f. the afternoon of 31.01.2006.

S. ANANDAN  
Under Secy. (Admn.)

New Delhi-110 069, the 5th July 2006

No. A. 12025(ii)/1/2003-Admn. III.—Consequent upon their nomination to the CSS cadre of Union Public Service Commission for inclusion in the select list of Section Officers' Grade for the year 2003 against seniority quota vide Department of Personnel and Training's OM No. 5/25/2004-CS-I dated 5th June, 2006, the President is pleased to appoint the following regular Assistants of this office who are presently officiating as Section Officers (ad hoc) as Section Officers in the CSS cadre of Union Public Service Commission w.e.f. the forenoon of 5th June, 2006 :—

Sl. No.	Name
1.	Shri Kishan Lal
2.	Shri Lalit Mahajan

DINESH KUMAR  
Under Secy. (Admn.)

The 6th July 2006

No. A. 32014/1/2004-Admn. III.—Consequent upon his nomination to the CSS cadre of Union Public Service Commission for inclusion in the select list of Section Officers' Grade for the year 2004 on the basis of Combined Limited Departmental Competitive Examination, 2004 vide Department of Personnel and Training's OM No. 6/3/2006-CS-I dated 6th June, 2006, the President is pleased to appoint Shri Mohan Chandra Bhatt (rank-125), Personal Assistant of the CSSS Cadre of Department of Posts, M/o Communications and Information Technology as Section Officer in the CSS cadre of Union Public Service Commission w.e.f. the forenoon of 30th June, 2006.

DINESH KUMAR  
Under Secy. (Admn.)

The 10th July 2006

No. A. 32014/1/2004-Admn. III.—Consequent upon her nomination to the CSS cadre of Union Public Service

Commission for inclusion in the select list of Section Officers' Grade for the year 2004 on the basis of Combined Limited Departmental Competitive Examination, 2004 vide Department of Personnel and Training's OM No. 6/3/2006-CS-I dated 6th June, 2006, the President is pleased to appoint Smt. Mamta Batra (Rank-235), Personal Assistant of the CSSS Cadre of UPSC, as Section Officer in the CSS cadre of Union Public Service Commission w.e.f. the forenoon of 10.7.2006.

DINESH KUMAR  
Under Secy. (Admn.)

The 21st July 2006

No. A. 12025(ii)/1/2003-Admn. III.—Consequent upon their nomination to the CSS cadre of Union Public Service Commission for inclusion in the select list of Section Officers' Grade for the year 2003 against seniority quota vide Department of Personnel and Training's OM No. 5/25/2004-CS-I dated 5th June, 2006, the President is pleased to appoint the following regular Assistants of the CSS cadres of the Ministries/Departments as indicated against each, who were officiating as Section Officers (ad hoc) in the respective cadres, as Section Officers in the CSS cadre of Union Public Service Commission w.e.f. the dates mentioned against each :—

Sl. No.	Name	Cadres to which belong	Date of appointment
	S/Shri		
1.	S. Ravi Kumar	M/o Social Justice & Emp.	14.7.2006 (AN)
2.	A. K. Das	-do-	-do-
3.	R. N. Bharati	-do-	-do-
4.	R. C. Dhyani	-do-	-do-
5.	Narender Paul	M/o Health & Family Welfare	18.07.2006 (FN)
6.	Anil Kumar	-do-	-do-
7.	S. R. Toppo	-do-	-do-
8.	M. K. Basnotra	M/o Information & Broadcasting	18.07.2006 (FN)
9.	Surender Kumar	M/o Agriculture	19.07.2006 (FN)

DINESH KUMAR  
Under Secy. (Admn.)

The 7th August 2006

No. A. 32014/2/2004-Admn. III.—Consequent upon their nomination for appointment as Section Officers on ad hoc

basis by the Department of Personnel & Training vide OM No. 21/61/2005-CS. I. dated 21.07.2006, the President is pleased to appoint the following regular Assistants of the CSS Cadre of MHA and M/o Civil Aviation to officiate as Section Officers on ad hoc basis in the CSS cadre of Union Public Service Commission for the period indicated against each or until further orders whichever is earlier :—

Sl. No.	Name	Period of ad hoc Promotion
	S/Shri	
1.	S. Chakravarty	25.07.2006 to 31.12.2006
2.	P. K. Malhotra	28.07.2006 to 31.12.2006

2. The promotion of above Assistants as Section Officers on ad hoc basis will be subject to the following conditions :

- (i) The ad hoc appointment shall not confer on the appointees any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Section Officers' Grade of CSS.
- (ii) Ad hoc arrangements may continue till regular candidates in Section Officers grade are available either through Seniority Quota and/or Limited Departmental Competitive Examination (LDCE). In the event of the ad hoc appointees not qualifying for regular appointment in either of these two categories, they will be reverted to the Assistants' Grade on availability of such regular Officers from the date the regular Section Officers join duty in their respective cadre allotted to them by the DoP&T.

DINESH KUMAR  
Under Secy. (Admn.)

The 5th September 2006

No. A-32011/1/2005-Admn. I.—In pursuance of Department of Personnel & Training (Office of the Establishment Officer) O. M. No. 21/3/2001-EO (MM. I) (Pt.) dated 30th August, 2006, the tenure of Shri M. P. Singh, ICoAS (88) stands extended for a period of three months beyond 6.9.2006 i.e. upto 6.12.2006 in the post of Joint Secretary (Director Level) in Union Public Service Commission.

Shri M. P. Singh counts his tenure at centre w.e.f. 7.9.2001.

DINESH KUMAR  
Under Secy. (Admn.)

The 12th September 2006

No. A. 32014/1/2004-Admn. III.—Consequent upon his nomination to the CSS cadre of Union Public Service

Commission for inclusion in the select list of Section Officers' Grade for the year 2004 on the basis of Combined Limited Departmental Competitive Examination, 2004 vide Department of Personnel and Training's OM No. 6/3/2006-CS-I dated 25.08.2006, the President is pleased to appoint Shri Ashokan P. K. (Rank-219), Personal Assistant of the CSSS Cadre of Department of Secondary and Higher Education, M/o Human Resource Development as Section Officer in the CSS cadre of Union Public Service Commission w.e.f. the forenoon of 1st September 2006.

DINESH KUMAR  
Under Secy. (Admn.)

New Delhi-110 069, the 17th August 2006

No. A. 32014/1/2006-Admn. III.—The President is pleased to appoint the following Assistants of the CSS Cadre of Union Public Service Commission to officiate as Section Officers on ad hoc basis for the period indicated against each or until further orders whichever is earlier :—

Sl. No.	Name	Period of ad hoc promotion
	S/Shri	
1.	Rakesh Peter	14.08.2006 to 31.12.2006
2.	Jagdish Chander-II	14.08.2006 to 31.12.2006
3.	Jai Kishore (SC)	14.08.2006 to 31.12.2006
4.	K. C. Sharma-I*	14.08.2006 to 31.12.2006
5.	Smt. Veena Qanungo	14.08.2006 to 31.12.2006

\*Retiring on superannuation w.e.f. 30.11.2006 (AN)

2. The promotion of above Assistants as Section Officers on ad hoc basis will be subject to the following conditions :

- (i) The ad hoc promotions have been made purely as stop-gap arrangement and shall not confer any right to continue in the Grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Section Officers' Grade.
- (ii) Ad hoc arrangements may continue till regular candidates in Section Officers Grade are available through Seniority Quota and/or Limited Departmental Competitive Examination (LDCE). In the event of the ad hoc appointees not qualifying for regular appointment in either of these two categories, they will be reverted to the Assistants' Grade on availability of such regular Section Officers.

K. M. SASIDHARAN  
Under Secy. (Admn.)

## CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi-110 003, the 21st September 2006

No. DP Pers. I/2006/201//A-20023/4/82.—Shri Sumant Kumar Saxena relinquished charge of the post of Dy. Legal Adviser, CBI with effect from 31.08.2006 (A. N.) on attaining the age of superannuation.

S. K. RANJAN  
Admin. Officer (Pers.)

No. DP Pers. I/2006/207/3/47/95.—The President is pleased to appoint Shri Daya Ram Sankhwar, Sr. Public Prosecutor, CBI as Dy. Legal Adviser in the CBI with effect from the forenoon of 14.08.2006 and until further orders.

S. K. RANJAN  
Admin. Officer (Pers.)

No. DP Pers. I/2006/208/3/9/88.—The President is pleased to appoint Shri Veerender Kumar, Sr. Public Prosecutor, CBI as Dy. Legal Adviser in the CBI with effect from the afternoon of 24.08.2006 and until further orders.

S. K. RANJAN  
Admin. Officer (Pers.)

## CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

New Delhi, the 26th September 2006

No. 2/2/06-Admn.—The Central Vigilance Commissioner hereby appoints Shri Rajiv Verma, Section Officer in the Commission as Under Secretary in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- with effect from 28.08.2006 (F/N), on ad hoc basis, for a period of three months or until further order, whichever is earlier.

MANGE LAL  
Dy. Secy.  
for Central Vigilance Commissioner

No. 2/3/06-Admn.-36271.—The Central Vigilance Commissioner hereby appoints Shri Narayan Singh Rawat, Assistant in the Commission as Section Officer in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- on ad hoc basis with effect from 28.08.2006 (F/N), for a period of three months or till further orders, whichever is earlier.

MANGE LAL  
Dy. Secy.  
for Central Vigilance Commissioner

No. 2/21/06-Admn.-36276.—The Central Vigilance Commissioner hereby appoints Shri Surjit Singh, Under Secretary in the Commission as Officer on Special Duty in

the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/- on ad-hoc basis with effect from 21.09.2006 for a period of three months or till further orders, whichever is earlier.

MANGE LAL  
Dy. Secy.  
for Central Vigilance Commissioner

MINISTRY OF HOME AFFAIRS  
(DIRECTORATE GENERAL, CRPF)

New Delhi-110 003, the 12th September 2006

No. O-II-6446/2006-Pers.-I.—Consequent on acceptance of notice for Voluntary Retirement from service, Shri Sunil Kumar Rana, Asstt.Comdt (IRLA : 6446) of 76 Bn. CRPF relinquished the charge of his post on the forenoon of 1 July 2006. Accordingly, he was struck off from the strength of this Department with effect from the same date i.e. 1.7.2006 (FN).

RANJIT SINGH  
Addl. DIGP (Pers.-I).

The 14th September 2006

No. O. II. 3697/06-CRC (MOs).—The President is pleased to appoint Dr. Dinesh Mishra as Medical Officer in Central Reserve Police Force in temporary capacity from the forenoon of 4.9.2006 till further order. He is posted to 166 Bn. CRPF.

RANJIT SINGH  
Addl. DIGP (Pers.-I)

The 15th September 2006

No. O. II. 3696/06-CRC (MOs).—The President is pleased to appoint Dr. Naveen Gambhir as Medical Officer in Central Reserve Police Force in temporary capacity from the forenoon of 14.8.2006 till further order. He is posted to 116 Bn. CRPF.

RANJIT SINGH  
Addl. DIGP (Pers.-I)

New Delhi-110 003, the 11th September 2006

No. O. II. 3111/92-Pers. I.—Consequent on receipt of Notice dated 14.11.2005 submitted by Shri G. C. Bhatt, Second-in-Command (IRLA-3516) of 95 Bn, CRPF for proceeding on voluntary retirement from Government service, the competent authority has, therefore, accepted the said notice wef 16.03.2006 (F. N.) under Rule-43(d) of CRPF Rules-1955 read with GOI decision No. (iii) below Rule-48-A, Rule-48-A (2) and Sub Rule (3-A)(b) of Rule-48-A of CCS (Pension) Rules 1972.

2. The acceptance of voluntary retirement was delayed due to vigilance enquiry as advised by CVC. His notice

dated 14.11.2005 received by the IGP B/S was also returned to the officer with some observations and after rectifying the same VRS notice was re-submitted by officer on 22.12.2005. The officer submitted further communications dated 18.02.2006 and 09.03.2006 with the request to accept his voluntary retirement w.e.f. 01.03.2006 & 16.03.2006 respectively.

3. Therefore, on acceptance of the voluntary retirement by the competent authority, Shri G. C. Bhatt, Second-in-Command (IRLA-3516) of 95 Bn, CRPF deemed to have voluntarily retired from Government service wef 16.03.2006 (FN) and deemed to have been relieved and struck off the strength of the force with effect from 16.03.2006 (FN).

RAMESH CHADNRA  
DIGP (Pers.)

New Delhi-110 003, the 15th September 2006

No. P. VII-4/2006-Pers-3.—Consequent on acceptance of his Voluntary Retirement w.e.f. 01.05.2006 (FN) from the post of Administrative/Section Officer, Shri Chenthamarakshan C. M. (IRLA-5771) had handed over the charge of Administrative/Section Officer in the office of Addl. DIGP, Group Centre, CRPF, Hyderabad from the same date.

K. K. SIVA PRASAD  
Addl. DIG (Pers.-III)

The 19th September 2006

No. P. VII-4/2006-Pers.-3.—Consequent on his retirement from Government Service on attaining the age of superannuation Shri T. Thulasiraman (IRLA-6742) of Group Centre, CRPF, Avadi, has relinquished charge of the post of Section/Administrative Officer in the afternoon of 31.7.2006.

K. K. SIVA PRASAD  
Addl. DIG (Pers.-III)

DIRECTORATE GENERAL  
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

New Delhi-03, the 15th September 2006

No. E-16015/(2)/2/2003/Pers. I/62.—The President is pleased to appoint Shri V. K. Sharma, Insp/Exe to the rank of Asstt. Commandant/Exe in CISF on promotion on regular basis in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/-. He is posted at/CISF Unit NLC Neyveli, where he assumed the charge of Asstt. Commandant/Exe in the forenoon of 21st August 2006.

Sd/- ILLEGIBLE  
Director General/CISF

No. E-16015/(2)/2/2003/Pers. I/63.—The President is pleased to appoint Shri R. K. Vij, Asstt. Commandant to the

rank of Dy. Commandant in CISF on promotion on regular basis in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/-. He is posted at CISF Unit ONGC Nazira, where he assumed the charge of Dy. Commandant in the forenoon of 4th September 2006.

Sd/- ILLEGIBLE  
Director General/CISF

MINISTRY OF FINANCE  
INDIA SECURITY PRESS  
A UNIT OF  
SECURITY PRINTING & MINTING CORPORATION OF  
INDIA LIMITED

Nashik Road-422 101, the 19th September 2006

Sub : Appointment of Accounts Officer on deputation basis

No. 589/G/EST-18-1.—On the recommendations of the Selection Committee and consequent to its approval by the General Manager, ISP, Nashik Road, Mr. P. B. Durgude, Jr. Accounts Officer, Central Stamp Depot, has been appointed to the post of Accounts Officer in India Security Press on deputation basis in the scale of pay of Rs. 7,450-225-11,500/- with effect from 28.07.2006 (FN) for a period of 3 (three) years.

PRAKASH NARAYAN  
General Manager

CURRENCY NOTE PRESS  
A UNIT OF  
SECURITY PRINTING & MINTING CORPORATION OF  
INDIA LIMITED

Nashik Road-422 101, the 14th September 2006

No. 20-S/ESC-I-15.—Shri V. M. Dravid, (SC), Junior Accounts Officer, Currency Note Press, Nashik Road is hereby promoted as Accounts Officer (Group 'B' Gazetted) on ad hoc basis in the pay scale of Rs. 7,450-225-11,500/- with effect from 04.09.2006 to 31.12.2006 or till the post of Assistant Director (Cost) is filled whichever is earlier.

The above ad hoc promotion will not bestow on the promotee any claim for regular appointment and the ad hoc service rendered by him would not count for the purpose of seniority in that grade for eligibility for promotion etc.

A. N. INGLE  
General Manager

The 21st September 2006

No. 21/S/ESC-I-21.—Shri R. T. Shinde, (SC), Store Keeper, is promoted as Store Officer, (Group 'B' Gazetted) purely on ad hoc basis in the pay scale of Rs. 7,450-225-11,500/- with effect from 04.09.2006 to 28.02.2007 or until further orders.

The above ad hoc promotion will not bestow on the promotee any claim for regular appointment and the ad hoc service rendered by him would not count for the purpose of Seniority in that grade for eligibility for promotion etc.

A. N. INGLE  
General Manager

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT  
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E),  
KERALA

Thiruvananthapuram, the 20th September 2006

No. O. E/E & C/EIVP/77.—The following Officials of IA & AD retired from Service :—

Sl. No.	Name	Designation	Date of retirement
1.	Shri P. K. Appu	Asstt. Accounts Officer Branch Office Kottayam	31.08.2006 (AN) (Superannuation)
2.	Smt. K. P. Leelamani	Senior Accounts Officer Branch Office, Thrissur	02.07.2006 (FN) (Voluntary retirement)
3.	Sri Benedict Martin	Asstt. Accounts Officer, Main Office, Trivandrum	04.07.2006 (FN) (Voluntary retirement)

M. RAJAN  
Dy. Accountant General (Admn.)

MINISTRY OF SMALL SCALE INDUSTRIES  
OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER  
(SMALL SCALE INDUSTRIES)

New Delhi, the 18th September 2006

No. A-19018 (660)/82-Admn. (G).—On attaining the age of superannuation, Shri R. Sampath Kumar, Deputy Director (Chemical) SISI, Chennai under Small Industry Development Organisation retired from Government Service on the afternoon of 31st August, 2006.

D. K. GAUTAM  
Dy. Director (Admn.)

DEPARTMENT OF COMMERCE  
(SUPPLY DIVISION)  
DIRECTORATE GENERAL OF SUPPLIES & DISPOSALS

New Delhi-110 001, the 21st September 2006

No. A-32015/3/2005-A. 6.—The President is pleased to appoint the following Assistant Director (Quality Assurance) Grade-II to Assistant Director (Quality Assurance) Grade-I

of the Junior Time Scale of Indian Inspection Service (Group 'A') in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- with effect from the dates mentioned against their names :—

Sl. No.	Name	Date of taking over charge
1.	Shri R. S. Kahare	14.07.2006 (AN)
2.	Shri K. L. P. Ranga Rao	17.07.2006 (FN)
3.	Shri M. K. Sen	27.07.2006 (FN)
4.	Shri M. S. Ashraf	28.08.2006 (FN)

2. The promotions ordered above are provisional and subject to final outcome of LPA'S 67/83, 68/83 & 69/83 filed by the U. O. I. and pending in Delhi High Court and W. P. Nos. 35/83, 3001/83 filed in Mumbai High Court and transferred to Delhi High Court and other petitions if any, pending in any High Court/CAT's all relating to matters of seniority in the grade.

S. S. SHARMA  
Dy. Director (Admn.)  
for Director General of Supplies & Disposals

MINISTRY OF MINES  
INDIAN BUREAU OF MINES

Nagpur, the 15th September 2006

No. A-19012/310/2006 Estt. APP.—“It is informed with profound sorrow that Shri G. K. Rayudu, Mineral Officer (I), expired on 15.08.2006. As such his name has been struck off the strength of the Indian Bureau of Mines.

A. N. NANDANWAR  
Asstt. Admin Officer

INDIA METEOROLOGICAL DEPARTMENT  
O/o THE DIRECTOR GENERAL OF METEOROLOGY

New Delhi-110 003, the 20th September 2006

No. A-32013(DIR)/18/2004-E. I.—The President is pleased to appoint the under mentioned Meteorologists Grade I of India Meteorological Department as Directors (Scale of pay Rs. 12,000—16,500/-) in an officiating capacity in the same department with effect from the dates indicated against their names below. The promotions are until further orders:—

Sl. No.	Name	Date from which appointed as Director
1	2	3
	S/Shri	
1.	Chatar Singh	17.08.2005
2.	Hira Lal	28.09.2005

1	2	3
	S/Shri	
3.	J. M. Motwal	28.09.2005
4.	A. S. Zadgaonkar	28.09.2005
5.	G. S. Vijayaraghavan	14.10.2005
6.	L. C. Ram	10.10.2005
7.	Smt. R. R. Shinde	28.09.2005
8.	K. V. K. Nair	28.09.2005
9.	P. P. Butala	28.09.2005
10.	Rajnikant	27.09.2005 (AN)
11.	Mehfooz Ali	27.12.2005
12.	D. N. Talapatra	30.09.2005
13.	Vijay Singh	27.09.2005 (AN)
14.	B. N. Vishnoi	28.09.2005
15.	K. S. Gaharwar	27.09.2005 (AN)
16.	T. K. Chakraborty	17.10.2005
17.	Dr. T. N. Jha	28.09.2005
18.	S. B. Gaonkar	28.09.2005
19.	D. K. Handique	07.10.2005
20.	Rajinder Kr. Sharma	28.09.2005
21.	P. C. Chaturvedi	27.09.2005 (AN)
22.	Subhash Chandra Das	28.09.2005
23.	Dilip Saha	28.09.2005
24.	Dr. P. K. Chakraborty	28.09.2005
25.	S. C. Ghosh	27.09.2005 (AN)
26.	Vivek Sinha	28.09.2005
27.	H. P. Shukla	28.09.2005
28.	D. K. Malik	30.09.2005
29.	Inderjeet Verma	28.09.2005
30.	H. A. K. Singh	28.09.2005
31.	M. S. Tomar	10.10.2005
32.	Dr. (Mrs.) Kamaljit Ray	28.09.2005
33.	Ms. K. Sathi Devi	28.09.2005
34.	Sanjib Sen	30.09.2005
35.	Hargobind Pathak	29.09.2005

R. B. THAPA  
Meteorologist (Establishment)  
for Director General of Meteorology

## DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Mumbai-400 001, the 13th September 2006

No. 7/2(1)/2004-SUS/7224.—The President is pleased to appoint the following officers in the Directorate of Construction Services and Estate Management of this Department on their promotion to the grade mentioned against each with effect from 1.2.2006 (FN) until further orders :—

Sl. No.	Name	Grade on Promotion	Scale of Pay (Rs.)
	S/Shri		
1.	S. K. Sharma	SO/E	12,000-375,16,500/-
2.	D. K. Samal	SO/E	12,000-375-16,500/-
3.	Pinaki Sen	SO/D	10,000-325-15,200/-
4.	Rosi Reddy Kurri	SO/D	10,000-325-15,200/-
5.	S. C. Dass	SO/D	10,000-325-15,200/-

D. SURENDRAN  
Under Secy.

Mumbai-400 001, the 20th September 2006

No. 22/3(2)/2006-CCS/24.—The President is pleased to appoint Smt. Usha Madhusudan Nair, Assistant Stores Officer (Scale of pay of Rs. 6,500—10,500/-), Central Stores Unit, Directorate of Purchase & Stores, Mumbai of this Department as Store Officer (Scale of pay of Rs. 10,000—15,200/-), in Stores Unit, Directorate of Purchase & Stores, Kota with effect from the 21.08.2006 (FN) until further orders.

SOBHA DEVI N.  
Under Secy.

## VARIABLE ENERGY CYCLOTRON CENTRE

Kolkata-700 064, the 4th September 2006

No. VECC/Prom. (Feb.)/2006/2907.—The President is pleased to appoint the undermentioned Scientific Officer/C of Variable Energy Cyclotron Centre, Department of Atomic Energy, Kolkata as Scientific Officer/D (Grade : Rs. 10,000-325-15,200/-) in the same Centre with effect from the forenoon of February 01, 2006 in an officiating capacity, until further orders.

Sl. No.	Name	Post held at Present	Grade
1.	Md. Z. A. Naser	Scientific Officer/C	Rs. 8,000-275-13,500/-

N. SRINIVASA RAO  
Chief Administrative Officer

Kolkata-700 064, the 21st September 2006

No. VECC/Appointment/3132.—The President is pleased to appoint Dr. Debasis Bhowmick as Scientific Officer (D) in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- in Variable Energy

Cyclotron Centre, Department of Atomic Energy, Kolkata with effect from the forenoon March 23rd, 2005 in temporary capacity, until further order.

S. B. BOSE  
Administrative Officer-III

## RAJA RAMANNA CENTRE FOR ADVANCED TECHNOLOGY

Indore, the 21st September 2006

No. RRCAT/Admn.-06/R-805 (A)/837.—The President is pleased to appoint the following Scientific Officers on promotion to the grade indicated against them with effect from the forenoon of 1st August, 2006 in an officiating capacity in the Raja Ramanna Centre for Advanced Technology, Indore until further orders :—

Sl. No.	CC No.	Name of Officer	Present Grade (Scale of Pay)	Promoted Grade (Scale of Pay)
1.	125	Shri Swarna Kotaiah	Scientific Officer/H (Rs. 18,400-500-22,400/-)	Outstanding Scientist (Rs. 22,400-525-24,500/-)
2.	427	Dr. Pradeep Kumar Gupta	-do-	-do-
3.	092	Shri Lala Abhinandan	Scientific Officer/G (Rs. 16,400-450-20,000/-)	Scientific Officer/H (Rs. 18,400-500-22,400/-)
4.	414	Dr. Gyanendra Singh Lodha	-do-	-do-
5.	520	Dr. Prasad A. Naik	-do-	-do-
6.	744	Dr. S. B. Roy	-do-	-do-
7.	343	Dr. (Smt.) Mangala S. Oak	Scientific Officer/F (Rs. 14,300-400-18,300/-)	Scientific Officer/G (Rs. 16,400-450-20,000/-)
8.	263	Shri Rajesh Arya	-do-	-do-
9.	206	Shri Rajvir Singh	-do-	-do-
10.	321	Shri Jishnu Dwivedi	-do-	-do-
11.	175	Shri Ajay Devidasrao Ghodke	-do-	-do-
12.	272	Shri Shiv Dutt Sharma	-do-	-do-

D. S. RAO  
Chief Administrative Officer

## NUCLEAR FUEL COMPLEX

Hyderabad-500 062, the 21st September 2006

No. NFC/PAR. 11/2-2006/294.—The President is pleased to appoint the undermentioned Scientific Officers/Engineers/Scientific Assistants of Nuclear Fuel Complex, Hyderabad in the grades indicated against each with effect from 01.02.2006 in the same unit, in an officiating capacity, until further orders :

Sl. No.	Name	Promotion From Gr. To Gr.	
1	2	3	4
Scale of pay of SO/E : Rs. 12,000-375-16,500/-			
S/Shri/Smt.			
1.	G. P. Sai Sanathan.	SO/D	SO/E
2.	A. K. Sinha	"	"



1	2	3	4
	S/Shri/Smt		
3.	V. Sampath Kumar	SO/D	SO/E
4.	Dr. Rina Kapoor	"	"
5.	G. V. R. Krishna Murthy	"	"
6.	C. Chinna Sailoo	"	"

Scale of pay of SO/D : Rs. 10,000-325-15,200/-

	S/Shri/Smt.		
1.	K. Venkateswara Rao	SO/C	SO/D
2.	L. C. V. R. Sastry	"	"
3.	A. Chandrasekhar	"	"
4.	G. Prasad Singh	"	"
5.	M. Venkateswara Rao	"	"
6.	S. Lingaiah	"	"
7.	M. Prabhakara Rao	"	"
8.	K. M. K. Vardhan	"	"
9.	C. Mahadeva Prabhuvu	"	"
10.	M. I. Prabhakar	"	"
11.	K. Raghuram	"	"
12.	Dr. Jolly Guha	"	"

Scale of pay of SO/C : Rs. 8,000-275-13,500/-

	S/Shri/Smt.		
1.	D. Vasudeva Rao	SO/SB	SO/C
2.	K. Prabhakara Rao	"	"
3.	A. Viswanatham	"	"
4.	M. Saibabu	SA/D	"
5.	K. Prabhakar	"	"

A. S. LAXMAN RAO  
Administrative Officer

#### ATOMIC MINERALS DIRECTORATE FOR EXPLORATION & RESEARCH

Hyderabad-500 016, the 20th September 2006

No. AMD-16/2/2000-Rectt./983.—Director, Atomic Minerals Directorate for Exploration & Research, Department of Atomic Energy hereby appoints Shri Mahendra Jha, Assistant Accountant (Scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/-) as Assistant Accounts Officer (Scale of pay Rs. 7,450-225-11,500/-) in the same Directorate on ad hoc basis with effect from the forenoon of 19.06.2006 to 21.07.2006.

G. M. NAIR  
Chief Administrative & Accounts Officer

#### INCOME TAX APPELLATE TRIBUNAL

Mumbai 400 020, the 14th September 2006

No. F. 48-Ad(AT)/2005.—Shri K. N. Gopalan, Office Superintendent, Income-tax Appellate Tribunal, Hyderabad Benches, Hyderabad is appointed to officiate as Assistant Registrar on ad hoc basis in the Income-tax Appellate Tribunal, Mumbai Benches, Mumbai in a purely temporary capacity with effect from the forenoon of 15th September, 2006 for a period of 3 months in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- or till the post is filled up on regular basis, whichever is earlier.

The above appointment is ad hoc and will not bestow upon him any claim for regular appointment in the grade and the service rendered by him on ad hoc basis will not count for the purpose of seniority in that grade or for eligibility for promotion to the next higher grade.

VIMAL GANDHI  
President

No. F. 301-AD(AT)/2006.—Shri K. Ramachandran, Senior Private Secretary, Income-tax Appellate Tribunal, Mumbai Benches, Mumbai retired from Government Service on attaining the age of superannuation, with effect from the afternoon of 31st August, 2006.

VIMAL GANDHI  
President

#### MINISTRY OF COMPANY AFFAIRS (DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS) OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Shub Kiran Chits Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/73091/15725.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shub Kiran Chits Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Infonet Solutions Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/102790/15730.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of

the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Infonet Solutions Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Satyam Cargo Movers Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/63946/15765.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Satyam Cargo Movers Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Novena Exports Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/63745/15768.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Novena Exports Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Rajesh Velvet Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/53700/15962.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Rajesh Velvet Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sujata Securities Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/53699/15972.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sujata Securities Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. B. B. Travels Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/108909/15977.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. B. B. Travels Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. A. S. Net Com Network Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/80031/15982.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. A. S. Net Com Network Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Kadambri Chits Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/05/84283/16256.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three

months from the date hereof the name of M/s. Kadambri Chits Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Allied Constructions Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/12403/16861.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Allied Constructions Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sampex Petrochem Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/87459/16871.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sampex Petrochem Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Ritu Packaging Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/31985/16886.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Ritu Packaging Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Aman Dairy Products Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/76858/16891.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Aman Dairy Products Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. New India Projects Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/28421/16896.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. New India Projects Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Spangle Viniyog Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/18708/16901.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Spangle Viniyog Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Quartet Design & Research Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/23925/16906.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three

months from the date hereof the name of M/s. Quartet Design & Research Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. G. K. Oriental Crafts Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/14443/16911.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. G. K. Oriental Crafts Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Mekaster Electronics Service Centre Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/38823/16916.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Mekaster Electronics Service Centre Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. D. O. Plastics Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/89450/16921.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. D. O. Plastics Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Hanung Toys Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/66917/16917.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Hanung Toys Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Kulmer Papers Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/11538/16936.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Kulmer Papers Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sheetal Agencies Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/56749/16941.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sheetal Agencies Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Ullstrong Cables Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/33409/16951.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three

months from the date hereof the name of M/s. Ullstrong Cables Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. B. N. K. Intrade Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/103762/16956.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. B. N. K. Intrade Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Onway Express Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/74494/16986.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Onway Express Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Kwaliti Cables Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/38959/16991.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Kwaliti Cables Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Dee Exports and Freight Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/8217/17006.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Dee Exports and Freight Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Metcom India Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/58446/17011.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Metcom India Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sehgal Nursing Home Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/101446/17016.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sehgal Nursing Home Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Goldcrop Securities Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/75339/17230.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three

months from the date hereof the name of M/s. Goldcrop Securities Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Umesneh Securities Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/65924/17235.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Umesneh Securities Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Yamuna Pharmacy Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/05/33538/17240.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Yamuna Pharmacy Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. R. G. Securities Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/56802/17245.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. R. G. Securities Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Charu Sales Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/63888/17250.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Charu Sales Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Better Theatres Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/1618/17255.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Better Theatres Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Vanguard Interiors Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/92793/17260.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Vanguard Interiors Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Super Starline Automobiles Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/63292/17265.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three

months from the date hereof the name of M/s. Super Starline Automobiles Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Navyuvak Builders Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/32276/17270.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Navyuvak Builders Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Diy Solutions Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/105444/17275.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Diy Solutions Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Amar Deco. Products Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/102881/17280.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Amar Deco. Products Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Pramay Trading & Investments Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/40689/17290.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Pramay Trading & Investments Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. G. C. B. Metal Crafts Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/40031/17295.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. G. C. B. Metal Crafts Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Deenank Finance Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/79843/17300.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Deenank Finance Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. N. D. Rangwala Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/56497/17305.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three

months from the date hereof the name of M/s. N. D. Rangwala Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Dr. Ramji Lal Sikka and Sons Financiers  
Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/42482/17310.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Dr. Ramji Lal Sikka and Sons Financiers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Cell Fone Hire Company India Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/84344/17315.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Cell Fone Hire Company India Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Malika Developers Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/85719/17320.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Malika Developers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Shiv Ram Agencies Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/108474/17325.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shiv Ram Agencies Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Bhiwadi Alloys Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/41647/17330.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Bhiwadi Alloys Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Kusal Properties Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/8494/17335.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Kusal Properties Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Electromobile India Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/48840/17340.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three



months from the date hereof the name of M/s. Electromobile India Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. I. D. G. Leasing & Finance Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/57644/17345.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. I. D. G. Leasing & Finance Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Russky Diesel Megapower Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/85145/17350.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Russky Diesel Megapower Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Muskan Music Entertainer Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/115821/17355.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Muskan Music Entertainer Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. M. I. K. Properties Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/32086/17509.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. M. I. K. Properties Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Goel Freight Company Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/102687/17514.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Goel Freight Company Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Onyx Overseas Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/78800/17519.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Onyx Overseas Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Master Forms Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/89291/17524.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three

months from the date hereof the name of M/s. Master Forms Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Schmid Builders Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/99584/17529.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Schmid Builders Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Micro Maritimes (India) Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/75743/17534.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Micro Maritimes (India) Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Surge Metal Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/13876/17539.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Surge Metal Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. T. S. G. Consultants Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/10105/17540-A.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. T. S. G. Consultants Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Lord Krishna Cement Industry Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/12902/17550.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Lord Krishna Cement Industry Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Regency Footwears Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/36105/17555.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Regency Footwears Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Trehan Decors Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/36469/17560.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three

months from the date hereof the name of M/s. Trehan Decors Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Ardee Ivo Engineers Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/39087/17565.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Ardee Ivo Engineers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Asian Overseas & Securities Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/20048/17570.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Asian Overseas & Securities Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. D. C. Advertising and P. R. Communications  
Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/36628/17575.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. D. C. Advertising and P. R. Communications Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Van-Uni Engineering Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/115912/17580.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Van-uni Engineering Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Tricon Overseas Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/57032/17690.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Tricon Overseas Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Anuprav International Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/76680/17894.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Anuprav International Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Oz Link India Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/90612/17899.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three

months from the date hereof the name of M/s. Oz Link India Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Prayog Chit Fund & Financial Company  
Private Limited

New Delhi-I10019, the 17th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/13255/17904.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Prayog Chit Fund & Financial Company Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Kataria Nicast Alloys Private Limited

New Delhi-I10019, the 17th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/118608/17909.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Kataria Nicast Alloys Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sartom Trade Impex Private Limited

New Delhi-I10019, the 17th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/96162/17914.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sartom Trade Impex Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sanya Fashions Private Limited

New Delhi-I10019, the 17th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/84595/17919.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sanya Fashions Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. M. M. Granite Private Limited

New Delhi-I10019, the 17th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/39963/17928.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. M. M. Granite Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Dhauladhar Travel Services Private Limited

New Delhi-I10019, the 17th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/66753/17929.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Dhauladhar Travel Services Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Narain Chem Distributors (India) Private Limited

New Delhi-I10019, the 17th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/14349/17934.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three

months from the date hereof the name of M/s. Narain Chem Distributors (India) Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Apollo Clothiers Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/50340/17939.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Apollo Clothiers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Paramount Technical Services Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/113563/17944.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Paramount Technical Services Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Vidyotamma Vidyapith Science Academy  
Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/105244/17961.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Vidyotamma Vidyapith Science Academy Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Jaimata Credit & Holdings Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/46659/17964.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Jaimata Credit & Holdings Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sonali Builders Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/82481/18039.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sonali Builders Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Ratra Leasing & Finance Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/53981/18059.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Ratra Leasing & Finance Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Cheerworth Estate Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/65379/18064.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three

months from the date hereof the name of M/s. Cheerworth Estate Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Buland Cement Works Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/45061/18069.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Buland Cement Works Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Bimal Synthetics Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/43266/18219.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Bimal Synthetics Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Titan Appliances Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/41748/18134.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Titan Appliances Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Lotus Infotech Solutions (India) Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/102421/18139.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Lotus Infotech Solutions (India) Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Rajdhani Foods Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/52711/18144.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Rajdhani Foods Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Mars Aviation Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/92128/18154.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Mars Aviation Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Amgrow Finance & Investment Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/46199/18149.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Amgrow Finance & Investment Private Limited unless cause is shown

to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Rajdhani Plants Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/77314/18159.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Rajdhani Plants Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Karnaliya Leasing & Finance Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/50985/18422.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Karnaliya Leasing & Finance Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Ras Data Products Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/50958/18425.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Ras Data Products Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Jimmy Mohan Chits Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/50973/18428.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the

Companies Act, 1956 that the name of M/s. Jimmy Mohan Chits Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Kasunwala Liquid & Chemicals Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/66646/18434.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Kasunwala Liquid & Chemicals Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Vatsa Traders Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/18672/18437.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Vatsa Traders Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. I. C. A. Exports Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/73956/18452.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. I. C. A. Exports Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Lakhani Financial Services Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/68881/18461.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the

Companies Act, 1956 that the name of M/s. Lakhani Financial Services Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. S. S. Cargo N Courier Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/63402/18464.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. S. S. Cargo N Courier Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Lion King Exports Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/63053/18467.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Lion King Exports Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Broadway Business Centre (India)  
Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/63461/18470.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Broadway Business Centre (India) Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Saraka Trading (India) Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/9535/18473.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Saraka Trading (India) Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Richland Global Trading Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/16987/18476.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Richland Global Trading Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Kafila Trading Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/16073/18479.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Kafila Trading Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Zero In Communication Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/34929/18500.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Zero In Communication Private Limited has this day been struck off



from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Kol Set Engineering Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/18427/18503.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Kol Set Engineering Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Narendra Construction Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/18047/18506.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Narendra Construction Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. B. C. F. Chit Fund Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/18418/18509.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. B. C. F. Chit Fund Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. M. G. Informatics Systems Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/21816/18512.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the

Companies Act, 1956 that the name of M/s. M. G. Informatics Systems Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Black Bird India Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/21685/18515.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Black Bird India Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Kritika Holdings Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/65807/18551.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Kritika Holdings Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Byte Electronics Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/34334/18554.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Byte Electronics Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Romit Electronics Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/34208/18557.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Romit Electronics Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Mansar Carriers Ex-Servicemen Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/34969/18560.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Mansar Carriers Ex-Servicemen Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Kaks and Babs Leasing and Finance  
Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/34626/18563.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Kaks and Babs Leasing and Finance Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Angad Engineering Enterprises Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/17799/18571.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Angad Engineering Enterprises Private Limited has this day been

struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Delhi Hi Rise Realty Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/15215/18572.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Delhi Hi Rise Realty Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Y. D. Puri & Sons Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/15021/18575.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Y. D. Puri & Sons Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Aquatech International Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/82483/18597.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Aquatech International Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Dishu Chits Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/95559/18607.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Dishu Chits Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Ruckoo Chits Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/30331/18623.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Ruckoo Chits Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Davis Chits Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/05/30764/18627.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Davis Chits Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Speedline Couriers Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/97163/18632.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three

months from the date hereof the name of M/s. Speedline Couriers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Promptline Couriers Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/97165/18637.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Promptline Couriers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Super Signages Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/125261/18697.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Super Signages Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. R. K. G. Chits Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/05/35168/18702.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. R. K. G. Chits Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. G. K. Chit Fund Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/24141/18707.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. G. K. Chit Fund Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Righttime Couriers Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/97166/18712.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Righttime Couriers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Tejbandhu Farms Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/85550/18717.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Tejbandhu Farms Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Voila I. T. Solutions Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/102475/18722.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three

months from the date hereof the name of M/s. Voila I. T. Solutions Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Relax Air Conditioner (India) Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/29227/18727.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Relax Air Conditioner (India) Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. A. S. Rihal & Co. Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/8020/18732.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. A. S. Rihal & Co. Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Babadeep Chit Fund Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/05/33773/18737.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Babadeep Chit Fund Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Dharamdeep Chits Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/05/31474/18742.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Dharamdeep Chits Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Anugreh Chit Fund Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/45685/18747.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Anugreh Chit Fund Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Advance P. V. C. Profiles (India) Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/42586/18752.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Advance P. V. C. Profiles (India) Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Abhishank Chits Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/33398/18757.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three

months from the date hereof the name of M/s. Abhishank Chits Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Oval Chits Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/19132/18762.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Oval Chits Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Avil Chits Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/14010/18767.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Avil Chits Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Asiaget Commerce Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/99974/18772.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Asiaget Commerce Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Divikay Electronics Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/28246/18777.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Divikay Electronics Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Kullenberg Pawan Shakti (India) Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. SES 2003/560(5)/55/30708/18866.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Kullenberg Pawan Shakti (India) Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Genius Toys & Games Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/89851/18881.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Genius Toys & Games Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Om Shree Credits Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/44745/19016.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of

the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Om Shree Credits Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Momentum Marketing Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/122973/19111.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Momentum Marketing Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Guinea Cosmetics Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/58490/19149.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Guinea Cosmetics Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Geetanjali Leasing & Finance Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/33627/19170.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Geetanjali Leasing & Finance Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Khosla Trading & Holding Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/33457/19173.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Khosla Trading & Holding Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. M. Ram Chandani Chit Fund Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/33955/19174.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. M. Ram Chandani Chit Fund Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Hardy's Pest Control Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/33831/19177.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Hardy's Pest Control Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Skyvision Advertising Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/56825/19180.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Skyvision

Advertising Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Aicon Consultants Engineer Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/33810/19183.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Aicon Consultants Engineer Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Rosefield Developers Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/33901/19186.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Rosefield Developers Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Modern Offset Works Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/33147/19189.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Modern Offset Works Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. C. P. Kukreja Architects Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/33766/19192.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. C. P. Kukreja Architects Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Suhag Saree Kendra Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/33519/19195.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Suhag Saree Kendra Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Navin Transporters Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/33959/19198.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Navin Transporters Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Polygon Processes Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/33632/19201.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Polygon

Processes Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Flabags India Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/33276/19204.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Flabags India Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. M. N. Electro Comp. Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/33114/19207.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. M. N. Electro Comp. Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Kay Bee Autoplast Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/33362/19222.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Kay Bee Autoplast Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana



In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Fateh Chit Fund Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/33452/19228.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Fateh Chit Fund Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Horizen Estates Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/33895/19231.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Horizen Estates Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Wonder Properties Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/33903/19234.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Wonder Properties Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Lalcon Growth Fund Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/33707/19237.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Lalcon Growth

Fund Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Proserve Management Consultancy Services  
Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/33363/19270.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Proserve Management Consultancy Services Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Panika Trading and Estate Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/14151/19273.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Panika Trading and Estate Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Hima Plasto Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/56703/19276.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Hima Plasto Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Crocus Merchants Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/56285/19279.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Crocus Merchants Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Open Systems & Solutions Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/56265/19285.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Open Systems & Solutions Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Mediscan Services Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/56424/19291.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Mediscan Services Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. V. A. Tech International Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/16108/19400.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. V. A. Tech

International Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Dasmesh Chit Fund & Trading Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/16321/19403.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Dasmesh Chit Fund & Trading Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Saboo Properties Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/16690/19406.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Saboo Properties Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Venus Chits Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/16969/19410.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Venus Chits Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Aastha Consultants Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/16212/19412.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Aastha Consultants Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Limpun Sales Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/16621/19415.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Limpun Sales Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Di Optics Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/16410/19418.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Di Optics Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Accurate Tubes Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/16081/19421.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Accurate

Tubes Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Rab Consultants Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/16795/19424.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Rab Consultants Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. R. M. Water Seal Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/16361/19442.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. R. M. Water Seal Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. R. M. Automotive Pumps Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/16462/19445.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. R. M. Automotive Pumps Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Insys (India) Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/16592/19448.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Insys (India) Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Mathur Vaisya Chit Fund & Finance  
Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/16827/19451.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Mathur Vaisya Chit Fund & Finance Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Munjal India Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/74284/19472.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Munjal India Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Nandi Products Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/58866/19540.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the

Companies Act, 1956 that the name of M/s. Nandi Products Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. M. P. G. Engineering Technologies Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/58639/19543.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. M. P. G. Engineering Technologies Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Yari Leasing Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/30463/19549.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Yari Leasing Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Ganesh Exports Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/66104/19826.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Ganesh Exports Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. G. P. Financiers Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/33750/19925.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. G. P. Financiers Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. O. B. T. Consultants Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/106339/20017.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. O. B. T. Consultants Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Vanish Overseas Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/68352/20022.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Vanish Overseas Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Shivani Trade Links Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/80115/20032.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shivani Trade

Links Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Prajat Finance Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/76512/20037.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Prajat Finance Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Bata Investments Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/65631/20042.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Bata Investments Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. F. C. S. Sugar Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/93043/20047.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. F. C. S. Sugar Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. R. K. N. Educational Institute Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/05/34085/20052.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. R. K. N. Educational Institute Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Technomed Systems Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/19061/20057.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Technomed Systems Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Vinkay Metal & Minerals Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/49086/20062.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Vinkay Metal & Minerals Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Multibhumi Projects and Developments  
Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/05/33542/20072.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of

the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Multibhumi Projects and Developments Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Krofta Industrial System Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/15549/20208.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Krofta Industrial System Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Ganpati Chit Fund Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/17700/20210.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Ganpati Chit Fund Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Dilbagh Builders Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/17175/20211.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Dilbagh Builders Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Kraft Leather & General Exports Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/65513/20214.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Kraft Leather & General Exports Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Agora Finvest Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/65482/20217.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Agora Finvest Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Vristi Chit Fund & Finance Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/17879/20223.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Vristi Chit Fund & Finance Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Alson Chits Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/32599/20303.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Alson Chits

Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Ganga General Stores Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/05/34004/20306.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Ganga General Stores Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Carbi Chemoils Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/52149/20309.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Carbi Chemoils Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Divya Finvest Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/60670/20312.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Divya Finvest Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Jaycee Automobiles Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/60159/20315.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Jaycee Automobiles Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Bajrang Builders Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/55866/20318.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Bajrang Builders Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Stuti Facilities Services Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/121914/20701.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Stuti Facilities Services Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Air Perfect Instruments Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/28776/20961.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Air Perfect

Instruments Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. S. P. Herbochems Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/62612/20967.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. S. P. Herbochems Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Somon Food & Packaging Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/62674/20970.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Somon Food & Packaging Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Lucknow Paper & Allied Company Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/19990/20973.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Lucknow Paper & Allied Company Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana



In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. COCO Finlease Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/73280/20978.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. COCO Finlease Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Ratika Chits Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/05/31046/21090.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Ratika Chits Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Shafield Chits Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/05/31062/21095.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Shafield Chits Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Fabtech Apparels India Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/52921/21099.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Fabtech Apparels

India Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Pradhan Power Technologies Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/84890/21250.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Pradhan Power Technologies Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sivadasi Trading & Investment Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/13623/21968.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sivadasi Trading & Investment Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Eurotek Impex Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/35347/22505.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Eurotek Impex Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Rups Packing Industry Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/94489/22513.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Rups Packing Industry Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Nardeep Finlease & Construction Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/59262/22518.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Nardeep Finlease & Construction Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Black & White Systems Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/59209/22521.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Black & White Systems Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Canny Shoes Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/59037/22524.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the

Companies Act, 1956 that the name of M/s. Canny Shoes Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Earth Wind Tours (India) Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/54901/22527.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Earth Wind Tours (India) Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Kahali Metals Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/59544/22530.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Kahali Metals Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Shushila Packers Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/59170/22533.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Shushila Packers Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Bawa Aviation and Maintenance Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/59473/22536.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Bawa Aviation and Maintenance Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. P. K. Loom Tex Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/59354/22539.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. P. K. Loom Tex Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Express Credits Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/35311/22542.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Express Credits Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Asquire Computers Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/59588/22545.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Asquire

Computers Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Azra Telecommunication Systems Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/60085/22744.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Azra Telecommunication Systems Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. A. P. G. Impex Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/111520/28027.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. A. P. G. Impex Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Ganganagar Dairy Farm Private Limited

Jaipur, the 4th September 2006

No. ROC/JPR/560/5695/1284.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at after expiry of three months from the date hereof the name of M/s. Ganganagar Dairy Farm Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Bansi Paharpur Stones Private Limited

Jaipur, the 7th September 2006

No. ROC/JPR/560/13553/1312.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at after expiry of three months from the date hereof the name of M/s. Bansi Paharpur Stones Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. H. J. Rubber Private Limited

Jaipur, the 7th September 2006

No. ROC/JPR/560/14104/1328.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at after expiry of three months from the date hereof the name of M/s. H. J. Rubber Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Marwar Computers Private Limited

Jaipur, the 7th September 2006

No. ROC/JPR/560/13546/1316.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at after expiry of three months from the date hereof the name of M/s. Marwar Computers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Suman Autobuild (India) Private Limited

Jaipur, the 12th September 2006

No. ROC/JPR/560/14486/1385.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at after expiry of three months from the date hereof the name of M/s. Suman Autobuild (India) Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Mehfil Cassettes Private Limited

Jaipur, the 7th September 2006

No. ROC/JPR/560/13128/1320.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at after expiry of three months from the date hereof the name of M/s. Mehfil Cassettes Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Patodi Motors Private Limited

Jaipur, the 19th September 2006

No. ROC/JPR/560/21196/1432.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at after expiry of three months from the date hereof the name of M/s. Patodi Motors Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Micron Minechem Private Limited

Jaipur, the 7th September 2006

No. ROC/JPR/560/14335/1324.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at after expiry of three months from the date hereof the name of M/s. Micron Minechem Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Stainlo Steel Rolling Mills Private Limited

Jaipur, the 19th September 2006

No. ROC/JPR/560/10168/1436.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at after expiry of three months from the date hereof the name of M/s. Stainlo Steel Rolling Mills Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Jaldhara Pipes and Plastics Private Limited

Jaipur, the 19th September 2006

No. ROC/JPR/560/10775/1440.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at after expiry of three months from the date hereof the name of M/s. Jaldhara Pipes and Plastics Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Anil Carpets Private Limited

Jaipur, the 19th September 2006

No. ROC/JPR/560/10551/1444.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at after expiry of three months from the date hereof the name of M/s. Anil Carpets Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Poshok Fabrics Private Limited

Jaipur, the 19th September 2006

No. ROC/JPR/560/10377/1448.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at after expiry of three months from the date hereof the name of M/s. Poshok Fabrics Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. R. G. Colour Lab Private Limited

Jaipur, the 19th September 2006

No. ROC/JPR/560/16768/1458.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at after expiry of three months from the date hereof the name of M/s. R. G. Colour Lab Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Peacock Infrastructure Limited

Jaipur, the 19th September 2006

No. ROC/JPR/560/11218/1426.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at after expiry of three months from the date hereof the name of M/s. Peacock Infrastructure Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Popular Packings Private Limited

Jaipur, the 19th September 2006

No. ROC/JPR/560/1952/1466.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at after expiry of three months from the date hereof the name of M/s. Popular Packings Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sibley Investment Company

Mumbai-400002, the 18th September 2006

No. 24089/560/5.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sibley Investment Company unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the register and said company will be dissolved.

P. K. GAICHOR  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Evans Investment & Trading Company

Mumbai-400002, the 18th September 2006

No. 23785/560/7.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Evans Investment & Trading Company

unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the register and said company will be dissolved.

P. K. GAICHOR  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Greensboro Investment Company

Mumbai-400002, the 18th September 2006

No. 24082/560/8.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Greensboro Investment Company unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the register and said company will be dissolved.

P. K. GAICHOR  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Gandhari Investment Company

Mumbai-400002, the 18th September 2006

No. 24078/560/9.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Gandhari Investment Company unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the register and said company will be dissolved.

P. K. GAICHOR  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sybron Investment Company

Mumbai-400002, the 18th September 2006

No. 24090/560/9.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sybron Investment Company unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the register and said company will be dissolved.

P. K. GAICHOR  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the  
following Companies

Mumbai-400002, the 25th September 2006

No. 560(5)/2005.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following Companies have this day been struck off from the register of the Registrar of Companies and the said Companies are dissolved :—

Sl. No.	Regn. No.	Name of Company
1	2	3
1.	3853	M/s. R. S. Dusaj & Company Private Limited
2.	3938	M/s. Bharat Tool Mfg. Co. Private Limited
3.	4742	M/s. Patel Electric Company Private Limited
4.	5608	M/s. Spectrum (India) Private Limited
5.	6555	M/s. Mouj Parkashan Private Limited
6.	6556	M/s. Peerless Publicity Company Private Limited
7.	6845	M/s. Kusumgar (Overseas) Private Limited
8.	6971	M/s. Mistry Estates Private Limited
9.	8089	M/s. Eastern Card Clothing Company Private Limited
10.	8162	M/s. Bhavanidas Gangadas & Co. Private Limited
11.	8631	M/s. Castlemuir Private Limited
12.	9799	M/s. Mercury Iron & Steel Company Private Limited
13.	11161	M/s. Dharam Singh Avtar Singh (Finance) Private Limited
14.	11339	M/s. Syncoma Laboratories Private Limited
15.	11345	M/s. R. G. Keswani & Co. Private Limited
16.	11525	M/s. Baroda Containers Private Limited
17.	11627	M/s. Cipco Pulverisers Private Limited
18.	11711	M/s. The Eastern Electric and Engineering Company Private Limited
19.	11855	M/s. Fyrfo Private Limited
20.	12064	M/s. Ravi Udaya Vijaya Photo Litho Offset Works Private Limited

1	2	3
21.	12620	M/s. Spacon Electricals Private Limited
22.	12679	M/s. Modern Family Planning Products Limited
23.	12755	M/s. Hepack Private Limited
24.	12807	M/s. Stressed Concrete Construction Private Limited
25.	12916	M/s. Gohil Brothers Private Limited
26.	13019	M/s. Kitchen Private Limited
27.	13076	M/s. Test Equipment (Electrical) Private Limited
28.	13250	M/s. Shree Ashwin & Company (Mining) Private Limited
29.	13310	M/s. Wood Wool Private Limited
30.	13442	M/s. Ambarnath Silk Mills Private Limited
31.	14102	M/s. Samarth Paper & Board Mills Private Limited
32.	14160	M/s. Prabhat Oil Industries Private Limited
33.	14323	M/s. Environmental Investments (India) Private Limited
34.	14627	M/s. Ever Print Duplicators Private Limited
35.	14716	M/s. Vinodrai Manilal & Company Private Limited
36.	14748	M/s. Speciality Valves Private Limited
37.	15048	M/s. Prashant Exports Private Limited
38.	15197	M/s. Movie Finance Company Private Limited
39.	15208	M/s. Khanna Plastics and Chemicals Private Limited
40.	15307	M/s. J. Hardcore & Company Private Limited
41.	15596	M/s. The Bhaya Affilites Private Limited
42.	16050	M/s. F. R. Engineers Private Limited
43.	16246	M/s. Onys Engineers Private Limited
44.	16289	M/s. Mahavir Refractories Private Limited
45.	16801	M/s. Swastik Ispat Limited
46.	16865	M/s. Neelkanth Investments Private Limited

1	2	3
47.	16905	M/s. Aditya Advertising & Marketing Services Private Limited
48.	17026	M/s. Cenevac Engineering Private Limited
49.	17048	M/s. Three M Silicons & Chemicals Private Limited
50.	17109	M/s. Lamy Electronics Private Limited
51.	17214	M/s. Jyotir Malt Products Private Limited
52.	17330	M/s. Sesh Trade Links Private Limited
53.	17801	M/s. Khyber Catering Consultants Private Limited
54.	17847	M/s. Archis Construction and Engineering Private Limited
55.	17913	M/s. Techno Paper India Limited
56.	18024	M/s. Neeta Exports Private Limited
57.	18152	M/s. Well Packed Packaging Private Limited
58.	18372	M/s. Mohit Agro Engineering Industries Private Limited
59.	18450	M/s. Shree K. K. S. Textiles Private Limited
60.	18728	M/s. Neptune Investments Private Limited
61.	18755	M/s. Mukesh Movies Private Limited
62.	18770	M/s. Daulat Shipping and Investment Private Limited
63.	18792	M/s. Piramal Synthetics Private Limited
64.	18805	M/s. Cands Exports Private Limited
65.	18806	M/s. Cands Marketing Private Limited
66.	19049	M/s. Raj Roll Private Limited
67.	19051	M/s. R. M. D. C. Packaging Private Limited
68.	19083	M/s. Standard Chemtex Private Limited
69.	19417	M/s. B. C. L. Overseas Export Private Limited
70.	19727	M/s. Orkay Investments Limited
71.	19851	M/s. Jaycee Drugs and Pharmaceuticals Private Limited
72.	19858	M/s. I & M Ferromet Private Limited
73.	20305	M/s. Theur Stud and Agricultural Farm Private Limited

1	2	3	1	2	3
74.	20368	M/s. Sadhana Knitters Private Limited	98.	23527	M/s. Rashid Steels Private Limited
75.	20375	M/s. Doshi Diamonds Private Limited	99.	23548	M/s. Parbjot Textiles Private Limited
76.	21018	M/s. Algar Packages Private Limited	100.	23629	M/s. M. J. P. Finance and Consultancy Private Limited
77.	21518	M/s. Chirag Agencies Private Limited	101.	24034	M/s. Uhuru Investments Private Limited
78.	21555	M/s. Chaitra Farms & Investments Private Limited	102.	24101	M/s. Sufna Salt Private Limited
79.	21610	M/s. Overseas Employment and Export Promotion Corporation of Maharashtra Limited	103.	24231	M/s. Avis Engineering Private Limited
80.	21655	M/s. J. S. Plastics Private Limited	104.	24233	M/s. Adityasham Exporters & Importers Private Limited
81.	21920	M/s. Containers Securing Systems Private Limited	105.	24267	M/s. Mytol Petroleums Private Limited
82.	21921	M/s. A. Mangaldas Apparels Private Limited	106.	24291	M/s. Balaji Pens Private Limited
83.	21978	M/s. Dhamankar Brothers Investment Company Limited	107.	24294	M/s. G. N. Finance Private Limited
84.	21979	M/s. M. D. Investment Company Limited	108.	24299	M/s. Suraj Kiran Fabrics Private Limited
85.	21980	M/s. Kumud Investment Company Limited	109.	24381	M/s. Mascot Processes and Consultants Private Limited
86.	21981	M/s. Ravindra Investment Company Limited	110.	24633	M/s. Preformed Insulation Private Limited
87.	22060	M/s. H. J. Trading and Investments Private Limited	111.	24667	M/s. Speedex Data Processing Private Limited
88.	22061	M/s. K. H. Trading and Investment Private Limited	112.	24730	M/s. Gupta Trade & Spares Private Limited
89.	22062	M/s. J. C. Trading and Investment Private Limited	113.	24887	M/s. Peninsular Shipping Private Limited
90.	22063	M/s. C. K. Trading and Investment Private Limited	114.	25089	M/s. Aditya Drug House Private Limited
91.	22210	M/s. Innoventure Business Machines Private Limited	115.	25238	M/s. Shah Sons Agro Products and Trading Co. Private Limited
92.	22557	M/s. New Whitex Industries Private Limited	116.	25267	M/s. Kayvees Food Products Limited
93.	22790	M/s. Gaarchem Mineral Industries Private Limited	117.	25437	M/s. Pearl Holding Private Limited
94.	22817	M/s. Brij Chemicals Private Limited	118.	25631	M/s. Ratnagiri Wires Private Limited
95.	23093	M/s. Devadit Mangaldas Investment Company (Company with Unlimited Liability)	119.	25654	M/s. Precision Strips Private Limited
96.	23440	M/s. Maxvik Steel Melting Industries Private Limited	120.	25944	M/s. Asha Fertilizers Private Limited
97.	23519	M/s. Steps Engineers Private Limited	121.	26344	M/s. Widfield Chemicals & Metals Private Limited
			122.	26378	M/s. Super Hits Music Private Limited
			123.	26627	M/s. Jehangir Investments and Consultants Private Limited
			124.	26677	M/s. Vishal Automobiles Private Limited
			125.	26716	M/s. Hope Holdings and Trading Co. Private Limited
			126.	26740	M/s. Panchali Investments Private Limited



1	2	3
127.	26741	M/s. Monalisa Investments Private Limited
128.	26763	M/s. Jitpan Holdings Private Limited
129.	26764	M/s. Orsi Holdings Private Limited
130.	26765	M/s. Bomsi Holdings Private Limited
131.	26766	M/s. Mannu Holdings Private Limited
132.	26843	M/s. Automax Computers Private Limited
133.	26884	M/s. Yash Pharma-Chem (Bombay) Private Limited
134.	26957	M/s. Daftary Investments Private Limited
135.	26993	M/s. Rathu Re-Rolling Mills (Nasik) Private Limited
136.	27014	M/s. Iponita Investments Limited
137.	27121	M/s. Shavana Builders Private Limited
138.	27441	M/s. Somkumar Carbon Paper Private Limited
139.	27769	M/s. R. C. Mechanical Engineering Company (Bombay) Private Limited
140.	27832	M/s. Nordata Computers Private Limited
141.	27878	M/s. Insitu Geotechniques Private Limited
142.	27934	M/s. Shiva Machineries Private Limited
143.	27947	M/s. Vasudhara Plastics Private Limited
144.	28405	M/s. Sangeeta Trading Impex Limited
145.	28430	M/s. Vrinda Exports Limited
146.	28459	M/s. Premmanohar Investment & Finance Co. Private Limited
147.	28487	M/s. Rigimax Machine Tools Private Limited
148.	28497	M/s. Rajani Engineering Consultants Private Limited
149.	28530	M/s. Agronic Instruments Private Limited
150.	28532	M/s. Avon Colours & Chemicals Private Limited
151.	28603	M/s. Intraco Trading Private Limited
152.	28614	M/s. Trishul Sales (India) Private Limited
153.	28684	M/s. Ricci (India) Private Limited
154.	28702	M/s. M. J. P. Computer Consultancy Services Limited
155.	28832	M/s. Shivdasani Investment Private Limited

1	2	3
156.	29023	M/s. Nahush Textile Industries Private Limited
157.	29052	M/s. Hub Investments Private Limited
158.	29235	M/s. Ratanlal Investments and Pictures Private Limited
159.	29304	M/s. Orkay Man-Made Textiles Private Limited
160.	29305	M/s. Sea Green Textiles Private Limited
161.	29306	M/s. Paramount Synthetics Limited
162.	29307	M/s. Mehra Synthetics Limited
163.	29308	M/s. Orlando Synthetic Industries Limited
164.	29319	M/s. Orkay International (Textile) Private Limited
165.	29420	M/s. Enpeekay Textiles & General Industries Private Limited
166.	29500	M/s. Louis Silk Mills Private Limited
167.	29644	M/s. J. D. Sales Limited
168.	29788	M/s. Sainath Polyester Private Limited
169.	29896	M/s. Sheshaw Investments Private Limited
170.	30149	M/s. James Synthetics and Holdings Private Limited
171.	30150	M/s. Sachind Synthetic & Holdings Private Limited
172.	30151	M/s. Transo Textiles and Investments Private Limited
173.	30152	M/s. Vinata Textiles & Investment Private Limited
174.	30528	M/s. Devaki Saran Holdings Company Private Limited
175.	30596	M/s. Prime Foods (India) Private Limited
176.	30676	M/s. Daruwalla Dastur Thanwala Consultants Private Limited
177.	30702	M/s. Omega Packaging Private Limited
178.	30857	M/s. Petrushka Finance Private Limited
179.	30858	M/s. Ross Murarka Leasing Company Private Limited
180.	30859	M/s. Abhushan Leasing Co. Private Limited
181.	30913	M/s. Maple-Leaf Synthetics Limited

1	2	3
182.	30914	M/s. Sungold Synthetics Textiles Limited
183.	31074	M/s. Roly Investments Private Limited
184.	31130	M/s. Mallika Saran Holdings Private Limited
185.	31187	M/s. Brahmhatt Investment Co. Private Limited
186.	31188	M/s. Durafil Investment Co. Private Limited
187.	31192	M/s. Girish Investments Finance Private Limited
188.	31205	M/s. Chemsphere Engineers and Contractors Private Limited
189.	31228	M/s. Countryside Investments and Trading Co. Private Limited
190.	31266	M/s. Arjun Synthetics Limited
191.	31268	M/s. Shishu Synthetics Private Limited
192.	31270	M/s. Tinku Synthetics Private Limited
193.	31275	M/s. Shabu Synthetics Private Limited
194.	31337	M/s. Nike Pharmaceuticals Private Limited
195.	31588	M/s. Silver Arch Investments and Leasing Co. Private Limited
196.	31667	M/s. Jainson Apparels Private Limited
197.	31948	M/s. Wox Sales Private Limited
198.	32204	M/s. Print O Quick Computer Services Private Limited
199.	32290	M/s. Rajania Synthetics Private Limited
200.	32291	M/s. Sachin Transo Private Limited
201.	32608	M/s. Tender Care Cosmetics Limited
202.	32635	M/s. Rasoi Food Products Limited
203.	32663	M/s. Satya-Pusp Finances & Investment Co. Private Limited
204.	32665	M/s. Jedi Wire Flux Private Limited
205.	32763	M/s. Dior De Paris Cosmetics India Limited
206.	32764	M/s. Contessa De Paris Cosmetics (India) Limited
207.	33023	M/s. Supfina Engineering Private Limited
208.	33153	M/s. Chandami Investments & Financing Private Limited

1	2	3
209.	33229	M/s. Harkab Holdings Private Limited
210.	33271	M/s. Classic Drugs Private Limited
211.	33295	M/s. Chhabria Compressor and Allied Services Private Limited
212.	33391	M/s. Solar Inorganic Industries Private Limited
213.	33445	M/s. Space Structural Consultants and Engineers Private Limited
214.	33460	M/s. R & D Multiples (Engineering) Private Limited
215.	33460	M/s. R & D Multiples (Engineering) Private Limited
216.	33517	M/s. Gaurav Oceanic Shipping Limited
217.	33517	M/s. Gaurav Oceanic Shipping Limited
218.	33945	M/s. Micro Silica Private Limited
219.	33980	M/s. Alisha-Schuna Investments Private Limited
220.	33994	M/s. Manish Consultancy Services Private Limited
221.	34001	M/s. Bindal Leasing Private Limited
222.	34167	M/s. K. K. Poonja Chemicals Private Limited
223.	34422	M/s. Sunny Movies (Bombay) Private Limited
224.	34556	M/s. Venc Management Consultants Private Limited
225.	34655	M/s. Insoft Computers Private Limited
226.	34682	M/s. Orion Managements Consulting Group Private Limited
227.	34766	M/s. Multi Impex Private Limited
228.	34942	M/s. Successful Leasing & Financing Limited
229.	35012	M/s. Meridian Printwell Private Limited
230.	35015	M/s. Union Lamps Private Limited
231.	35312	M/s. Konstant Marketing Services Private Limited
232.	35365	M/s. Jedi Food Products Private Limited
233.	35525	M/s. Nirman Ispat Udhog Private Limited
234.	35558	M/s. Dynamix Pla Services Private Limited
235.	35663	M/s. Mono Tex Private Limited

1	2	3
236.	35936	M/s. Navsari Extractions Private Limited
237.	35943	M/s. Amrit Warehousing Co. Private Limited
238.	35945	M/s. Mahatany Builders Private Limited
239.	35963	M/s. Devendra Fabrics Private Limited
240.	36015	M/s. Signet Chemicals Private Limited
241.	36082	M/s. Sidhitvudhi Power Transmission & Electronics Private Limited
242.	36083	M/s. Unique Transformers and Electronics Private Limited
243.	36176	M/s. Chetak Estates Private Limited
244.	36228	M/s. Plastronics India Limited
245.	36479	M/s. Shalimar Maschinen Fabrik Private Limited
246.	36543	M/s. Mahtaney Hotels Private Limited
247.	36574	M/s. Modern Essential Oils and Chemicals Private Limited
248.	36652	M/s. Vimal Salt Petre Private Limited
249.	36661	M/s. Aquarius Management Consultants Private Limited
250.	36748	M/s. Archana Builder Private Limited
251.	36850	M/s. Summer Island Marketing Co. Private Limited
252.	36935	M/s. Dee Cee Trading & Finance Limited
253.	36988	M/s. Slimfast Foods (Bombay) Private Limited
254.	37211	M/s. Evershine Contraction Private Limited
255.	37404	M/s. Imprint Software Private Limited
256.	37468	M/s. Harysons Textiles Private Limited
257.	37502	M/s. Shri Sampada Builders Private Limited
258.	37503	M/s. Vashantosh Chemi Plast Private Limited
259.	37598	M/s. S. K. Nanda Consultants & Engineers Private Limited
260.	37705	M/s. Deejay Woollen Mills Private Limited
261.	37714	M/s. Bergesen D. Y. India Private Limited
262.	37788	M/s. Mittal Road Carriers Private Limited

1	2	3
263.	37930	M/s. Mahavir Business Service Centre Private Limited
264.	38005	M/s. Anurag Engineering Private Limited
265.	38311	M/s. Bahomeha Investment & Financial Consultancy Services Private Limited
266.	38398	M/s. Cino Craft Industries (Bombay) Private Limited
267.	38405	M/s. Rathasha Engineers Private Limited
268.	38408	M/s. Alwayn Vaz Agencies Private Limited
269.	38518	M/s. Gadbornathji Financial Company Private Limited
270.	38571	M/s. Chogyalachel Investments Private Limited
271.	38573	M/s. Ranchoddasji Investments Private Limited
272.	38595	M/s. Aryavrata Petrochem & Allied Industries Limited
273.	38632	M/s. Vishnu Computers & Software Private Limited
274.	38749	M/s. Eskay Investments Private Limited
275.	38750	M/s. Caterdillar Engineering Private Limited
276.	38779	M/s. Ridge Pharmaceuticals Private Limited
277.	38782	M/s. Sainath Electronics Industries Private Limited
278.	38991	M/s. Hanuman Packaging Company Private Limited
279.	39001	M/s. Neo Cast Private Limited
280.	39040	M/s. Kayjay Investment & Financial Consultancy Services Private Limited
281.	39074	M/s. Ruchasom Investments Private Limited
282.	39269	M/s. Preruch Investments Private Limited
283.	39271	M/s. Preash Investments Private Limited
284.	39272	M/s. Preom Investments Private Limited
285.	39323	M/s. Sudarshan Containers Movers Private Limited
286.	39810	M/s. Vinayaka Laminates Private Limited
287.	39964	M/s. Shree Charbhujaji Estates Private Limited

1	2	3
288.	39965	M/s. Natwar Nagar Estates Private Limited
289.	40018	M/s. Sau Anal Constructions Private Limited
290.	40020	M/s. Mod Finance Private Limited
291.	40141	M/s. Dipa Industrial Services Private Limited
292.	40187	M/s. DeeJay Silk Mills (Bombay) Private Limited
293.	40248	M/s. Prime Finance Services Private Limited
294.	40305	M/s. Komal Syntex Private Limited
295.	40309	M/s. Suyuki Engineers Private Limited
296.	40335	M/s. Niyati Properties Private Limited
297.	40382	M/s. Suku Computers Private Limited
298.	40423	M/s. Advanced Diagnostics Private Limited
299.	40461	M/s. Sailesh Trading Company Private Limited
300.	40472	M/s. Kayaar Investment Private Limited
301.	40473	M/s. Aarem Investments Private Limited
302.	40477	M/s. Arundel Investments & Finance Private Limited
303.	40614	M/s. Shree Ramchandra Investments Private Limited
304.	40672	M/s. Manav Tube Udyog Private Limited
305.	40732	M/s. Devhin Trading & Agencies Private Limited
306.	40860	M/s. Pendharkar Ele Mec Works Private Limited
307.	40927	M/s. Mangala Information Services Private Limited
308.	41199	M/s. Tej Prit Impex Private Limited
309.	41408	M/s. Priyal Leasing & Investments Limited
310.	41414	M/s. Amar Farms Private Limited
311.	41497	M/s. Mahajan Synthetics Private Limited
312.	41609	M/s. Snap Auto Rub Private Limited
313.	41749	M/s. Daga Plastics Industries Private Limited
314.	41825	M/s. Suku Digital Private Limited

1	2	3
315.	42033	M/s. Anish Electro Plast Private Limited
316.	42234	M/s. Damayanti Electrical Private Limited
317.	42248	M/s. Pie Exim Private Limited
318.	42265	M/s. Chhotalal Electric Private Limited
319.	42266	M/s. Suku Exports Private Limited
320.	42341	M/s. Techno Water Treatment (India) Private Limited
321.	42356	M/s. Classic Containers Private Limited
322.	42398	M/s. Innovative Appliances Private Limited
323.	42591	M/s. La-Princes Investment & Finance Private Limited
324.	42596	M/s. Mi Casa Investment Finance Private Limited
325.	42851	M/s. Shraddha Laboratories Private Limited
326.	42987	M/s. Vadilal Investment Private Limited
327.	43121	M/s. West Coast Finance Private Limited
328.	43184	M/s. Signet Dye-Chem Private Limited
329.	43297	M/s. Sudama Estate & Builders Private Limited
330.	43529	M/s. Ambrish Fibres Private Limited
331.	43584	M/s. Maulil Electronic Private Limited
332.	43593	M/s. Pro Video (India) Private Limited
333.	43751	M/s. Finespark Electrodes Private Limited
334.	43812	M/s. Bizman Datapro Private Limited
335.	44039	M/s. Vasudevaya Agro & Horticulture Development Private Limited
336.	44081	M/s. Jansamp Trading Private Limited
337.	44146	M/s. Azure Precision Electronics Private Limited
338.	44180	M/s. Purshotamdas madhavani Electronics Private Limited
339.	44657	M/s. Murli Cotton Private Limited
340.	44856	M/s. Gajendra Developers Private Limited
341.	44926	M/s. Conwood Sales Private Limited
342.	45068	M/s. Crystal Mining & Minerals Private Limited
343.	45272	M/s. Vinesh Electricals Private Limited

1	2	3	1	2	3
344.	45378	M/s. Shila Hotels Private Limited	370.	48143	M/s. Deepak Brij Gupta & Consultants Private Limited
345.	45547	M/s. Chamesh Investments Private Limited	371.	48289	M/s. Dynamix Leather Industries Private Limited
346.	45552	M/s. Five Stars Shipmanagement Company Private Limited	372.	48508	M/s. Xanadu Investment Limited
347.	45561	M/s. Cumac Investments Private Limited	373.	48585	M/s. Smi Meta-Yarn Private Limited
348.	45562	M/s. Ashoma Investments Private Limited	374.	48636	M/s. Richland Investments Company Private Limited
349.	45588	M/s. Mridu Paper & Board Industries Private Limited	375.	48736	M/s. Unicorn Financial Services Private Limited
350.	45608	M/s. Bhagwate Business Services Private Limited	376.	48816	M/s. Target Securities and Financial Trust Private Limited
351.	45918	M/s. Biocheck Remedies Private Limited	377.	48983	M/s. Eminent Prints Private Limited
352.	45919	M/s. Special Fruits Private Limited	378.	49248	M/s. West End Clearing and Forwarding Private Limited
353.	45920	M/s. EFDEE Marketing Services Private Limited	379.	49437	M/s. Tack Printers Private Limited
354.	45940	M/s. Renown Plastics Private Limited	380.	49785	M/s. Pee Jay Steels Private Limited
355.	46295	M/s. Intermark Holdings Private Limited	381.	49865	M/s. Sujal Intermediates Private Limited
356.	46381 1	M/s. Advance Marine & Welding Company Private Limited	382.	50108	M/s. Bhairai Foods Private Limited
357.	46385	M/s. Laboratory Suppliers (Bombay) Private Limited	383.	50140	M/s. Gangsons Fabrics Private Limited
358.	46440	M/s. Wen-Don India Limited	384.	50188	M/s. Bhavin Chemical Industries Private Limited
359.	46614	M/s. Garuda Polychem Industries Private Limited	385.	50229	M/s. Paramount Medicos Limited
360.	46934	M/s. Ven-Flo Laboratories Private Limited	386.	50282	M/s. Visaka Exports Imports Private Limited
361.	46939	M/s. Solution Consultants & Management Services Private Limited	387.	50397	M/s. Kap Constructions Private Limited
362.	47327	M/s. Spinner Finance and Leasing Private Limited	388.	50676	M/s. Rajula Trading Company Private Limited
363.	47389	M/s. Rishi Polyfibres and Exim Private Limited	389.	50677	M/s. Gajanan Commercial Enterprises Private Limited
364.	47413	M/s. Motta Estate & Developers Private Limited	390.	50712	M/s. Adme Marketing Private Limited
365.	47472	M/s. Bhooma Graphics Limited	391.	50840	M/s. Nikita Developers Private Limited
366.	47610	M/s. Suku Management Consultancy Services Private Limited	392.	50882	M/s. Kaysons Impex Private Limited
367.	47636	M/s. Weekend Luggage Private Limited	393.	50883	M/s. Doric Estate & Investments Private Limited
368.	47866	M/s. Mayfield Bearings Private Limited	394.	50923	M/s. Etal Management Systems Private Limited
369.	48015	M/s. Amogh Resiplastonic Industries Private Limited	395.	50926	M/s. Abhinav Agro Products Private Limited
			396.	50933	M/s. Vivek Drill Private Limited

1	2	3	1	2	3
397.	50959	M/s. Tasa Glass and Adhesive Industries Private Limited	429.	56412	M/s. Suchita Exports Private Limited
398.	51229	M/s. Markaz Machinery Private Limited	430.	56887	M/s. Pure Helium (Bombay) Private Limited
399.	51686	M/s. Vedant Holding Private Limited	431.	57048	M/s. Shovakar Holding Private Limited
400.	51781	M/s. Omnira Marketing Private Limited	432.	57099	M/s. Sterilng Jewellery Private Limited
401.	51962	M/s. Dhara Constructions Private Limited	433.	57100	M/s. Five Stars Recruitment & Travel Services Private Limited
402.	52380	M/s. Econ Steel Products Private Limited	434.	57151	M/s. Mundhra Textiles Private Limited
403.	52608	M/s. Faze Engineering Private Limited	435.	57221	M/s. Nagarjunsagar Realtors Private Limited
404.	52641	M/s. Pace Marketing Services Private Limited	436.	57339	M/s. Seema Holdiay Homes Private Limited
405.	52748	M/s. Ormax Audio Private Limited	437.	57402	M/s. Littam Jain Consultants Private Limited
406.	53276	M/s. Sanil Chem Industries Private Limited	438.	57408	M/s. Asmita Estate Properties Private Limited
407.	53583	M/s. Little-Star Exports Private Limited	439.	57424	M/s. Vynex Soaps Private Limited
408.	53813	M/s. Technocrat Interlinks Private Limited	440.	57461	M/s. Shaial Shipping Private Limited
409.	54059	M/s. Janta Glass Works Private Limited	441.	57500	M/s. Freya Investment and Leasing Private Limited
410.	54210	M/s. Munir Fabrics Private Limited	442.	57545	M/s. Creative Drugs Private Limited
411.	54243	M/s. Matchless Export Limited	443.	57551	M/s. Panchavati Cement Products Private Limited
412.	54415	M/s. Hager Electro-Plas Limited	444.	57555	M/s. Abhimanyu Metals Private Limited
413.	54567	M/s. Mahashakti Fruit's Conversion and Exports Private Limited	445.	57592	M/s. Satyam Scanning Private Limited
414.	54743	M/s. Orkap Steel Private Limited	446.	57612	M/s. Kosjae Exim Private Limited
415.	54872	M/s. Shakee's Foods Private Limited	447.	57621	M/s. Foremost Systems Private Limited
416.	55602	M/s. Rad Allen Spares Private Limited	448.	57891	M/s. Trimitra Poly Products Private Limited
417.	55780	M/s. Virtue Apparels Private Limited	449.	57909	M/s. Polytech Construction Management Services Private Limited
418.	55789	M/s. Rama Alloys India Limited	450.	58085	M/s. Kanchan Computers Private Limited
419.	55828	M/s. Anuyog Agrofarms Private Limited	451.	58150	M/s. Swehan Exports Private Limited
420.	55873	M/s. Cresendo Erectors Project Private Limited	452.	58197	M/s. Amir Financial Services Private Limited
421.	55908	M/s. Shrilon Synthetics Private Limited	453.	58221	M/s. Nitee Refractories & Insulators Private Limited
422.	56014	M/s. Arjmon Holdings Private Limited	454.	58334	M/s. Muladhar Investments & Trading Company Private Limited
423.	56017	M/s. Pawanam Holdings Private Limited	455.	58488	M/s. Sai Fluxes Private Limited
424.	56020	M/s. Rishling Holdings Private Limited			
425.	56022	M/s. Vintage Holdings Private Limited			
426.	56044	M/s. Pundlikroa Chemicals and Pharmaceuticals Private Limited			
427.	56162	M/s. Ranq Laboratories Private Limited			
428.	56164	M/s. Calibre Computers and Technologies Private Limited			

1	2	3
456.	58557	M/s. Associated Infrastructures (India) Private Limited [C/N]
457.	58715	M/s. Lynson Leasing Private Limited
458.	58767	M/s. Madlax Exim Private Limited
459.	58946	M/s. Saroj Textiles Private Limited
460.	59008	M/s. Agarwal Classes Private Limited
461.	59122	M/s. Mewawala Investments Private Limited
462.	59188	M/s. Protechna Enterprises Private Limited
463.	59247	M/s. Bhoomi Housing Finance Company Limited
464.	59316	M/s. Maharashtra Footwear Components Private Limited
465.	59533	M/s. Pallonji Subsea Offshore Private Limited
466.	59571	M/s. Sayonara Investment Private Limited
467.	59596	M/s. Dev-Dharma Investment and Financial Private Limited
468.	59607	M/s. Rool Opticals Private Limited
469.	59638	M/s. Malati Tambay Vaidya & Associates Private Limited
470.	59657	M/s. Iris Trading and Agencies Private Limited
471.	59669	M/s. Sweman Bearings Private Limited
472.	59695	M/s. Spinner Resorts Private Limited
473.	59713	M/s. Gopaldas Chhoteylal Fabrics Private Limited
474.	59745	M/s. Simba Dyes & Chemicals Private Limited
475.	59757	M/s. Sharmin Traders Private Limited
476.	59758	M/s. Danube Trading and Agencies Private Limited
477.	59892	M/s. Mukand Soviet Engineering Private Limited
478.	60285	M/s. Pamvi Chemical Company Private Limited
479.	60298	M/s. Sukanya Investments Private Limited
480.	60314	M/s. Plastika Investments Private Limited
481.	60895	M/s. Akar Trading and Investments Private Limited

1	2	3
482.	61061	M/s. Bhotte Developers Private Limited
483.	61107	M/s. Mangalmay Investment Private Limited
484.	61156	M/s. Banosa Capital Markets & Holdings Private Limited
485.	61236	M/s. Sudhan Developers Private Limited
486.	61617	M/s. Prashant Overseas Private Limited
487.	61780	M/s. Sheen Packagings Private Limited
488.	61836	M/s. Roalex Bright Bars Private Limited
489.	61863	M/s. Amines & Chemicals (India) Private Limited
490.	61942	M/s. Shri Durga Rolling Private Limited
491.	61962	M/s. Mitesh Electronics Private Limited
492.	61997	M/s. Bulchee Leatherware Private Limited
493.	62259	M/s. Manibhadra Developers Private Limited
494.	62593	M/s. Vishnu Progressive Investment Services Private Limited
495.	62744	M/s. Narhem Chemimetal Private Limited
496.	62857	M/s. Afcons Shareholders Medical Care and Welfare Company Private Limited
497.	62894	M/s. Prabhu Placement Services Private Limited
498.	63004	M/s. Vin Closures Private Limited
499.	63052	M/s. Madhu Writing Instruments Private Limited
500.	63213	M/s. Shree Gurukrupa Audio Video Sales and Services Private Limited
501.	63246	M/s. Chenille Exports (India) Private Limited
502.	63271	M/s. Smart Service Centre Private Limited [C/N]
503.	63349	M/s. Tirubala Exports Private Limited
504.	63373	M/s. Ravi Industrial Bag Manufacturing Company Private Limited
505.	63374	M/s. Anil Waterproof Products Private Limited
506.	63584	M/s. Florence Petrochemicals Private Limited
507.	63977	M/s. Afcons Employees Health Care and Welfare Company Private Limited

1	2	3
508.	64149	M/s. Jiwani Eximp Private Limited
509.	64239	M/s. Bunts Investments Private Limited
510.	64302	M/s. Deep Jyot Pharm Services Private Limited
511.	64599	M/s. Spinner Exim Private Limited
512.	64870	M/s. S. M. Picolor Limited
513.	65158	M/s. Momaya Electricals & Electronics Private Limited
514.	65161	M/s. My Choice Marketing Private Limited
515.	65175	M/s. Malde Electricals & Electronics Private Limited
516.	65199	M/s. Allrite Stationery Manufacturers Private Limited
517.	65218	M/s. Manikant Investment and Finance Private Limited
518.	65225	M/s. Sameer Control & Automation Private Limited
519.	65237	M/s. Vyapti Marketing Services Private Limited
520.	65310	M/s. P. S. Mohite Constructions Private Limited
521.	65359	M/s. Blossom Computer Stationery Private Limited
522.	65518	M/s. Tanmay Import Export Private Limited
523.	65617	M/s. Rimbeni Impex Private Limited
524.	65886	M/s. Anand Erectors Private Limited
525.	65886	M/s. Anand Erectors Private Limited
526.	66103	M/s. Sagar Solvents Private Limited
527.	66253	M/s. Karishma Teak Plantations Private Limited
528.	66605	M/s. S. V. Mani Consultants Private Limited
529.	66753	M/s. Prahladka Securities Private Limited
530.	67085	M/s. Arundeeep & Chheda Developers Private Limited
531.	67212	M/s. Kaksha Computech Private Limited
532.	67230	M/s. Microzyme (India) Private Limited
533.	67253	M/s. Perfect Plantations Private Limited
534.	67391	M/s. Fluidhose Systems (India) Private Limited

1	2	3
535.	67467	M/s. Shanti Prakash Impex Private Limited
536.	67622	M/s. Pushpam Print & Pack Private Limited
537.	67692	M/s. Shri Sukhkarta Finance & Leasing Private Limited
538.	67809	M/s. Laxmi Impex (Bombay) Private Limited
539.	68003	M/s. Prime Coats (India) Private Limited
540.	68219	M/s. Sanam Enterprises Private Limited
541.	68342	M/s. Atomic Vacuum Company (India) Private Limited
542.	68417	M/s. Mardia Farms Limited
543.	68545	M/s. Little Traders Private Limited [C/N]
544.	68688	M/s. Arita Chemicals Private Limited
545.	68770	M/s. Sukansha Chemical Company Limited
546.	68936	M/s. Richmor Traders & Investors Private Limited
547.	68993	M/s. Satara Soya Limited
548.	69053	M/s. Sneha Bulk Carriers Private Limited
549.	69056	M/s. Safari Bleachers & Dyers Private Limited
550.	69188	M/s. Quantum Dyexpo Private Limited
551.	69429	M/s. Swaraat Photo Me Services Private Limited
552.	69619	M/s. Sheron Care Pharma Private Limited
553.	69649	M/s. Trishul Financial Services Private Limited
554.	69867	M/s. Eugene Marketing Limited
555.	69928	M/s. Vishal Credit Services Private Limited
556.	69936	M/s. Daga Metal Profiles Private Limited
557.	70257	M/s. Paramount Poly-Pack Private Limited
558.	70289	M/s. Radha Holdings Private Limited
559.	70297	M/s. Manna Culture Products Private Limited
560.	70754	M/s. Parekh Exim Private Limited
561.	70768	M/s. HTE Infotech (India) Limited
562.	70834	M/s. Temple Granites Private Limited
563.	71177	M/s. Spectral Aluminium Private Limited



1	2	3	1	2	3
564.	71258	M/s. Padmini Moulds & Plastics Private Limited	590.	73006	M/s. Vipin Garments Private Limited
565.	71408	M/s. Cheniscys (India) Private Limited	591.	73015	M/s. Rama Clothing Company Private Limited
566.	71429	M/s. Sumang Ceramics Private Limited	592.	73397	M/s. Rokita Investment & Finance Co. Private Limited
567.	71515	M/s. Biogenesis Pharmaceuticals (Bombay) Private Limited	593.	73483	M/s. Enkay Home Finance Private Limited
568.	71592	M/s. Ajay Garage Private Limited	594.	73884	M/s. Maxwealth Strategic Services Private Limited
569.	71660	M/s. Tech-Mark Exim India Private Limited	595.	73903	M/s. Flamingo Marketing Private Limited
570.	71727	M/s. Rungta Fintrade Private Limited	596.	74072	M/s. Dura Tiles Private Limited
571.	71878	M/s. Endee Construction and Developers Private Limited	597.	74215	M/s. Deogiri Ecopan India Private Limited {c/n}
572.	71901	M/s. Sheimar Seafoods Limited	598.	74227	M/s. Fort Land Finance & Trade Private Limited
573.	71976	M/s. Rhinestone Chemicals (India) Private Limited	599.	74239	M/s. Fortunemakers Investments Private Limited
574.	72037	M/s. Radiant Liquid Transport Company Private Limited	600.	74437	M/s. Utkarsha Farms Private Limited
575.	72074	M/s. Grapnel Investment Company Private Limited	601.	74474	M/s. Aminajar Builders Private Limited
576.	72136	M/s. Bombino Investments Private Limited	602.	74516	M/s. Hemal Garments Private Limited
577.	72215	M/s. Falashree Farming Private Limited	603.	74519	M/s. Praveen Garments Private Limited
578.	72391	M/s. Auckland Finance & Investments Private Limited	604.	74522	M/s. Grit. Estate Developers Private Limited
579.	72408	M/s. Neelkanth Yarns Private Limited	605.	74775	M/s. Andromeda Ecosystems Private Limited
580.	72431	M/s. Everlast Extrusion Private Limited	606.	74958	M/s. Shivshanker Paper Products Private Limited
581.	72462	M/s. Hitkari Moulded Carpets Private Limited	607.	75130	M/s. Sawant Plantations Private Limited
582.	72568	M/s. Aatur Securities Private Limited	608.	75147	M/s. Treasure Properties Private Limited
583.	72625	M/s. Taj Oasis Hotels Private Limited	609.	75148	M/s. April Love Properties Private Limited
584.	72626	M/s. Taj G. C. C. Air Caterers Private Limited	610.	75149	M/s. Arrow Properties Private Limited
585.	72637	M/s. Riddhi Weaves & Hues Private Limited	611.	75150	M/s. Nerul Investment Private Limited
586.	72638	M/s. Mehta Textile Engineers Private Limited	612.	75179	M/s. Camdent Trading Private Limited
587.	72766	M/s. Effluent Treatment Company (India) Private Limited	613.	75214	M/s. Grist Finvest Private Limited
588.	72833	M/s. Richmore Securities Private Limited	614.	75355	M/s. Jainsons Finvest Limited
589.	72931	M/s. Hi-Tech Finvest & Leasing Private Limited	615.	75569	M/s. Fitsit Properties Private Limited
			616.	75570	M/s. Nora Properties Private Limited
			617.	75636	M/s. Kruti Print Productions Private Limited
			618.	75637	M/s. Lipi Communications Private Limited

1	2	3
619.	75722	M/s. Champa Hotels & Resorts Private Limited
620.	75794	M/s. Karuna Estate and Developers Private Limited
621.	75827	M/s. Shieldalloy Met-Tech Private Limited
622.	75836	M/s. Charbuja Finance and Investments Private Limited
623.	75895	M/s. Jagdeep Data Services Private Limited
624.	75915	M/s. Fine Polyconverters Private Limited
625.	76115	M/s. Prime Freight Forwarders Private Limited
626.	76144	M/s. Enari Housing Finance Limited
627.	76234	M/s. Orkay Capital Finance Private Limited
628.	76285	M/s. Chancellor Leasing Private Limited
629.	76325	M/s. Orton Finance Limited
630.	76422	M/s. Hansotia Consultancy Private Limited
631.	76707	M/s. Hab Financial Services Private Limited
632.	76840	M/s. Apka Oil Field Services Private Limited
633.	76861	M/s. Online Mironics Private Limited
634.	76954	M/s. Vinil Electronics Private Limited
635.	77126	M/s. Lavenier Video Films Private Limited
636.	77269	M/s. Raina Bhavan Waste Management Systems Private Limited
637.	77438	M/s. Blue Sky Constructions Private Limited
638.	77456	M/s. Twin City Auto Agency Private Limited
639.	77458	M/s. Devani Finvest Private Limited
640.	77519	M/s. Parikshit Leafin Private Limited
641.	77522	M/s. Mesuka Marketing Private Limited
642.	77823	M/s. Dhaval Trading Company Private Limited
643.	77875	M/s. Akhand Marketing Private Limited
644.	77995	M/s. KoshaInandini Trading & Investment Co. Private Limited

1	2	3
645.	78077	M/s. Asmit Realtors Private Limited
646.	78130	M/s. Sap Auto Industries Private Limited
647.	78444	M/s. Kanekar Consultants Private Limited
648.	78538	M/s. Amee Rubber Sealings Private Limited
649.	78569	M/s. Hotel Edison Private Limited
650.	78635	M/s. Inmark Engineering Consultancy Services Limited
651.	78813	M/s. Lalani Data Technologies Private Limited
652.	79115	M/s. Khanjan Financial Services Private Limited
653.	79286	M/s. Arun Steels & Re-Rolls (Jalna) Private Limited
654.	79308	M/s. Verve Impex Private Limited
655.	79614	M/s. Panvi Marketing Limited
656.	79618	M/s. Banjari Agro Farms Private Limited
657.	79671	M/s. Khamagani Tours & Travels Private Limited
658.	79691	M/s. Anuj Milk Specialities Private Limited
659.	79693	M/s. Moneypack Financial Services Private Limited
660.	79754	M/s. Parmatma Securities Limited
661.	79851	M/s. Jayshree Siddhivinayak Finance Private Limited
662.	79885	M/s. Satyajit Electronics Private Limited
663.	79933	M/s. Nigams Prints & Packs Private Limited
664.	80028	M/s. Sanghrajka Stocks & Securities Private Limited
665.	80097	M/s. Texex Connection (India) Limited
666.	80120	M/s. Fastflow Trading & Investment Private Limited
667.	80134	M/s. Asante Creations Private Limited
668.	80206	M/s. Harisingani Constructions Private Limited
669.	80226	M/s. Vaishnav Agro-Tech Private Limited
670.	80458	M/s. Torchbearer Investment Company Private Limited
671.	80598	M/s. Invochem Sales Private Limited

1	2	3
672.	80682	M/s. August Pharmachem Private Limited
673.	80839	M/s. Nishit Tours & Travels Private Limited
674.	80841	M/s. Sunayana Agro Products Private Limited
675.	81063	M/s. Sulekha Overseas Private Limited
676.	81069	M/s. Rakhi Arts Private Limited
677.	81075	M/s. Freeman Leasing & Finance Private Limited
678.	81367	M/s. Sharshiti Properties Private Limited
679.	81457	M/s. Neil India Spintravellers Private Limited
680.	81518	M/s. Steken Trading & Investment Private Limited
681.	81582	M/s. Veesem Raytech Aerospace Private Limited
682.	81590	M/s. Lisha Electricals Private Limited
683.	81875	M/s. Eaur Cans & Containers Private Limited
684.	81914	M/s. Flamboyant Investment and Finance Private Limited
685.	82044	M/s. Leo Petrospecialities Private Limited
686.	82046	M/s. Dvidisha Finance Private Limited
687.	82180	M/s. Dhanji Mulji Textiles Private Limited
688.	82441	M/s. Spatial Holodynamics (India) Private Limited
689.	82489	M/s. Sky-Tec Computers Private Limited
690.	82502	M/s. United Dredging & Shipping Service Private Limited
691.	82532	M/s. Bombay Harbour Water Transport Company Private Limited
692.	82728	M/s. H. T. R. Software (India) Private Limited
693.	82799	M/s. Indash Entertainment Company Limited
694.	82851	M/s. Shree Ecology & Environment Developers Private Limited
695.	83053	M/s. Parakram Leasing & Finvest Private Limited
696.	83193	M/s. Namagiri Amman Engineers Private Limited
697.	83196	M/s. Rahul & Rohit Capital Services Private Limited

1	2	3
698.	83197	M/s. Dynamix Milk & Food Industries Limited
699.	83304	M/s. Breeze Export Private Limited
700.	83454	M/s. Waterways (Transport) India Private Limited
701.	83487	M/s. Vindeep Agencies Private Limited
702.	83505	M/s. Royal Maratha Shipyards Private Limited
703.	83552	M/s. Coner Enterprises Private Limited
704.	83558	M/s. Viniyog Inven Private Limited
705.	83602	M/s. Konkan Eco-Trade Development Limited
706.	83625	M/s. Sheimar Fisheries Private Limited
707.	83653	M/s. Raksh Realty Private Limited
708.	83731	M/s. Dafikas Food and Drinks Private Limited
709.	83751	M/s. Cement Plant Services Private Limited
710.	83896	M/s. Viva Resorts & Hotels Private Limited
711.	84143	M/s. Sanganak Computer Services Private Limited
712.	84307	M/s. Shree Anant Alkalies & Allied Chemicals Private Limited
713.	84388	M/s. Shriraj Multipliers Private Limited
714.	84391	M/s. Virgo Garments and Leather Products Private Limited
715.	84530	M/s. Stanilite Communications (India) Limited
716.	84952	M/s. Syna Premises Private Limited
717.	84967	M/s. Aqua Virgin Farm Private Limited
718.	84995	M/s. Jambo Exports Private Limited
719.	85009	M/s. Kunti Investments Private Limited (Trans. Co. from Goa)
720.	85014	M/s. Manila Credit & Capital Private Limited
721.	85016	M/s. Exotica Capital Services Private Limited
722.	85097	M/s. Bahupriya Capital and Finance Limited
723.	85112	M/s. Aden Agencies Private Limited

1	2	3	1	2	3
724.	85114	M/s. Shorewala Syntextures Private Limited	753.	87649	M/s. Gande Finlease and Investments Private Limited
725.	85115	M/s. Spindles Creations Private Limited	754.	87650	M/s. Karvirvasini Finlease and Investments Private Limited
726.	85134	M/s. Enesgee Energy Private Limited	755.	87651	M/s. Lakhminarayana Finlease and Investments Private Limited
727.	85157	M/s. Sansha Securities Limited	756.	87690	M/s. Rekord Trading & Manufacturing Limited
728.	85314	M/s. Pranal Chemicals & Equipments Private Limited	757.	87868	M/s. Komal Securities Private Limited
729.	85395	M/s. Daxair Transport Systems Private Limited	758.	87872	M/s. Kyrios Financial Services Private Limited
730.	85495	M/s. Maple Premises Private Limited	759.	87975	M/s. Asent Realtors Private Limited
731.	85550	M/s. Genie Stockfin Private Limited	760.	88024	M/s. Induja Overseas Private Limited
732.	85578	M/s. Maxcell Finvest Consultants Private Limited	761.	88058	M/s. Hema Cosmopharma Limited
733.	86037	M/s. Mecord Financial Services Private Limited	762.	88117	M/s. Cottoncity Finvest Private Limited
734.	86117	M/s. Dadson Steel Private Limited	763.	88118	M/s. Essency Housing Private Limited
735.	86275	M/s. T. B. Zaveri Investments Private Limited	764.	88134	M/s. Namaskar Tour Consultants Private Limited
736.	86287	M/s. Nise Developers Private Limited	765.	88161	M/s. Mery Assets Private Limited
737.	86364	M/s. Cross Ocean Exim Private Limited	766.	88162	M/s. Chancellor Hotels & Resorts Private Limited
738.	86395	M/s. Marine Realty Private Limited	767.	88202	M/s. Winterside Builders Private Limited
739.	86454	M/s. E. D. N. S. Invest Company Private Limited	768.	88252	M/s. Prodigy Export & Finance Private Limited
740.	86686	M/s. S. N. J. Corprate Service Limited	769.	88318	M/s. Ranjit Naik Architects Private Limited
741.	86719	M/s. Vakrangee Pharma Private Limited	770.	88450	M/s. Satguru's Holdings Private Limited
742.	86770	M/s. Vakrangee Exports Private Limited	771.	88451	M/s. Kothari Techno Economic Consultants Private Limited
743.	86797	M/s. Kohinoor Cords Private Limited	772.	88478	M/s. Ess Aar Processors Private Limited
744.	86866	M/s. Vakrangee Organics & Chemicals Private Limited	773.	88606	M/s. Priyanka Capital & Finance Private Limited
745.	86959	M/s. Solution Computers Private Limited	774.	88626	M/s. Rockfort Overseas Private Limited
746.	87006	M/s. Vakrangee Orchards Private Limited	775.	88715	M/s. T. B. Zaveri Worldwide Jewelleries Limited
747.	87356	M/s. Ethos Information Systems Private Limited	776.	88744	M/s. Growth Stocktrade Private Limited
748.	87567	M/s. Raspberry Ranch Resort Private Limited	777.	88858	M/s. Malkapur Finance & Leasing Company Limited
749.	87572	M/s. Fuji Capital Market Private Limited	778.	88909	M/s. Kalapurna Constructions & Finance Limited
750.	87585	M/s. Agbros Capital Private Limited	779.	89102	M/s. J. S. Investments & Financial Consultants Private Limited
751.	87609	M/s. Pitamaha Finlease and Investments Private Limited			
752.	87610	M/s. Kaundinya Finlease and Investments Private Limited			

1	2	3
780.	89200	M/s. Devaki Capital & Credit Private Limited
781.	89337	M/s. Bhattaharyya Engineering and Management Consultants Private Limited
782.	89356	M/s. Shree Vastu Vikas Private Limited
783.	89373	M/s. Rajul Syntex Private Limited
784.	89388	M/s. Mejik Finvest Services Private Limited
785.	89663	M/s. Ravison Conductors Private Limited
786.	89717	M/s. Premi Tours & Travels Private Limited
787.	89898	M/s. Aakash Overseas Trading Company Private Limited
788.	89940	M/s. Proficient Impex Private Limited
789.	89947	M/s. Italic Investment and Finance Private Limited
790.	90251	M/s. Wadsan Financial Services Private Limited
791.	90294	M/s. Wakharkar Constructions Private Limited
792.	90379	M/s. Enkay Finance Limited
793.	90390	M/s. Asha Homes Private Limited
794.	90493	M/s. Ennar Infind Limited
795.	90593	M/s. Nikkei Share Registry Private Limited
796.	90610	M/s. Seaweed Technologies Private Limited
797.	90706	M/s. Tuljabhavani Steel Industries Private Limited
798.	90767	M/s. Aanchal Network Private Limited
799.	90957	M/s. Octavous Capital Services Private Limited
800.	91342	M/s. Mangal Acme Buildcon (India) Private Limited
801.	91698	M/s. Sai Electro Automation Private Limited
802.	91769	M/s. Pravesh Housing Finance Private Limited
803.	91774	M/s. Shandar Investrade Private Limited
804.	91848	M/s. Shubh Mangal Mercantile Private Limited
805.	91853	M/s. Rohr Bio Chemie Private Limited

1	2	3
806.	92033	M/s. Sainath Realtors and Constructions Private Limited
807.	92218	M/s. Farhan Traders Private Limited
808.	92379	M/s. Yash Financial Services Private Limited
809.	92415	M/s. In-Design Infotech Private Limited
810.	92416	M/s. In-Design Communications Private Limited
811.	92456	M/s. Proficient Properties Private Limited
812.	92529	M/s. Nanavati Finance & Leasing Private Limited
813.	92561	M/s. Jainam Ship Breaking Private Limited
814.	92601	M/s. Shogun Credit Capital Services Private Limited
815.	92661	M/s. Orange City Agro-Tech Limited
816.	92843	M/s. V. S. M. Aerospace Private Limited
817.	92846	M/s. Aibani Greetings Private Limited
818.	92855	M/s. Convex Capital Private Limited
819.	92878	M/s. Caldyn Aircon Limited
820.	92964	M/s. Pochitra Finance Private Limited
821.	92965	M/s. Niche Engineering Private Limited
822.	93030	M/s. Comind Fintrade & Investment Private Limited
823.	93068	M/s. Enkay Health & Equipments Private Limited
824.	93135	M/s. Dakshita Trading Company Private Limited
825.	93225	M/s. Spartan Automation Systems Private Limited
826.	93312	M/s. Armaan Builders & Developers Private Limited
827.	93313	M/s. Arzoo Investment & Finance Private Limited
828.	93515	M/s. Crawford Financial Services Private Limited
829.	93539	M/s. Goodworth Impex Private Limited
830.	93680	M/s. Vichitra Rachna Private Limited
831.	93791	M/s. Jupiter Automotive Equipments Private Limited
832.	93882	M/s. Articulate Fiscal Services Private Limited

1	2	3	1	2	3
833.	94021	M/s. Rumi Securities Private Limited	862.	97453	M/s. Achintit Builders & Developers Private Limited
834.	94152	M/s. Shorewala Capital Markets Private Limited	863.	97516	M/s. Alpine Gifts Private Limited
835.	94592	M/s. Union Steel (India) Private Limited	864.	97525	M/s. Neeso Feeds Private Limited
836.	94593	M/s. Zedroc Electronics Private Limited	865.	97536	M/s. Samridhi Financial Services Private Limited
837.	94601	M/s. Hab Pharmaceutical Limited	866.	97901	M/s. Barells & Closures (India) Limited
838.	94677	M/s. Jeevan Agrotech Limited	867.	98238	M/s. Aberdeen Leasing & Finvest Private Limited
839.	94699	M/s. Jupiter Eco-Forestry (International) Private Limited	868.	98306	M/s. Pushkaraj Holdings Private Limited
840.	94725	M/s. Texas Inn Resorts & Hotels Limited	869.	98519	M/s. Carlson Filtration (India) Private Limited [C/N]
841.	94733	M/s. Dove Mercantile Limited	870.	98628	M/s. Isita Exiim India Private Limited
842.	95013	M/s. Acetop Health Care Private Limited	871.	98664	M/s. Dammu Fin-Trade Private Limited
843.	95125	M/s. Bhandup Land Development Private Limited	872.	98701	M/s. Oasis Computers Private Limited
844.	95295	M/s. E-Advice Investment & Service India Private Limited	873.	98856	M/s. Ganraj Paper Mills Private Limited
845.	95313	M/s. Devaki Packaging & Lamination Private Limited	874.	99104	M/s. Derivative Finance Limited
846.	95572	M/s. World Water Finance Limited	875.	99151	M/s. Shanil Press Limited
847.	95675	M/s. Kirti Computers Private Limited	876.	99390	M/s. Aadi Constructions Private Limited
848.	95775	M/s. Intec Realtors (India) Private Limited	877.	99446	M/s. M. Net India Private Limited
849.	95856	M/s. C. B. Construction Private Limited	878.	99479	M/s. Jigyasa Agro Limited
850.	95865	M/s. Punagri Fintech Services Private Limited	879.	99494	M/s. Melody Securities Private Limited
851.	95996	M/s. Marathwada Photo-Film Private Limited	880.	99550	M/s. Vijesh Leasing and Financial Services Limited
852.	96152	M/s. Milano Ceramics Private Limited	881.	99590	M/s. Data Sourcing Services Private Limited
853.	96254	M/s. Merlin Computers Private Limited	882.	99676	M/s. V. U.'s Academy Private Limited
854.	96255	M/s. Mandlecha Investments Private Limited	883.	99781	M/s. Pinnacle Travels (India) Private Limited
855.	96338	M/s. Hedds Industrial Products Private Limited	884.	99825	M/s. Meghdoot Real Estate Developers Private Limited
856.	96576	M/s. Nisar Shares & Securities Limited	885.	100178	M/s. Lasercomp Infotech Private Limited
857.	96631	M/s. Maha Gases Private Limited	886.	100287	M/s. Sublime Share Services Private Limited
858.	96664	M/s. Fiscal Stock Broking Private Limited	887.	100674	M/s. Bhangaria Infin & Trading Private Limited
859.	97067	M/s. Rumi Beverages Private Limited	888.	100724	M/s. Dynamix L. H. G. Company Private Limited
860.	97081	M/s. Art Engineering Management Services Private Limited	889.	100823	M/s. Lacto Organic Chemical Dealers Private Limited
861.	97193	M/s. Relic Infrastructure and Housing Finance Limited			

1	2	3	1	2	3
890.	100829	M/s. Bunts Chemical Dealers Private Limited	917.	103948	M/s. Simran Trading Company Private Limited
891.	100991	M/s. Yusuf Products Private Limited	918.	104051	M/s. Megahertz Communications Limited
892.	100994	M/s. Munil Finvest Private Limited	919.	104075	M/s. Able Chemicals Private Limited
893.	101059	M/s. Darshan Enterprises Private Limited	920.	104217	M/s. Vayu Finvest Private Limited
894.	101098	M/s. K. Deora Printers & Publishers Private Limited	921.	104260	M/s. Nilayam Apparel Private Limited
895.	101161	M/s. Reddy Marketing (Mumbai) Private Limited	922.	104280	M/s. Lars Enterprises Private Limited
896.	101453	M/s. Neif Communications Limited	923.	104289	M/s. Norvicson Advertising Private Limited
897.	101663	M/s. V. G. N. Finance Private Limited	924.	104302	M/s. Marathwada Agencies & Services Private Limited
898.	101859	M/s. Yatin Finvest Limited	925.	104545	M/s. Mikkis Contractors & Properties Private Limited
899.	101993	M/s. Rajrashmi Investment & Finance Private Limited	926.	104560	M/s. Rumi Vending Machines Private Limited
900.	102195	M/s. Well Grown Agro Products Private Limited	927.	104584	M/s. Jayant Techno Consultants Private Limited
901.	102302	M/s. Intek Industries Private Limited	928.	104658	M/s. Metal Tube & Rolling Mills (India) Private Limited
902.	102421	M/s. Vinshir Premises Private Limited	929.	104787	M/s. Nelken Fine Chemi Private Limited
903.	102452	M/s. Gururaj Lease Finance Private Limited	930.	104821	M/s. Champanagari Finvest Private Limited
904.	102508	M/s. Positive Communications Private Limited	931.	104844	M/s. Partners Alliance Communications (India) Private Limited
905.	102528	M/s. Khajrana Ganesh Finvest Private Limited	932.	104885	M/s. Spek Leasing and Finance Private Limited
906.	102567	M/s. Hitkari Sales & Services Private Limited	933.	105066	M/s. Nagpur Pig Farm Private Limited
907.	102619	M/s. Dhananjay Exports Private Limited	934.	105179	M/s. Rajput Luxuries Private Limited
908.	102664	M/s. Vantage Software Private Limited	935.	105378	M/s. Kshitij Trade Links Private Limited
909.	102894	M/s. Package Steels & Engineering Private Limited	936.	105623	M/s. Sony Entamuse Limited
910.	102981	M/s. Blue Star Airways (India) Private Limited	937.	105816	M/s. Moops Premises Private Limited
911.	103002	M/s. Kaguz Catalogues Private Limited	938.	106322	M/s. Vinil Capital & Investment Private Limited
912.	103275	M/s. Jharna Finstock Private Limited	939.	106467	M/s. Sandiv Fashions and Creations Private Limited
913.	103623	M/s. Regency Tools & Components Private Limited	940.	106634	M/s. Shree Sidhi Venkatesh Foods Limited
914.	103661	M/s. Ninefold Realtors and Investments Group Limited	941.	106654	M/s. Seema Informatics and Systems Private Limited
915.	103816	M/s. Jyotsana Finance & Investment Private Limited	942.	106919	M/s. Holy Properties Private Limited
916.	103873	M/s. Wizard Finstock Private Limited	943.	106966	M/s. Shashwat Machineries Private Limited

1	2	3
944.	107084	M/s. Sunbeam Realtors Private Limited
945.	107372	M/s. Trittech Engineering Private Limited
946.	107374	M/s. S. V. N. Trading Private Limited
947.	107504	M/s. Pas Capitals Private Limited
948.	107514	M/s. Jigar Thermoware Private Limited
949.	107549	M/s. Shri Kohinoor Flavour Tea Private Limited
950.	107558	M/s. Shyllock Agencies Private Limited
951.	107675	M/s. Comfort Constructions Private Limited
952.	107742	M/s. Kakajiwalla Interiors Private Limited
953.	107853	M/s. Archit Enterprises Private Limited
954.	107917	M/s. Prompt Developers Private Limited
955.	107938	M/s. Oyster Financial Solutions Private Limited
956.	107950	M/s. Four Pal Products Private Limited
957.	108027	M/s. Ziel Services Private Limited
958.	108061	M/s. Teamsix Charmilles Precision Machinery & Sys
959.	108076	M/s. Sherni Enterprises Private Limited
960.	108171	M/s. K. J. M. G. Consultancy Private Limited
961.	108200	M/s. Vantage Information Systems Private Limited
962.	108348	M/s. Savran Constructions & Exports Private Limited
963.	108599	M/s. Redstreak Fintrade & Investment Private Limited
964.	108705	M/s. Utopian Financial Solutions Private Limited
965.	108715	M/s. Keer Services Private Limited
966.	108829	M/s. Tranzakt Securities Private Limited
967.	108837	M/s. Merica Music Private Limited
968.	108862	M/s. Pusako Exim Private Limited
969.	108914	M/s. Canco Packaging Private Limited
970.	109149	M/s. Phalvridhhi Chemicals Private Limited
971.	109153	M/s. Rameshwar Constrowell Private Limited
972.	109174	M/s. Rawat Gems India Private Limited

1	2	3
973.	109375	M/s. Knack Technocrats Private Limited
974.	109784	M/s. S.R. Studio Private Limited
975.	109889	M/s. Nikko Iron & Steel (India) Private Limited
976.	109949	M/s. Prachal Exports and Services Private Limited
977.	110014	M/s. Bhagwandas Gopicharan Marketing Private Limited
978.	110160	M/s. Sunswept Properties Private Limited
979.	110161	M/s. Excellent Realtors Private Limited
980.	110162	M/s. Bliss Realtors Private Limited
981.	110253	M/s. Bhaskar Granite Private Limited
982.	110366	M/s. S. N. K. Finance Private Limited
983.	110655	M/s. Lattice Consultancy Private Limited
984.	110720	M/s. Sea-Nymph Impex Private Limited
985.	110875	M/s. Shree Tirupati Technologies Private Limited
986.	110967	M/s. Drashti Management Consultants Private Limited
987.	111002	M/s. Harikiran Chemical Private Limited
988.	111174	M/s. Maheshwar Industrial Equipment Private Limited
989.	111179	M/s. First Light Investors Private Limited
990.	111313	M/s. Kinjal Leather Products Private Limited
991.	111337	M/s. Blumonde Agro-Forestry Limited
992.	111552	M/s. Ashi Engineering Private Limited
993.	111596	M/s. Trison Commercial Services Private Limited [C/N]
994.	111659	M/s. Adityaraj Consultants Private Limited
995.	111926	M/s. Radiant Trac Travels Private Limited
996.	112471	M/s. Anantrang Hotels Private Limited
997.	112476	M/s. Bilva Patra Housing Private Limited
998.	112477	M/s. Ekadash Ghar Nirmiti Private Limited
999.	112735	M/s. Karmarkar Projects Private Limited
1000.	112779	M/s. Gate Export Private Limited
1001.	112794	M/s. Virat Rubber Products Private Limited



1	2	3
1002.	112895	M/s. David Brown Engineering (India) Private Limited
1003.	112912	M/s. Salvi Chemicals Private Limited
1004.	113057	M/s. Uchita Polyplast Private Limited
1005.	113062	M/s. Panther Fabritech Private Limited
1006.	113184	M/s. Delta Netcom Services Private Limited
1007.	113191	M/s. Noble House Exports Private Limited
1008.	113202	M/s. J. R. P. Trading Company Private Limited
1009.	113263	M/s. Spacious Farms & Resorts Developer Private Limited
1010.	113268	M/s. A. S. T. Financial Services Private Limited
1011.	113699	M/s. Sahayog Urology Institute and Research Centre Private Limited
1012.	113717	M/s. Quaestor T Finance Private Limited
1013.	113875	M/s. Devdoot Exports Private Limited
1014.	113884	M/s. Emeldee Project Developers Private Limited
1015.	114224	M/s. Pioneer Ribbons Private Limited
1016.	114295	M/s. Aims Lubricants & Packing Private Limited
1017.	114388	M/s. Home Tex Exports India Private Limited
1018.	114522	M/s. Elgin Software Private Limited
1019.	114691	M/s. Pristine Management Consultants Private Limited
1020.	114755	M/s. ICC Derivatives Private Limited
1021.	114789	M/s. Manohar Photo-Offset Private Limited
1022.	104872	M/s. Mittal Realtors & Developers Private Limited
1023.	104926	M/s. Precision Equipments & Engineering Works Private Limited
1024.	114954	M/s. Tera-View Estates Private Limited
1025.	115011	M/s. Kamal Water Purifiers Private Limited
1026.	115029	M/s. Safeset Fire Protection and Safety Engineers Private Limited
1027.	115119	M/s. Lacs Consultancy Private Limited

1	2	3
1028.	115253	M/s. Shrinivas Speciality Chemicals Private Limited
1029.	115268	M/s. Bhuwalka Impex Private Limited
1030.	115331	M/s. Haresh Fuels Private Limited
1031.	115383	M/s. Metchem Impex (India) Private Limited
1032.	115511	M/s. Konark Marine Ship Breakers Private Limited
1033.	115590	M/s. Vijay Marine Ship Breaking Private Limited
1034.	115638	M/s. Amps Internet Technology Private Limited
1035.	115911	M/s. Metro Footwear Private Limited
1036.	115956	M/s. Zephyr Software (India) Private Limited
1037.	116231	M/s. United Parcel Service (India) Private Limited
1038.	116351	M/s. C-Bat Foundation Classes Private Limited
1039.	116426	M/s. Nitai Chem Impex Private Limited
1040.	116626	M/s. Mahinder Venue Management Private Limited
1041.	116680	M/s. Marathon Computers Private Limited
1042.	116683	M/s. Arihant Agripro Limited
1043.	116766	M/s. Sanchi Enterprises Private Limited
1044.	116794	M/s. Euro Asia Investment Corporation Limited
1045.	116842	M/s. Shreem Options and Holdings Private Limited
1046.	116953	M/s. Mercury Energy & Fuel Private Limited
1047.	117058	M/s. Namaskar Computers Private Limited
1048.	117091	M/s. Omshivam Plastic Products Private Limited
1049.	117185	M/s. Vector Advisory Services Private Limited
1050.	117338	M/s. Hans Consultants Private Limited
1051.	117373	M/s. Caddoc Automation Services Private Limited
1052.	117389	M/s. A. M. D. Entertainment Private Limited

1	2	3
1053.	117510	M/s. Infoquest Consultancy Services Private Limited
1054.	117938	M/s. Nayak Pharmaceuticals Private Limited
1055.	117980	M/s. Aces Microsolutions Private Limited
1056.	118032	M/s. Ganesh Tiles Private Limited
1057.	118115	M/s. Nairsons Coalfields Limited
1058.	118135	M/s. Myself Intro Limited
1059.	118198	M/s. Papillon Travels and Exim Private Limited
1060.	118619	M/s. Nascent Softutions Private Limited
1061.	118648	M/s. Emesbee Agro Private Limited
1062.	118675	M/s. Down Town Developers Private Limited
1063.	118722	M/s. M. V. Auto Parts Private Limited
1064.	118750	M/s. Renaissance Business & Services Private Limited
1065.	118785	M/s. Synthwood India Limited
1066.	118813	M/s. Dynamic Lens Private Limited
1067.	118860	M/s. Kaustubh Software & Services Private Limited
1068.	118904	M/s. Sonawala Securities Private Limited
1069.	118960	M/s. Makdauson Exports Private Limited
1070.	118984	M/s. Scientific Communications Journals (India) Private Limited
1071.	119113	M/s. Dishakriti Entertainment Private Limited [C/N]
1072.	119197	M/s. Sarte's Software and Marketing Private Limited
1073.	119218	M/s. Vinod Travels Private Limited
1074.	119242	M/s. World Communication Centre (Mumbai) Private Limited
1075.	119287	M/s. Sofcom Technologies Private Limited
1076.	119393	M/s. Siddhesh Engineering Private Limited
1077.	119538	M/s. Kem Exim and Finvest Private Limited
1078.	119541	M/s. Moksha Communications Private Limited
1079.	119650	M/s. K. G. N. Real Trading Company Private Limited

1	2	3
1080.	119652	M/s. Vipra Printers Private Limited
1081.	119717	M/s. Kamlesh Metal & Trading Company Private Limited
1082.	119724	M/s. Classic Hook Up Services Private Limited
1083.	119799	M/s. Super Gain Import Export (Bombay) Private Limited
1084.	119971	M/s. Grace Clothing Private Limited
1085.	119993	M/s. Empire Computers Private Limited
1086.	120007	M/s. Bodh Shilp Movies Private Limited
1087.	120018	M/s. Boing Cassettes Private Limited
1088.	120099	M/s. Lonari Trading Private Limited
1089.	120101	M/s. Lonari Wines Private Limited
1090.	120103	M/s. Lonari Agencies Private Limited
1091.	120150	M/s. Valour Pharmchem Private Limited
1092.	120151	M/s. Exotic Specie Agro Private Limited
1093.	120274	M/s. Euromark Pharmachem India Private Limited
1094.	120340	M/s. Ramsarandas & Sons Travel Agents Private Limited
1095.	120454	M/s. Allied Power Development Company Private Limited
1096.	120502	M/s. Jam Software Solutions Limited
1097.	120513	M/s. Truelogic Solutions Private Limited
1098.	120747	M/s. Grand Metapac (India) Private Limited
1099.	120914	M/s. Kase Logistics (India) Private Limited
1100.	121105	M/s. Shivam Personal Care Products Limited
1101.	121136	M/s. Jagdamba Guard Force Private Limited
1102.	121456	M/s. Pinocchio Amusements Private Limited
1103.	121618	M/s. Digital Yatra Technologies Private Limited
1104.	121630	M/s. Durga Khote Productions Private Limited
1105.	121680	M/s. Maclellan (India) Private Limited
1106.	121889	M/s. Healthcare Remedies India Private Limited

1	2	3
1107.	122060	M/s. E-Med (India) Private Limited
1108.	122145	M/s. J. J. Liquors Private Limited
1109.	122259	M/s. Goodrich Technologies Private Limited
1110.	122548	M/s. Muskan Sales and Marketing Private Limited
1111.	122562	M/s. Rutu Samvad Nursery Private Limited
1112.	122576	M/s. Selvi Tours and Travels Private Limited
1113.	122592	M/s. Nilesh Opticals Private Limited
1114.	122656	M/s. Ideal Mercantile Private Limited
1115.	122669	M/s. Nayak Infrastructure Development Company Limited
1116.	122681	M/s. Jas Restaurant and Sales Private Limited
1117.	122761	M/s. Simran Office Automation Private Limited
1118.	122769	M/s. Ameya Trading Company Private Limited
1119.	122845	M/s. Tip Tech Private Limited
1120.	122861	M/s. Isha Net Private Limited
1121.	122957	M/s. Easynet Global Private Limited
1122.	122973	M/s. Lich Field Private Limited
1123.	122988	M/s. United Transcription (India) Private Limited
1124.	123038	M/s. Explicit Housing and Infrastructural Private Limited
1125.	123396	M/s. Reliable Stationers Private Limited
1126.	123397	M/s. Gold-Arom Private Limited
1127.	123477	M/s. Laxmi-Ratan Trading Company Private Limited
1128.	123516	M/s. Indubala Services Private Limited
1129.	123561	M/s. Cyberlogistics (India) Private Limited
1130.	123618	M/s. InQbiz India Private Limited
1131.	123634	M/s. Bactra Housing and Infrastructural Private Limited
1132.	123888	M/s. Nathe Consultants Private Limited
1133.	124174	M/s. Wisma Exim Private Limited

1	2	3
1134.	124243	M/s. Centurian Trading Company Private Limited
1135.	124299	M/s. Bulbul Trading Private Limited
1136.	124586	M/s. Krisona Hotels & Resorts Private Limited
1137.	124693	M/s. India Connection.Com (India) Private Limited
1138.	124698	M/s. Ezeemedia Solutions (India) Private Limited
1139.	124702	M/s. Siddhnath Herbal Formulation Private Limited
1140.	124733	M/s. Lenyandri Real Estate Private Limited
1141.	124761	M/s. Nimish Engineering Private Limited
1142.	125007	M/s. Quik Infotech Private Limited
1143.	125010	M/s. Rishi Invex Private Limited
1144.	125051	M/s. Internet & Datacom Technologies (Mumbai) Private Limited
1145.	125066	M/s. Apex Home Builders Private Limited
1146.	125101	M/s. Cybermedia Interactive Limited
1147.	125217	M/s. Carandmouse.Com India Private Limited
1148.	125291	M/s. Avviso Technologies Private Limited
1149.	125294	M/s. Destiny E. Ventures Private Limited
1150.	125296	M/s. Vidsoft India Private Limited
1151.	125453	M/s. Gemini Marketing Private Limited
1152.	125504	M/s. Suryachakra Infotech Private Limited
1153.	125646	M/s. K. V. P. Venture Advisors Private Limited
1154.	125680	M/s. Proptech Online (India) Private Limited
1155.	125782	M/s. Ser L. P. G. Private Limited
1156.	125783	M/s. e-Parivahan India Private Limited
1157.	125784	M/s. e-Kishi India Private Limited
1158.	125885	M/s. e-Showbiz India. Com Private Limited
1159.	125807	M/s. Dilsat Securities Private Limited
1160.	125814	M/s. Vidira Stocks Private Limited
1161.	125819	M/s. Lonari Infotech Private Limited

I	2	3
1162.	125866	M/s. Hiro Securities & Stock Broking Private Limited
1163.	125929	M/s. Institute of High Technology (India) Limited
1164.	125957	M/s. Bitsoft Info Limited
1165.	126007	M/s. Esaree India Private Limited
1166.	126102	M/s. e-Paryavaran India Private Limited
1167.	126137	M/s. e-Oorja India Limited
1168.	126164	M/s. Mauli Sugar Mills Limited
1169.	126198	M/s. Futuristic System Technologies India Private Limited
1170.	126293	M/s. Interscape Bazar (India) Limited
1171.	126319	M/s. e-Transport Nagar India Private Limited
1172.	126320	M/s. e-Aryurved India Private Limited
1173.	126321	M/s. e-Shipbreaking India Private Limited
1174.	126322	M/s. Elagna India Private Limited
1175.	126339	M/s. Finesse Interiors Private Limited
1176.	126393	M/s. Shady Investments Private Limited
1177.	126405	M/s. Manek-Pilot Air Systems Private Limited [CN]
1178.	126523	M/s. R-Net Services Private Limited
1179.	126535	M/s. Igrameenvikas India Private Limited
1180.	126544	M/s. Ser Telco Private Limited
1181.	126587	M/s. Nirman Foods Private Limited
1182.	126671	M/s. ADCC India Com Limited
1183.	126675	M/s. ADCC Web Technologies Limited
1184.	126734	M/s. Adiva Net Marketing Private Limited
1185.	126804	M/s. Sai Online Private Limited
1186.	126843	M/s. Rayus Farm Products Private Limited
1187.	126989	M/s. Investment Managers (India) Private Limited
1188.	127017	M/s. Harikiran Infotech Limited
1189.	127036	M/s. M. B. Gems Private Limited
1190.	127182	M/s. Acorn Advisors Private Limited
1191.	127325	M/s. Shree Narayan Equities Private Limited
1192.	127564	M/s. Excel Netpreneurs Private Limited

1	2	3
1193.	127709	M/s. Radiant Road Transport Company Private Limited
1194.	127745	M/s. Sidhi E. Com Private Limited
1195.	127782	M/s. Salsa Pharma. Com Private Limited
1196.	128016	M/s. Best Systems & Solutions India Private Limited
1197.	128212	M/s. Rhinestone Technologies Limited
1198.	128232	M/s. Omkar Transport and Traders Private Limited
1199.	128306	M/s. Quikbite Dot Com (India) Private Limited
1200.	128312	M/s. Adept Web (India) Private Limited
1201.	128385	M/s. I-Nestor Trustee Company Private Limited
1202.	128583	M/s. Utkal India Private Limited
1203.	128592	M/s. I-Panchayat India Private Limited
1204.	128771	M/s. Life Freight Forwarders Private Limited
1205.	129054	M/s. Imahila India Private Limited
1206.	129055	M/s. I-Yojana India Private Limited
1207.	129056	M/s. E Prasara India Private Limited
1208.	129062	M/s. E Paryatan India Private Limited
1209.	129068	M/s. Solaris Technologies Private Limited
1210.	129102	M/s. Freepost India Internet Services Private Limited
1211.	129244	M/s. Futureach Solutions (India) Private Limited
1212.	129273	M/s. Rijan Securities Private Limited
1213.	129278	M/s. Selvi Marine Service Private Limited
1214.	129381	M/s. e-Bazaar India Private Limited
1215.	129382	M/s. e-Jyotish India Private Limited
1216.	129467	M/s. Param Infocom Private Limited
1217.	129534	M/s. Ray-India Private Limited
1218.	129686	M/s. Catalyst Infotech Private Limited
1219.	129757	M/s. Hotvoice Communications (India) Private Limited
1220.	129780	M/s. Abhishek Tradco (India) Private Limited
1221.	129842	M/s. Kabadi Dotcom Limited

1	2	3
1222.	130060	M/s. Nicassio Trenchless Technologies (India) Private Limited
1223.	130069	M/s. Active Recruiting (India) Private Limited
1224.	130071	M/s. Codecx Technologeis India Private Limited
1225.	130311	M/s. Web Inter Link Company (India) Private Limited
1226.	130462	M/s. Infonet Electricals Private Limited
1227.	130525	M/s. Sanganesh Network Systems Private Limited
1228.	130526	M/s. Solitaire Information Technology Solutions Private Limited
1229.	130725	M/s. Q Soft India Private Limited
1230.	130841	M/s. Auckland Breweries India Private Limited
1231.	130899	M/s. The New Coleman Pump Company India Private Limited
1232.	130937	M/s. N. R. Sethi Cards Private Limited
1233.	131302	M/s. Software Palette (India) Private Limited
1234.	131511	M/s. Elar Technologies Private Limited
1235.	131674	M/s. Acme Compusoft Private Limited
1236.	131678	M/s. Chitkosh I. T. Academy Private Limited
1237.	131751	M/s. Thomson Corporation India Private Limited
1238.	131902	M/s. S. J. Footwear Private Limited
1239.	131953	M/s. Aryshka Investments Private Limited
1240.	132116	M/s. Excell Network India Private Limited
1241.	132443	M/s. J. B. Marine Services Private Limited
1242.	132553	M/s. Arihant Media Private Limited
1243.	132586	M/s. Salgi Organics Private Limited
1244.	132638	M/s. Black Box India Private Limited
1245.	132745	M/s. Sea-N-Sky Tours Private Limited
1246.	132807	M/s. Groomings Marketing Private Limited
1247.	132818	M/s. Comma Studio Line Private Limited
1248.	132838	M/s. Mittal Electric Syndicate Private Limited

1	2	3
1249.	132890	M/s. Garuda Real Securities Trading Company Private Limited
1250.	132933	M/s. Ashtavinayak Network Marketing Private Limited
1251.	133090	M/s. Affix Technologies Private Limited
1252.	133134	M/s. Govinda Harbour Engineers Limited
1253.	133368	M/s. Zeal Creations Private Limited
1254.	133371	M/s. Super Kissan Fertilizers (India) Private Limited
1255.	133423	M/s. Aquafilt Instruments & Systems Private Limited
1256.	133742	M/s. Bonita Holdings Private Limited
1257.	133758	M/s. Thermovac Technologies India Private Limited
1258.	133785	M/s. Sai Leela Films Private Limited
1259.	133855	M/s. Dr. Batra's Positive Health Creation Private Limited [C/N]
1260.	134009	M/s. G. M. Ayurved India Private Limited
1261.	134090	M/s. Nagano Pressure and Temperature Instruments Private Limited
1262.	134251	M/s. Supreme Internet Security Services (Mumbai) Private Limited
1263.	134263	M/s. I. G. T. Exim Private Limited
1264.	134285	M/s. Lakshmi Cooling Systems Private Limited
1265.	134297	M/s. Greencircle Health and Beauty Products Private Limited
1266.	13463	M/s. Lifeline Direct Marketing Mumbai Private Limited
1267.	134443	M/s. Molecular Products (India) Private Limited
1268.	134449	M/s. Miracle Online Information Private Limited
1269.	134483	M/s. Leather Vila (India) Limited
1270.	134737	M/s. Rahul Intermediates Private Limited
1271.	134759	M/s. Sugar Exchange Technology (India) Private Limited
1272.	134834	M/s. Vidhata Goal Achievement Info Private Limited
1273.	134992	M/s. Kebee Network Systems Private Limited

1	2	3	1	2	3
1274.	135041	M/s. Turbine Parts & Services (India) Private Limited	1299.	138675	M/s. Fortuno Infotainment Private Limited
1275.	135264	M/s. Fusion-B Services (India) Private Limited	1300.	138732	M/s. Futurefaze Technologies Private Limited
1276.	135486	M/s. Lilac Enterprises Private Limited	1301.	139094	M/s. Dreamz Eye Consultancy (India) Private Limited
1277.	135616	M/s. Phoenix Resurgency Management Services Limited	1302.	139099	M/s. Virgin Express Private Limited
1278.	135743	M/s. Samnan Logistics Private Limited	1303.	139131	M/s. Reliable Softpro Solutions Private Limited
1279.	135815	M/s. Vasundhara Soil Enrichers Private Limited	1304.	139258	M/s. Capricorn Technocrats & Exim Private Limited
1280.	135878	M/s. Socysis Management Services (Mumbai) Private Limited	1305.	139296	M/s. Rameshwar Petrochemicals Private Limited
1281.	135889	M/s. Theorema India Impex Private Limited	1306.	139336	M/s. B. P. E. Infotech Private Limited
1282.	135988	M/s. Techouse Systems India Private Limited	1307.	139484	M/s. B2B Electricals. Com Private Limited
1283.	136006	M/s. Anwikar Consulting Engineers Private Limited	1308.	139513	M/s. Anmol Impex Limited
1284.	136027	M/s. Dr. Batra's Positive Health Academy Private Limited	1309.	139613	M/s. Nimbal Technologies Private Limited
1285.	136347	M/s. Shallot Eximp Private Limited [C/N]	1310.	139620	M/s. Transtar Shipping Private Limited
1286.	136453	M/s. Sachin's Multilevel Marketing Company Private Limited	1311.	139646	M/s. Lufkin Life Sciences Private Limited [C/N]
1287.	136503	M/s. Reach Consultancy Services Private Limited	1312.	139650	M/s. Rashtratej Investment Consultancy Private Limited
1288.	137091	M/s. Mira Signs Private Limited	1313.	139804	M/s. Sarathi Telecom Private Limited
1289.	137104	M/s. Mau Multi Trade Private Limited	1314.	139978	M/s. D. K. Sons Sarees & Textiles Private Limited
1290.	137576	M/s. R. S. Raheja Builders Private Limited	1315.	140014	M/s. Pareek Merchants Private Limited
1291.	137628	M/s. Glow Tech Displays Private Limited [C/N]	1316.	140029	M/s. Posiedon Media Edge Private Limited
1292.	137774	M/s. Aryan Motels & Developers (India) Private Limited	1317.	140241	M/s. Simple Finstock Limited
1293.	137810	M/s. Ryan & Becker Trade Events and Expositions Private Limited	1318.	140280	M/s. Sagar Hometrade Private Limited
1294.	137931	M/s. Om Lakshmi Marbles & Granites Private Limited	1319.	140602	M/s. Nova Oilfield Services (India) Private Limited
1295.	138296	M/s. Bay Air Logistics (India) Private Limited	1320.	140635	M/s. Rational Traders Private Limited
1296.	138366	M/s. Vishwas Computerized Pathology Laboratory Private Limited	1321.	140782	M/s. Mentor Techtronics Solutions Private Limited
1297.	138375	M/s. Diva Animations Private Limited	1322.	140789	M/s. Tikar Construction & Infrastructure Company Private Limited
1298.	138413	M/s. Family Pharmaceutical Private Limited	1323.	140863	M/s. Five Star Rig Service (India) Private Limited
			1324.	141057	M/s. Ieport Consultants Private Limited
			1325.	141103	M/s. Orion Mantra Marketing Private Limited

1	2	3	1	2	3
1326.	141192	M/s. Epoch Consultants Private Limited	1352.	145916	M/s. Hi-Tech e-Terminal Installations Private Limited
1327.	141227	M/s. R. G. Enteractel Private Limited	1353.	147006	M/s. Visual Harmony Entertainment Private Limited
1328.	141304	M/s. Minit Properties and Developers Private Limited	1354.	147063	M/s. Omni Parking Meter System Private Limited
1329.	141684	M/s. Nuraj Financial Services and Investment Private Limited	1355.	147224	M/s. Centos Textiles Private Limited
1330.	141723	M/s. Master Tugs Private Limited	1356.	148039	M/s. Synergy Events & Exhibitions Private Limited
1331.	142358	M/s. Dattakrupa House Keeping & Pest Control Private Limited	1357.	148062	M/s. Spitmaan Jointings Private Limited
1332.	142387	M/s. Excellent Hospitality & Software Developments Private Limited	1358.	148168	M/s. Spam Plasto Private Limited
1333.	142459	M/s. Sansoj Enterprises Private Limited	1359.	148604	M/s. Ensure Software Consulting Private Limited
1334.	142618	M/s. Rising Sun Builders Private Limited	1360.	149210	M/s. Akash Electrosteel (India) Private Limited
1335.	142735	M/s. Queensberry Foods Private Limited	1361.	149429	M/s. C. R. K. System Protection Private Limited
1336.	142795	M/s. Superstrong Properties Private Limited	1362.	151121	M/s. Zodiac Educational Services Private Limited
1337.	142796	M/s. Ever Ready Properties Private Limited	1363.	153840	M/s. Majortrend Securities Private Limited
1338.	142797	M/s. Aster Constructions Private Limited	1364.	155084	M/s. B. B. M. International Private Limited (Trf.)
1339.	142813	M/s. Twilight Constructions Private Limited	1365.	105754	M/s. Asian Packnologist Limited
1340.	142917	M/s. Fueller-Bx Products (India) Private Limited	1366.	134420	M/s. Khandesh Heart Hospital and Research Centre Private Limited
1341.	143135	M/s. Cauldron Communications Private Limited	1501.	123690	M/s. Rajanet. Com Private Limited
1342.	143147	M/s. Tokheim Petroleum Services India Private Limited	1502.	123705	M/s. K. S. Entertainment & Technology Limited. [CN]
1343.	143358	M/s. Ace Premises Private Limited	1503.	123753	M/s. Organophyta Agro Private Limited
1344.	144112	M/s. Rock Solid Developers Private Limited	1504.	123851	M/s. UMP Securities Private Limited
1345.	144440	M/s. Nature Mediplanto Private Limited	1505.	123852	M/s. MSP Securities Private Limited
1346.	144486	M/s. Nucleus Telelinks Private Limited	1506.	123874	M/s. J-1 Investment & Info Private Limited
1347.	144647	M/s. H. K. Financial Services and Investment Private Limited	1507.	124004	M/s. Perigee Online Services India Private Limited
1348.	144698	M/s. Manila Financial Services and Investment Private Limited	1508.	124009	M/s. Harrys Agencies Private Limited
1349.	144858	M/s. V. K. R. S. Technologies Private Limited	1509.	124098	M/s. Rushi Software Private Limited
1350.	145386	M/s. Kawach Security Services Private Limited	1510.	124230	M/s. Shaadis. Com (India) Private Limited
1351.	145612	M/s. Wed Express Courier & Cargo Private Limited			

1	2	3	1	2	3
1511.	124255	M/s. VSP Trades Limited. [C/N]	1539.	125605	M/s. Sahyadri Filmcity Private Limited
1512.	124285	M/s. Vidhee Infotech Private Limited	1540.	125608	M/s. Lata Hospital & Technical Education Private Limited
1513.	124296	M/s. Achievements Infotech Private Limited	1541.	125637	M/s. Cyber Agro Private Limited
1514.	124322	M/s. Tazyeen Industries Private Limited	1542.	125818	M/s. Dreams Info. Com Private Limited
1515.	124330	M/s. Sanji Valley Hotels & Resorts Private Limited	1543.	125859	M/s. Indiaport. Com Private Limited
1516.	124332	M/s. Madhur Trading Private Limited	1544.	125863	M/s. Stardust India.Com Private Limited
1517.	124369	M/s. Eco-Tech Marketing Services Private Limited	1545.	125931	M/s. KDM Enterprises Private Limited
1518.	124419	M/s. Sairam Share & Stock Private Limited	1546.	126060	M/s. Essay Securities Private Limited
1519.	124441	M/s. Ambrozia Agro Private Limited	1547.	126115	M/s. Mustformums.Com India Private Limited
1520.	124465	M/s. Servac Pharma (India) Private Limited	1548.	126121	M/s. N Vision (India) Private Limited
1521.	124472	M/s. Hometronics (India) Private Limited	1549.	126136	M/s. Vaman Stores Hightech Limited.
1522.	124477	M/s. Stallion Pharmaceutical Private Limited	1550.	126152	M/s. Atlanta Super Computers Private Limited
1523.	124557	M/s. Rendezvous Hotels Private Limited	1551.	126166	M/s. Efficient Logistics Private Limited
1524.	124601	M/s. Subkuch E-Commerce (India) Private Limited	1552.	126169	M/s. Efficient Shipping Agencies India Private Limited
1525.	124662	M/s. Cauldron Technologies Private Limited	1553.	126203	M/s. Excellent Shipping Agencies India Private Limited
1526.	124838	M/s. Advantage Comfort (India) Private Limited	1554.	126217	M/s. Sambandh Marketing Private Limited
1527.	125079	M/s. Petromacs Shipping & Logistics Private Limited	1555.	126288	M/s. Prostar Marketing Private Limited
1528.	125112	M/s. Emerald Infotech Private Limited	1556.	126358	M/s. Ideal Derivatives Limited
1529.	125134	M/s. Ralaries Agri Inputs Private Limited	1557.	126447	M/s. Goodvalue Infotech Private Limited
1530.	125162	M/s. M-Communicator.Com (India) Private Limited	1558.	126491	M/s. Gravity Infotech Limited
1531.	125207	M/s. Feeos Technologies India Private Limited	1559.	126531	M/s. Mani.com Private Limited
1532.	125239	M/s. Puravi Infoway Private Limited	1560.		
1533.	125277	M/s. Meghsons Impex Private Limited	1561.	126612	M/s. Naranja Tech Limited
1534.	125320	M/s. Shahi Able Car Carries Limited	1562.	126653	M/s. Supratech Ventures Private Limited
1535.	125376	M/s. Soundpicture Communications India Private Limited	1563.	126676	M/s. Online Talents (India) Private Limited
1536.	125377	M/s. Corpserve (India) Private Limited	1564.	126725	M/s. Skintones Photography Private Limited
1537.	125399	M/s. Esgee Computers Private Limited	1565.	126752	M/s. Fonsys Infotech (India) Private Limited
1538.	125566	M/s. Progression Systems (India) Private Limited	1566.	126838	M/s. FM Money Multiplier Private Limited
			1567.	126903	M/s. Target Films Private Limited
			1568.	126905	M/s. Primus Technologies Private Limited
			1569.	127000	M/s. BMB Entertainment Private Limited [CN]



1	2	3
1570.	127106	M/s. MF Financial Products Distributors Private Limited
1571.	127201	M/s. Picomp Electro Controls Private Limited
1572.	127206	M/s. Ramo Pumps Private Limited
1573.	127253	M/s. TVC Communications Private Limited
1574.	127304	M/s. Astral E-Services Limited [C/N]
1575.	127391	M/s. Products Hut. Com (India) Private Limited
1576.	127418	M/s. Masterplus Software Solutions Private Limited
1577.	127517	M/s. Broadvision Software Solutions Private Limited
1578.	127536	M/s. Itlite Technologies Private Limited
1579.	127558	M/s. New Excelsior Investment & Trading Private Limited
1580.	127678	M/s. KCL Shipping Private Limited
1581. 1	127694	M/s. Prismatic Packaging Private Limited [C/N]
1582.	127704	M/s. Bombay Buzz. Com. India Private Limited
1583.	127740	M/s. Rajsons (Bombay) Trading & Investment Private Limited
1584.	127797	M/s. MRCC Software Solutions Private Limited
1585.	127803	M/s. Trustlene Piping Systems Limited
1586.	127913	M/s. Ma Net Applications Private Limited
1587.	127925	M/s. Shiv Sagar Restaurant Private Limited
1588.	127983	M/s. Surya Ambe Telefilms Private Limited
1589.	127990	M/s. Granth. Com India Private Limited
1590.	127994	M/s. Bragg Aviation Private Limited [C/N]
1591.	128018	M/s. K. H. Dalmia (India) Limited
1592.	128083	M/s. Sysmic Algorithm (India) Private Limited
1593.	128155	M/s. Netbrandz. Com (India) Private Limited
1594.	128196	M/s. Gold Marketing & Trading Private Limited
1595.	128214	M/s. Easylife Investment Consultancy Private Limited

1	2	3
1596.	128238	M/s. Ascent Infinity Technologies Private Limited
1597.	128250	M/s. e-Provogue (India) Private Limited
1598.	128269	M/s. Minstal Glazing Systems Private Limited
1599.	128356	M/s. K. Anil Tex Private Limited
1600.	128435	M/s. New India I. T. Services Private Limited
1601.	128459	M/s. Vijay Lakshmi Impex Private Limited
1602.	128487	M/s. Martony Polyweave Private Limited
1603.	128541	M/s. Floramart. Com India Private Limited
1604.	128640	M/s. Shalimar Scarp Traders Private Limited
1605.	128644	M/s. Azhari Impex Private Limited
1606.	128759	M/s. Prism LPG Safety. Com Private Limited
1607.	128838	M/s. Vaman Technologies (India) Limited
1608.	128869	M/s. Contentfn (India) Private Limited
1609.	128917	M/s. Triways Travel & Tours Private Limited [C/N]
1610.	128944	M/s. Kidsoft Technologies (India) Private Limited
1611.	128982	M/s. TSC Value Retail Limited
1612.	129036	M/s. Esmart Infotech India Private Limited
1613.	129155	M/s. Meera Knit Fab Private Limited
1614.	129308	M/s. Kamakshi Impex Private Limited
1615.	129335	M/s. Genequest India Private Limited
1616.	129363	M/s. Licence India. Com Private Limited
1617.	129367	M/s. Swanand Computers Private Limited
1618.	129392	M/s. Taldak Software Systems Private Limited
1619.	129471	M/s. Qualified Investment & Trading Private Limited
1620.	129540	M/s. Saxon Networks Private Limited
1621.	129567	M/s. Pratishtha Realtor Private Limited
1622.	129583	M/s. Marvel Remedies Private Limited
1623.	129669	M/s. Vikalp Software Private Limited
1624.	129694	M/s. Entrancemaster. Com (India) Private Limited
1625.	129754	M/s. Venezia Bathware Private Limited
1626.	129765	M/s. Oil Care India Private Limited

1	2	3
1627.	129802	M/s. Paperplus Marketing (India) Private Limited
1628.	129817	M/s. Sam Equipment and Services Private Limited
1629.	129854	M/s. Newn Technologies Private Limited
1630.	129855	M/s. Quickway India Multilevel Marketing Private Limited
1631.	129879	M/s. Energya Biotech Private Limited
1632.	129990	M/s. Jinesh Trading Private Limited
1633.	130029	M/s. Sunarch Computers Private Limited
1634.	130165	M/s. Tej Train Cargo Services Private Limited
1635.	130218	M/s. M. K. Infotech Private Limited
1636.	130320	M/s. Mascon Exports Private Limited
1637.	130487	M/s. Umech Infosystems Private Limited
1638.	130516	M/s. Gnexxt Technologies Private Limited
1639.	130590	M/s. Interport Shipping and Transport (North) Private Limited
1640.	130610	M/s. Monsoon Technologies Private Limited
1648.	130629	M/s. Accrescent Consulting Private Limited
1649.	130640	M/s. Kan Investment Private Limited
1650.	130649	M/s. Vava Engineers Private Limited
1651.	130726	M/s. Aristos Institute of Information Technology Private Limited
1652.	130740	M/s. P & J Printing & Stationery Private Limited
1653.	130750	M/s. Pace Envirotech Private Limited
1654.	130754	M/s. Sana Entertainment Network Limited
1655.	130815	M/s. Atlas Compedutech Private Limited
1656.	130908	M/s. Mumbai Technologies Private Limited
1657.	130955	M/s. Miami Tradeplace Private Limited
1658.	131044	M/s. Agricole Preservations & Storage (India) Limited
1659.	131067	M/s. Wellquest Research Private Limited
1660.	131089	M/s. Multinet Computers Private Limited
1661.	131113	M/s. Aditya Birla Energy Private Limited
1662.	131266	M/s. Nakshatra Securities Private Limited
1663.	131308	M/s. Fastner Point. Com Limited
1664.	131321	M/s. M. A. P. Infotech Systems (India) Private Limited

1	2	3
1665.	131349	M/s. Indlogistics (Mumbai) Private Limited
1666.	131554	M/s. I-Tech Information Systems Private Limited
1667.	131735	M/s. Hush Infocom Private Limited
1668.	131847	M/s. Diata India Private Limited
1669.	132300	M/s. UPS Traders (India) Private Limited
1670.	132435	M/s. Prophet Mercantile Company Private Limited
1671.	132468	M/s. Petromacs Implex Private Limited
1672.	132582	M/s. Eclat Financial Services Private Limited
1673.	132648	M/s. Cygnus Network Systems Private Limited
1674.	132663	M/s. P. Harish & Company (India) Private Limited
1675.	132671	M/s. Samyash Technologies Private Limited
1676.	132681	M/s. Kaviraj Investrade Private Limited
1677.	133255	M/s. Ultimate Mercantile Private Limited
1678.	133257	M/s. Lemon Planet India Private Limited
1679.	133281	M/s. Minstal Mercantile Company Private Limited
1680.	133282	M/s. One-Up Solutions Private Limited
1681.	133304	M/s. Intellibiz (India) Private Limited
1682.	133366	M/s. Sarda Brothers (India) Private Limited
1683.	133396	M/s. S. H. Auverdic Co Private Limited
1684.	133397	M/s. Sunrays Travels Private Limited
1685.	133450	M/s. Regency Financial Products & Services Private Limited
1686.	133487	M/s. Liberty Advertising Private Limited
1687.	133510	M/s. Crystal Special Projects Private Limited
1688.	133559	M/s. Christy Johns Healthcare Private Limited
1689.	133608	M/s. Roffe Nova-Tech Private Limited
1690.	133656	M/s. Agrimore Bio-Tech Private Limited
1691.	133700	M/s. Best-Hi-Tech Surveyors & Consultancy Services Private Limited
1692.	133749	M/s. Rajgor Steels Private Limited
1693.	133787	M/s. Future Softbiz (India) Private Limited
1694.	133807	M/s. Melon Marketing Concepts Private Limited

1	2	3
1695.	133826	M/s. Genetic Rhythm (India) Private Limited
1696.	133882	M/s. Marvel Health Care Services Private Limited
1697.	133959	M/s. Macil Insurance Services Limited
1698.	133962	M/s. Raj Pharma Chem Private Limited
1699.	134284	M/s. Nulens Pictures Private Limited
1700.	134383	M/s. Turning-Point Tele Systems Private Limited
1701.	134515	M/s. Godgift Steels Private Limited
1702.	134720	M/s. Orion Insurance Agents & Services Private Limited
1703.	134751	M/s. Magnate Corporate Consultants Private Limited
1704.	134803	M/s. Jargon Micro Solutions Private Limited
1705.	134910	M/s. Desulu Steels Private Limited
1706.	134931	M/s. Edifice Software Technologies Private Limited
1707.	135125	M/s. Huryel Exim Private Limited
1708.	135330	M/s. Cosmos Pharmaceuticals India Private Limited
1709.	135384	M/s. Coolearth Fin Mart Private Limited
1710.	135691	M/s. Gangwani Engineers & Developers Private Limited
1711.	135767	M/s. Nutan Health Care Private Limited
1712.	135807	M/s. Sapphire Fashions Private Limited
1713.	135835	M/s. Astavinayak Exports Private Limited
1714.	136123	M/s. MRP Nair Engineering Works Private Limited [c/n]
1715.	136322	M/s. TMS Container Lines Private Limited
1716.	136325	M/s. Metro Electrodes (India) Private Limited
1717.	136346	M/s. Nazar Marketing Private Limited
1718.	136731	M/s. Datakare Technologies (India) Private Limited
1719.	136748	M/s. Naisargic Dairy & Agro Products Private Limited
1720.	136917	M/s. Centex India Human Resource & Research Private Limited
1721.	137031	M/s. Zero Octa Solutions (India) Private Limited
1722.	137342	M/s. Life Enlighters Services (India) Private Limited

1	2	3
1723.	137374	M/s. Azimuth Projects Private Limited
1724.	137521	M/s. Bhavya Net Marketing Private Limited
1725.	137981	M/s. Astro-Gem Stone Centre Private Limited
1726.	138210	M/s. Bhagwati Allied Security Services Private Limited
1727.	138218	M/s. Evergreen Fitness Private Limited
1728.	138278	M/s. Maharashtra State Highway Construction Company Limited
1729.	138317	M/s. Sagee Marketing Private Limited
1730.	138325	M/s. Aurangabad City Integrated Road Development Limited
1731.	138326	M/s. Seema Resorts & Water Park Private Limited
1732.	138378	M/s. Congo Exports Private Limited
1733.	138428	M/s. Nagpur City Integrated Road Development Limited
1734.	138434	M/s. Ukis Pearls Private Limited
1735.	138444	M/s. Nandurbar City Integrated Road Development Limited
1736.	138445	M/s. Pune City Integrated Road Development Limited
1737.	138621	M/s. Country Club (Mumbai) Limited
1738.	138635	M/s. H. R. Technologies India Private Limited
1739.	138725	M/s. Amal Exports Private Limited [C/N]
1740.	138733	M/s. Mindsphere Mercantile & Agencies Private Limited
1741.	138779	M/s. Automech Consultants (Bombay) Private Limited
1742.	139000	M/s. Bravo Impex Private Limited
1743.	139095	M/s. Krish Dwellers Private Limited
1744.	139171	M/s. Apna Parivar Marketing (India) Private Limited
1745.	139174	M/s. Kapur Catering and Housekeeping Private Limited
1746.	139234	M/s. Mahamantra Fashions Private Limited
1747.	139265	M/s. GSK Publication's Private Limited
1748.	139366	M/s. Jimmy George Consulting and Training Private Limited
1749.	139461	M/s. P & G Express Private Limited
1750.	139475	M/s. Satkar Marketing Company Private Limited

1	2	3
1751.	139546	M/s. Pride Electronics Private Limited
1752.	139558	M/s. Seven Seas Immigration and Education Consultants Private Limited
1753.	139602	M/s. Nanded Solid Waste Projects Private Limited
1754.	139894	M/s. Ramjivan Darak & Sons Trading Private Limited
1755.	139921	M/s. K. K. Transport Company Private Limited
1756.	139964	M/s. Kailash Rajani Estate Consultants Private Limited
1757.	140020	M/s. Tres Botas Hospitality Private Limited
1758.	140152	M/s. Buxom Coaching Classes Private Limited
1759.	140248	M/s. Kanaktaru Marine Services Private Limited
1760.	140387	M/s. Weltech Machinery Private Limited
1761.	140400	M/s. Acme Rubber Private Limited
1762.	140503	M/s. Shree Safe-Link Network Marketing Private Limited
1763.	140561	M/s. Shriramarpan Trade Links Private Limited
1764.	140798	M/s. Kainat Films Private Limited
1765.	140853	M/s. V3IT Software Systems (India) Private Limited
1766.	140942	M/s. Vulture Properties Private Limited
1767.	140994	M/s. Goldtree Marketing Networks Private Limited
1768.	141233	M/s. KPP Consulting Private Limited
1769.	141360	M/s. Vito Impex Private Limited
1770.	141424	M/s. Sanjha Maritime Private Limited
1771.	141581	M/s. Goldmagic Marketing Private Limited
1772.	142337	M/s. Overture Search Services (India) Private Limited
1773.	142517	M/s. Shivshakti Texfab & Traders Private Limited. {C/N}
1774.	142714	M/s. Siddhi Metals Private Limited
1775.	142997	M/s. Milind Domestic Gas Limited
1776.	143021	M/s. ICS Broll India Private Limited
1777.	143198	M/s. PG Entertainment Private Limited
1778.	143357	M/s. Exim Infomedia (India) Private Limited
1779.	143486	M/s. Raj Cable Network Private Limited

1	2	3
1780.	143508	M/s. Reena Ayurvedic Private Limited
1781.	143575	M/s. Gems Marketing Private Limited
1782.	143717	M/s. Sharpline Exports Private Limited
1783.	144211	M/s. Ujwal Fertilizers Limited
1784.	144320	M/s. AL Cure Drugs Private Limited
1785.	144424	M/s. Tone Audio Private Limited
1786.	144564	M/s. Pune Optics Private Limited
1787.	144615	M/s. Nanded Infrastructure Development Company Limited
1788.	144650	M/s. Niche Films Private Limited
1789.	144771	M/s. Greenline Agencies Private Limited
1790.	144836	M/s. Aero-Print (India) Private Limited
1791.	144886	M/s. Manpaks Trading Private Limited [C/N]
1792.	144981	M/s. Sandhi Manning Solution Private Limited
1793.	145565	M/s. Avenues Scrapcon Private Limited
1794.	145585	M/s. Shree Deepjyoti Foods Private Limited
1795.	145633	M/s. KKM Surgicals & Medica Private Limited
1796.	145691	M/s. Atlantic Net Services (India) Private Limited
1797.	145729	M/s. Purple Pictures Private Limited
1798.	145774	M/s. Vitta Manpower Services Private Limited
1799.	145856	M/s. Aster Life Sciences Private Limited
1800.	146057	M/s. i-Orient Networks (India) Private Limited
1801.	146116	M/s. Smass Resorts & Food Processors Private Limited
1802.	146220	M/s. Om Shree Office Solutions Private Limited
1803.	146912	M/s. M. L. Success Network Marketing Private Limited
1804.	146936	M/s. E Link Infocom Private Limited
1805.	147595	M/s. Power Well Services India Private Limited
1806.	147902	M/s. Pan Air Express Private Limited
1807.	147963	M/s. Fargo Telecom Private Limited
1808.	147990	M/s. Atharva Traders Private Limited
1809.	148142	M/s. Sunfield Constructions Private Limited

1	2	3
1810.	148525	M/s. Heorca Pharma Private Limited
1811.	148757	M/s. Value 4 Media Private Limited
1812.	149732	M/s. Neesa Jeweller Private Limited
1813.	150471	M/s. Viu Media Private Limited
1814.	151299	M/s. Shreenath Contracts & Engineers Private Limited
1815.	151300	M/s. Somal Works Contracts Private Limited
1816.	151301	M/s. Shivam Engineering Services Private Limited

D. K. GUPTA  
Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies

Bangalore-34, the 31st August 2006

No. TA/UK/SES/L5/2006.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the names of the following companies unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register and the undermentioned companies will be dissolved:—

Sl. No.	Co. No.	Name of Company
1	2	3
1.	12516	M/s. Kamakshi Extractions Private Limited
2.	17014	M/s. Space Interiors Private Limited
3.	15353	M/s. Mythri Trading Private Limited
4.	22129	M/s. Lotistic Systems Private Limited
5.	23407	M/s. Hexacom Systems Private Limited
6.	15726	M/s. Seawat Sigma Private Limited
7.	22926	M/s. Mouli Constructions Private Limited
8.	19676	M/s. Taurus Galsteel Private Limited
9.	20898	M/s. The Hulli Farms and Country Club Private Limited
10.	23557	M/s. Ijee Property Developers Private Limited
11.	19285	M/s. Raja Ratna Ultra Resorts Private Limited

1	2	3
12.	19845	M/s. Visa Properties Private Limited
13.	20058	M/s. Kanive Farms Private Limited
14.	22841	M/s. Marvel Datson Enterprises Private Limited
15.	13374	M/s. Guruvayurappa Chits Private Limited
16.	18787	M/s. Karishma Farms and Hill Resorts Private Limited
17.	20442	M/s. Arrow Management Consultants Private Limited
18.	18770	M/s. Banjara Enclaves Private Limited
19.	20715	M/s. Softco Consultancy Services Private Limited
20.	19669	M/s. Spider Net Technologies Private Limited
21.	15814	M/s. Maruti Gyms Private Limited
22.	20544	M/s. P. T. P. Courier and Cargo Private Limited
23.	14621	M/s. Liberty Shakti Impex Private Limited
24.	17374	M/s. H. P. S. Engineering and Consultancy Services Private Limited
25.	19343	M/s. Priyanka Builders Private Limited
26.	16691	M/s. Jay Gee Apparel Private Limited
27.	17186	M/s. Dhoot Securities Limited
28.	17313	M/s. Videocon Power Finance Limited
29.	17937	M/s. Partha Estate Developers Private Limited
30.	16758	M/s. Asterik Computers Private Limited
31.	19989	M/s. Jay Gee Clothing Company Private Limited
32.	16957	M/s. Riyahi Properties and Finvest Private Limited
33.	23960	M/s. Microcon M. M. Private Limited
34.	16961	M/s. Raheleh Proeperties and Finvest Private Limited
35.	16139	M/s. Silvestro Proeperties and Investments Private Limited
36.	17311	M/s. Videocon Power Securities Limited
37.	17185	M/s. Videcon Appliance Securities Limited
38.	15052	M/s. Premium Coorg Cofee and Spices Private Limited

1	2	3
39.	15897	M/s. Chethan Travels Private Limited
40.	15141	M/s. Tycoon International Private Limited
41.	17798	M/s. Anil and Sunil Properties Private Limited
42.	17168	M/s. A. G. Sons Investments Private Limited
43.	15186	M/s. Hydrasol Private Limited
44.	16697	M/s. Acharya Diamonds Private Limited
45.	14843	M/s. Trinity Monetary Management Private Limited
46.	16947	M/s. Desicon Engineering Private Limited
47.	13371	M/s. Galaxy Agrichem Private Limited
48.	14703	M/s. Saikrupa Leasing Private Limited
49.	17855	M/s. Guna Holdings Private Limited
50.	13677	M/s. Jayabhadra Estates Private Limited
51.	19167	M/s. Mathruchaya Finance and Investment Private Limited
52.	16985	M/s. Venugopal Properties and Finvest Private Limited
53.	19087	M/s. Yashasvi Marketing Private Limited
54.	21957	M/s. Vemana Micro Systems Private Limited
55.	17188	M/s. Videocon International Securities Limited
56.	13033	M/s. Rohini Minings Private Limited
57.	19160	M/s. Maxpress Finance (India) Private Limited
58.	23037	M/s. Spurtech Power Technologies Private Limited
59.	21460	M/s. Nimmagadda Granites Private Limited
60.	20596	M/s. Nandi Gardens and Floriculture Private Limited
61.	23147	M/s. Supreme Park Private Limited
62.	22391	M/s. A. M. P. S. Engineering Needs and Services Private Limited
63.	18784	M/s. Sarathi Tours and Travels Private Limited
64.	20709	M/s. Soukya Finance and Real Estates Private Limited

1	2	3
65.	20755	M/s. Venus Vila Constructins Private Limited
66.	22630	M/s. Lincoln Tissues Private Limited
67.	23319	M/s. Manipal Constructions Private Limited
68.	22126	M/s. Kanchana Financial Services Private Limited
69.	18928	M/s. Suntech Constructions Private Limited
70.	23974	M/s. Decon Telesystem Limited
71.	21533	M/s. Sportswear Express Private Limited
72.	14856	M/s. Prashanth Multi—Products Private Limited
73.	20529	M/s. N. G. R. Engineering Private Limited
74.	12930	M/s. Muddeereswara Granite Industries Private Limited
75.	21685	M/s. Warren Exim Private Limited

SANTOSH KUMAR  
Assistant Registrar of Companies  
Karnataka

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the  
following Companies

Kochi, the 18th September 2006

No. 560(5)/SES-2005/4136/2005.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the names of the following Companies have this day been struck off from the Register and the said Companies are dissolved :—

Sl. No.	Co. No.	Name of Company
1	2	3
1.	3003	M/s. Poly Drugs & Chemicals Private Limited
2.	7351	M/s. Tulip Estates and Constructions Private Limited
3.	7445	M/s. Concert Technical and Informaion Systems Private Limited
4.	8294	M/s. Powerful Trade Links Private Limited
5.	8508	M/s. Bins Appliances Private Limited

1	2	3
6.	8780	M/s. Cochlin Dredging and Constructions Private Limited
7.	8907	M/s. Shimaro Builders Private Limited
8.	9362	M/s. Floritech Exotica International Private Limited
9.	10541	M/s. Ranganatha Developers Private Limited
10.	14580	M/s. Ceyenar Plantations Private Limited
11.	15206	M/s. Oriental Goat Farm Private Limited

S. M. AMEERUL MILLATH  
Registrar of Companies  
Kerala

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies

Ernakulam-682 021, the 20th September 2006

No. 560(5)/SM/4219.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the names of the following Companies have this day been struck off from the Register and the said Companies are dissolved :—

Sl. No.	Regn. No.	Name of Company
1	2	3
1.	8662	M/s. Bin Malik Industrial and Trading Co. (Kerala) Private Limited
2.	8707	M/s. Eric Exports & Imports Private Limited
3.	8716	M/s. New-Tech Farms Private Limited
4.	9017	M/s. Highrange Cards and Travels Private Limited
5.	9091	M/s. South Indian Capital Private Limited
6.	9095	M/s. Trans World Holdings Private Limited
7.	9170	M/s. Manathala Kuries and Loans Private Limited
8.	9457	M/s. Sahara Hospital Private Limited
9.	9575	M/s. G. S. S. Group Private Limited
10.	9635	M/s. Pockanchery Ayurvedics Private Limited
11.	9654	M/s. Omhar Exim Private Limited
12.	9702	M/s. Lenora Chits and Finance Private Limited

1	2	3
13.	9818	M/s. Provind Kuries and General Finance Private Limited
14.	9885	M/s. J. B. S. Crumb Private Limited
15.	9937	M/s. Autopark Private Limited
16.	9981	M/s. Sahyasoorya Agro Farms Private Limited
17.	10062	M/s. Munnar Gardens Private Limited
18.	10091	M/s. M. C. Field Marketing and Research Private Limited
19.	10176	M/s. Kaithari Karalkada and Investments Private Limited
20.	10185	M/s. Sree Hari Kuries and Loans Private Limited
21.	10294	M/s. Boon India Agro Products Limited
22.	10319	M/s. Chamathil Estates Private Limited
23.	10327	M/s. Royal Kuries and Loans Private Limited
24.	10328	M/s. Vijayas Goldart Private Limited
25.	10333	M/s. Sudanraj Contructions Private Limited
26.	10383	M/s. F I F I Trades Private Limited
27.	10388	M/s. Highlanders Securities Private Limited
28.	10394	M/s. Kshethra Financial Service Private Limited
29.	10423	M/s. Udayjyothi Chits and Finance (India) Private Limited
30.	10459	M/s. Nirmalyam Kuries Private Limited
31.	10477	M/s. Green Land Associates Private Limited
32.	10481	M/s. Sreemuthappan Chits and Finance Company Private Limited
33.	10519	M/s. Dhanwanthari Chikitsalaya and Health Resorts Private Limited
34.	10542	M/s. Varaha Chit and Finance Company Private Limited
35.	10553	M/s. Marva Trading Company Private Limited
36.	10558	M/s. Easwari Papers Private Limited
37.	10559	M/s. Prime Moulders Private Limited
38.	10562	M/s. Astra Spices and Chemicals Private Limited
39.	10570	M/s. Unnathi Chits and Finance Private Limited

1	2	3
40.	10578	M/s. Sea Waves Finance and Hire Purchase Private Limited
41.	10654	M/s. Dhanroop Chits and Finance Private Limited
42.	10657	M/s. Sidhartha Kuries and Loans Private Limited
43.	10670	M/s. Broadcast India Television Network Private Limited
44.	10685	M/s. Sree Keerthanam Kuries and Loans Private Limited
45.	10698	M/s. B. S. Techno Rubbers Private Limited
46.	10719	M/s. Sree Padmam Private Limited
47.	10725	M/s. T and T Agro Trades Private Limited
48.	10728	M/s. Goodfina Credits and Investments Private Limited
49.	10736	M/s. Skyking Travels Private Limited
50.	10748	M/s. Homarus Maritime Private Limited
51.	10757	M/s. Sukumar Engineering Company Private Limited
52.	10795	M/s. Elyon Marketing Private Limited
53.	10813	M/s. Cam-Man's Colour Lab Private Limited
54.	10849	M/s. Anil Advertising Agency Private Limited
55.	10850	M/s. Subhadra Exports Imports Private Limited
56.	10856	M/s. Acorn Trading Company Private Limited
57.	10857	M/s. Mahamood and Mahamood Private Limited
58.	10867	M/s. Ekadantha Kuries Private Limited
59.	10893	M/s. Khatai Agro Foods Private Limited
60.	10932	M/s. Travancore Minerals Private Limited
61.	11040	M/s. Eau-de-Vie Private Limited
62.	11042	M/s. Milestone Marketing Services Private Limited
63.	11052	M/s. Sivas No. 1 Trinity Beach Resorts Private Limited
64.	11116	M/s. Sun and Dew Hill Resorts Private Limited
65.	11119	M/s. Kanjana Chitties and Loans Private Limited

1	2	3
66.	11133	M/s. Chell India Private Limited
67.	11140	M/s. Beachland Products Private Limited
68.	11157	M/s. Devamangalam Finance and Kuries Private Limited
69.	11159	M/s. Dhananjaya Kuries and Loans Private Limited
70.	11164	M/s. Grace Granite and Mineral Water Company Private Limited
71.	11175	M/s. Brahma Latex Private Limited
72.	11185	M/s. Megha Milk Private Limited
73.	11186	M/s. Quasar Chits and Finance Private Limited
74.	11188	M/s. Fountain Data Forms Private Limited
75.	11192	M/s. Moolika Herbals Private Limited
76.	11201	M/s. Mc-Vin Construction Private Limited
77.	11218	M/s. Oriental Consultancy Service India Private Limited
78.	11236	M/s. Eagle Crafts Company Private Limited
79.	11253	M/s. Aesthetic Projects Private Limited
80.	11258	M/s. S. K. Cards Private Limited
81.	11261	M/s. National Publishing House Private Limited
82.	11263	M/s. First Line Communications Private Limited
83.	11268	M/s. D. S. J. Informatics Private Limited
84.	11286	M/s. Resort Developers Company Private Limited
85.	11287	M/s. Chovakaran Finance Company Private Limited
86.	11291	M/s. I. B. C. Comtec Private Limited
87.	11334	M/s. Tradeways Exporting Company Private Limited
88.	11359	M/s. Hertz Hire Purchase and Leasing Private Limited
89.	11362	M/s. Baldamot Farm and Dairy Private Limited
90.	11363	M/s. Pavaratty Kuries and Loans Private Limited
91.	11367	M/s. Ambadi Farm Private Limited
92.	11383	M/s. The Lord Films Private Limited
93.	11397	M/s. Keram Ayurvedic Health Resorts Private Limited



1	2	3
94.	11411	M/s. Chartered Tourism and Motels Private Limited
95.	11455	M/s. Polytech Machineries Private Limited
96.	11483	M/s. Rahmath Real Estates Private Limited
97.	11491	M/s. Mural & Coatings Private Limited
98.	11530	M/s. Lee and Alexander Enterprises Private Limited
99.	11532	M/s. Frontier Estates Private Limited
100.	11561	M/s. Madhavi Engicons Private Limited
101.	11568	M/s. Dee Vee Estates and Developers Private Limited
102.	11574	M/s. Venjay Trades & Services Private Limited
103.	11579	M/s. Kakkassery Finance and Investment Company Private Limited
104.	11586	M/s. Macfield Marketing Private Limited
105.	11606	M/s. Gramalakshuni Chits and Loans Private Limited
106.	11619	M/s. Pink and Goodwill Services Private Limited
107.	11625	M/s. Vast Electronic Systems Private Limited
108.	11636	M/s. O & C Systems & Projects Private Limited
109.	11641	M/s. Maydale Exports Private Limited
110.	11650	M/s. Mayuram Investments and Kuries Private Limited
111.	11660	M/s. Vezhaparambil Enterprises Private Limited
112.	11671	M/s. Safetech Industries Private Limited
113.	11677	M/s. Ansa Foods Private Limited
114.	11686	M/s. Harijan Grama Vyavasaya Limited
115.	11698	M/s. Interconnect Travel and Tourism Private Limited
116.	11711	M/s. Amazon Granites Private Limited
117.	11725	M/s. Laxmidas Jewellers India Private Limited
118.	11753	M/s. Cochin Palmyra Recreation Centre Private Limited
119.	11760	M/s. Technocrat Steel Private Limited
120.	11776	M/s. Juno Boutique Private Limited

1	2	3
121.	11807	M/s. Saven Consultancy Services Private Limited
122.	11816	M/s. Uthradam Chits and Finance Private Limited
123.	11821	M/s. Alien Rubber Private Limited
124.	11852	M/s. Main Stream Cinema Private Limited
125.	11905	M/s. M. T. I. Motors India Private Limited
126.	11947	M/s. Webskool Marketing Private Limited
127.	11950	M/s. Kuiluth Chitty Fund Private Limited
128.	11989	M/s. Mensa Management Consultants Private Limited
129.	11990	M/s. Jyothi Cattle Feeds Private Limited
130.	12004	M/s. Thayil Impex and Tours Private Limited
131.	12008	M/s. Pentagon Chits Private Limited
132.	12009	M/s. Chiyari Powertech Private Limited
133.	12012	M/s. Konchery Eco Systems Private Limited
134.	12018	M/s. Anandam Chitty Fund Private Limited
135.	12025	M/s. Binbin Exports Private Limited
136.	12026	M/s. Guru Movie Makers Private Limited
137.	12032	M/s. Chaitanya Exports and Imports Private Limited
138.	12035	M/s. Cherai Kuries Private Limited
139.	12039	M/s. Sysin Softwares Private Limited
140.	12057	M/s. Sea Breeze Hotels Private Limited
141.	12077	M/s. World Advertising Private Limited
142.	12078	M/s. Vismaya Marketing Private Limited
143.	12100	M/s. Malayalam Medical Mission Private Limited
144.	12106	M/s. Safety Water Proofing Private Limited
145.	12110	M/s. Chithraseema Films Private Limited
146.	12111	M/s. Pulithara Chitty Funds Private Limited
147.	12124	M/s. Thiruvonam Finance Private Limited
148.	12128	M/s. Greenoasis Environmental Engineering Private Limited
149.	12132	M/s. Pooram Chitty and Loans Private Limited
150.	12162	M/s. Syndicat Trade Links Private Limited

1	2	3	1	2	3
151.	12172	M/s. Winthrop Hotels Private Limited	178.	12418	M/s. Integral Lubes and Polymers Private Limited
152.	12179	M/s. Bee Gee Tours and Travels Private Limited	179.	12420	M/s. Holiday Village Private Limited
153.	12191	M/s. Coxswain Courier Private Limited	180.	12432	M/s. Topspot Villas Private Limited
154.	12193	M/s. Valsalya Rajiv Raksha Athura Asritha Seva Private Limited	181.	12443	M/s. Chengal Chits Private Limited
155.	12196	M/s. Homoeo Dealers Wholesale Depot Private Limited	182.	12452	M/s. New Waves Ready Wears Private Limited
156.	12224	M/s. The Water Side Inn Private Limited	183.	12454	M/s. Seven Star Plywood Private Limited
157.	12227	M/s. Aminu Foods Private Limited	184.	12468	M/s. King Veneers Private Limited
158.	12241	M/s. Panickers Agri Organics India Private Limited	185.	12470	M/s. Integrated Solar Systems India Private Limited
159.	12247	M/s. Salih Granites Private Limited	186.	12506	M/s. Technology Aided Security-Kochi Private Limited
160.	12248	M/s. Akash Interior and Exteriors Private Limited	187.	12520	M/s. Portable Systems Private Limited
161.	12250	M/s. Enpeeys Holdings and Investments Private Limited	188.	12530	M/s. Savitar Cyber Consultants Private Limited
162.	12254	M/s. Vallikkatt Elastomers Private Limited	189.	12531	M/s. Mythri Car Share Private Limited
163.	12273	M/s. Valakodu Tea Private Limited	190.	12541	M/s. Monto Largo Electronics Private Limited
164.	12285	M/s. Cedicom Capacitors and Components Private Limited	191.	12543	M/s. Vellannikkara Kuries Private Limited
165.	12286	M/s. Instate Couriers and Cargoes Private Limited	192.	12562	M/s. S. G. Distilleries Private Limited
166.	12301	M/s. Metal Systems and Utilities Private Limited	193.	12568	M/s. Bismi Marien Exports Private Limited
167.	12324	M/s. Easwari Power Mills Private Limited	194.	12572	M/s. Holiday Builders Private Limited
168.	12347	M/s. Chaithram Kuries Private Limited	195.	12620	M/s. Newlook Kuries Private Limited
169.	12355	M/s. Cocoon Heritage Homes Private Limited	196.	12654	M/s. Swaraj Securities Private Limited
170.	12358	M/s. C. K. M. Food Products Private Limited	197.	12655	M/s. Raiment Exports Private Limited
171.	12374	M/s. Akai Creations Cinema Private Limited	198.	12668	M/s. Best Medicare Pharmaceuticals India Private Limited
172.	12381	M/s. Superjac Chits Private Limited	199.	12695	M/s. Sailoserve Sales and Services Private Limited
173.	12394	M/s. Nam's Network Private Limited	200.	12697	M/s. Goldberg Beverages Private Limited
174.	12399	M/s. Marcard Private Limited	201.	12707	M/s. Pavizham Wonderland and Resorts Private Limited
175.	12405	M/s. Bee Pont Marketing Private Limited	202.	12708	M/s. Symphony Furnitures Private Limited
176.	12413	M/s. Handicrafts Enterprises Private Limited	203.	12723	M/s. Skygrip Contractors Private Limited
177.	12415	M/s. Travancore Lotteries and Marketing Services Limited	204.	12748	M/s. Mugal Kuries Private Limited
			205.	12815	M/s. Amrith Medicare Services Private Limited
			206.	12818	M/s. Siltech Technologies Private Limited

1	2	3
207.	12840	M/s. Y. M.'s Lottery Services India Limited
208.	12890	M/s. Malayalee Construction Company Private Limited
209.	12895	M/s. Amy-Ben Amusements Private Limited
210.	12915	M/s. Thashreef Air Traffic Services Private Limited
211.	12969	M/s. Cansat Network Systems and Technologies Private Limited
212.	12976	M/s. Sree, Muruga Timbers Private Limited
213.	12987	M/s. Manilal Soaps and Cosmetics Private Limited
214.	13012	M/s. Escadow India Trades Private Limited
215.	13045	M/s. Koottil Roller Flour Mills Private Limited
216.	13049	M/s. Gosri Exim Private Limited
217.	13062	M/s. N. L. Exports Private Limited
218.	13106	M/s. Surplus Services (India) Private Limited
219.	13128	M/s. Kalliarra Estates Private Limited
220.	13137	M/s. Rins Marketing Service Private Limited
221.	13138	M/s. Pest Service India Private Limited
222.	13151	M/s. Sujith Enterprises Private Limited
223.	13190	M/s. Richierich Hotels and Resorts (India) Private Limited
224.	13191	M/s. Nadeem Trading Private Limited
225.	13219	M/s. Goodlook Communications Private Limited
226.	13226	M/s. Sky Tex Trading (India) Private Limited
227.	13229	M/s. Endamthuruthil Eravi Ayurveda Marma Vaidya Sala Private Limited
228.	13260	M/s. Chicago Revolving Restaurants Private Limited
229.	13284	M/s. Our Own Trading Company Private Limited
230.	13289	M/s. Instafreez Warehouses Limited
231.	13301	M/s. P. A. Mohammed Salim Contractors Private Limited
232.	13306	M/s. Varsha Contractors Private Limited

1	2	3
233.	13316	M/s. Malayazhma Resorts (India) Private Limited
234.	13322	M/s. Salwa Marketing Private Limited
235.	13323	M/s. J. M. C. Bricks Complex Private Limited
236.	13336	M/s. Nadumangadu Rubber Trading Private Limited
237.	13461	M/s. Shrivijay Hospital Research and Health Care Private Limited
238.	13464	M/s. Akash Marine Private Limited
239.	13471	M/s. Kunjanar Publications Private Limited
240.	13474	M/s. Lotus (Novell) Computer System and Services Private Limited
241.	13483	M/s. Sivasailam Wire Nettings Private Limited
242.	13526	M/s. Sunberry's Foods Private Limited
243.	13530	M/s. Alleppey Gas Agencies Private Limited
244.	13599	M/s. Soft Track IT Solutions Private Limited
245.	13622	M/s. K. B. Timber and Wood Works Private Limited
246.	13631	M/s. People Tech Services Private Limited
247.	13714	M/s. Millennium Media Vision Private Limited
248.	13720	M/s. Absolute Secure Information Resources Technologies Private Limited
249.	13766	M/s. Saab Hygienic Products Marketing Private Limited
250.	13767	M/s. D. I. G. Fuer Software Entwicklung Private Limited
251.	13775	M/s. Kallaparambil Kuries Private Limited
252.	13778	M/s. Z. Trade Combines Private Limited
253.	14186	M/s. Mentor Hospital Equipments Private Limited
254.	14208	M/s. Kalpaka Leasing Private Limited
255.	14226	M/s. Orbit Condiments Private Limited
256.	14238	M/s. Volga Polymers Private Limited
257.	14272	M/s. Holsoft Systems Private Limited

S. M. AMEERUL MILLATH  
Registrar of Companies  
(Kerala)

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies :

Ernakulam Kochi-21, the 22nd September 2006

No. 560(5)/Liq/4270.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following Companies has this day been struck off from the Register and the said Companies are dissolved :—

Sl. No.	Co. No.	Name of Company
1	2	3
1.	3385	M/s. Pottassery Plantation Private Limited
2.	3691	M/s. Poothiecode Plantation & Agencies Private Limited
3.	3773	M/s. Jabel Plantation Private Limited
4.	4286	M/s. Dhoni Metal Crushing Company Private Limited
5.	4554	M/s. Malathadam Plantation Private Limited
6.	4689	M/s. Kalpaka Finance Private Limited
7.	4869	M/s. Reliance Printing Ink Private Limited
8.	5270	M/s. V. A. K. Supermarkets Private Limited
9.	5371	M/s. Dakshina Patrika Private Limited
10.	5526	M/s. Mithri Silk & Plantation Company Limited
11.	5626	M/s. Pazhanji Kuries and Investments Private Limited
12.	5653	M/s. Dhanus Engineers and Consultants Private Limited
13.	6843	M/s. Thekkumcore Plantation Private Limited
14.	7279	M/s. Greenacres Plantation Private Limited
15.	7281	M/s. Kanjuparambil Plantation Private Limited
16.	7354	M/s. Subarban Plantation Private Limited
17.	8346	M/s. Sudha Plantaion Private Limited

1	2	3
18.	8695	M/s. Phileta Plantation & Resorts Private Limited
19.	8720	M/s. Kavdia Plantation Private Limited
20.	8747	M/s. Samaritan Plantations & Good Farm Private Limited
21.	8753	M/s. Crescent Aqua Projects India Private Limited
22.	9248	M/s. Controls and Communications Technologies Private Limited
23.	10279	M/s. Trichur Food Products Private Limited
24.	10628	M/s. Venad Plantations Private Limited
25.	13261	M/s. Unine Infotech Private Limited
26.	14328	M/s. Beaumont Land Developers and Constructions Limited

S. M. AMEERUL MILLATH  
Registrar of Companies  
(Kerala)

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies :

Ernakulam-682 021, the 13th September 2006

No. 560 (3) SM/4165.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of the following companies unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register and the said Companies will be dissolved:—

Sl. No.	Regn. No.	Name of Company
1	2	3
1.	13937	M/s. Nuranet Info Tech. Com Private Limited
2.	14974	M/s. SAP Technologies Private Limited

K. SREEKUMAR  
Asstt. Registrar of Companies  
(Kerala)